



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 195] नई दिल्ली, शनिवार, जून 18, 1977/ज्येष्ठ 28, 1899

No. 195] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18, 1977/JYAISTHA 28, 1899

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 282(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Cinematograph films, exposed falling under sub-heading No. (3) of Heading No. 37.01/08 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from—

- (a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of twenty per cent. of the amount paid or to be paid for the right of exhibition of the said films in India; and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act.

[No. 71/F. No. Bud.(2)-Cus./77]

## राजस्व और बैंकिंग विभाग

## अधिसूचनाएँ

## सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा०का०नि० 282 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 37.01/08 के उपशीर्ष सं० (3) के अन्तर्गत सम्मिलित उद्भासित चलचित्र फिल्मों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए—

(क) उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से जो उक्त फिल्मों के भारत में प्रदर्शन के अधिकार के लिए मदत की जा चुकी या संदेय रकम के बीस प्रतिशत से अधिक है ; और

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से,

छूट देती है ।

[सं० 71/का० सं० बजट (2)-सी०शु०/77]

G.S.R. 283(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 234-Customs, dated 2nd August, 1976 the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts newsprint, falling under sub-heading (2) of Heading No. 48.01/21 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the customs duty leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of two and a half per cent. *ad valorem*.

[No.72/F. No Bud(2)-Cus/77]

सा०का०नि० 283 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 234-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिकान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 48.01/21 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत सम्मिलित न्यूजप्रीटों को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के ढाई प्रतिशत से अधिक है ।

[सं० 72/का० सं० बजट (2)-सी०शु०/77]

G.S.R. 284(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts stereo slongs and matrix boards, falling under Heading No. 48.01/21 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule as is in excess of 40 per cent *ad valorem*.

[No. 73/F No Bud(2)-Cus-/77]

सा० का० नि० 284 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 48.01 21 के अन्तर्गत सम्मिलित स्टीरियो फ्लोगो ग्रीर मैट्रिक्स बोर्डों की, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 73/का० सं० बजट (2)-सी० शु०/77]

**G.S.R. 285 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Sl No.	Notification No and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
(1)	No. 240-Customs dated 2nd August, 1976	For the words "the whole of the duty of customs which is specified in the said First Schedule", the words "so much of that portion of the duty of customs which is specified in the said First Schedule as is in excess of twenty per cent <i>ad valorem</i> " shall be substituted.
2.	No. 252-Customs, dated 2nd August, 1976	For the figures and words, "57 per cent. <i>ad valorem</i> ", the words "thirty-two and a half per cent. <i>ad valorem</i> " shall be substituted.

[No. 74/F.No.Bud(2)-Cus/77]

सा०का०नि० 285 (अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निदेश करती है कि भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की वे अधिसूचनाएं जो इससे उपावद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी।

#### सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	सं० 240-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976	"समस्त सीमाशुल्क के, जो उपर्युक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदीय से छूट देती है" शब्दों के स्थान पर, "उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है" शब्द रखे जाएंगे।

(1)

(2)

(3)

2. सं० 252-सीमाशुल्क, तारीख "मूल्य के 57½-प्रतिशत" अर्कों और शब्दों के 2 अगस्त, 1976 स्थान पर, मूल्य के साठे बत्तीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 74/फा० सं० बजट (2)-सी०शु० /77]

**G.S. R. 286(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts articles, other than polyester fibre, falling under Heading No. 56 01/04 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 100 per cent *ad valorem*

Provided that nothing contained in this notification shall affect any exemption made by any other notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking for the time being in force, in relation to the duty of customs in respect of the articles referred to in this notification.

[No 75/F. No Bud(2)-Cus/77]

**सा० का०नि० 286(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 56. 01/02 के अन्तर्गत सम्मिलित पालिएस्टर फाइबर से भिन्न वस्तुओं को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 100 प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बाबत सीमा-शुल्क के संबंध में तत्समय प्रवृत्त, किसी अन्य अधिसूचना द्वारा दी गई किसी छूट पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

[सं० 75/ फा० सं० बजट (2)-सी०शु०/77]

**G.S.R. 287(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with clause 31 of the Finance (No. 2) Bill, 1977, which clause has, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods falling under the headings or sub-headings of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) specified in column (2) of the Table hereto annexed (other than those specified in column (5) of the said Table), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of—

- the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, where the standard rate of duty is leviable; and
- the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, where the preferential rate of duty is leviable.

THE TABLE

Sl. No.	Heading No. or sub-heading No. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Standard rate of duty	Preferential rate of duty if the goods are the produce or manufacture of U.K.	Description of the goods to which statutory rates of duty shall apply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	69 09.	60 per cent <i>ad valorem</i> ]	..	Elements made of soft ferrite.
2.	Sub-heading (1) of heading No 84 51/55	60 per cent <i>ad valorem</i>	.	Key boards of following machines, namely, electronic calculating machines, electronic accounting machines, and electronic cash registers.
3.	Sub-heading (2) of heading No.85 01.	60 per cent <i>ad valorem</i>	.	Electric motors designed to operate in the range of 4 5 volts to 7 5 volts DC and with current ratings upto 200 milliamperes.
4.	Sub-heading (3) of heading No.85 01.	60 per cent <i>ad valorem</i>	57 5 per cent <i>ad valorem</i>	(i) Ferrite core transformers whose rated output voltage is more than 10 kilovolts, (ii) Inductors, namely, loading coils for insertion in telephone or telegraph line circuits.
5.	85 13.	60 per cent <i>ad valorem</i>	.	(i) Parts made of ferrite; (ii) Parts containing thermionic voves or transistors or similar semi-conductor devices or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors.
6.	85 14.	60 per cent <i>ad valorem</i>	57 5 per cent <i>ad valorem</i>	Microphones and stands therefor; loudspeakers.
7.	Sub-heading (1) of heading No.85 15.	60 per cent <i>ad valorem</i>	..	(i) Parts of Radio-telegraphic and radio-telephonic transmission and reception apparatus containing thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Sub-heading (1) of heading No.85 18/27.	60 per cent <i>ad valorem</i>	57 5 per cent <i>ad valorem</i>	(i) Resistors of power rating upto 20 watts;	(ii) Parts of other wireless transmission apparatus containing thermionic valves or transistor or similar semi-conductor devices or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors.
			(ii) Diodes, transistors and light emitting diodes;	
			(iii) Electronic microcircuits including monolithic display devices;	
			(iv) Electronic valves and tubes, namely,—	
			(a) rectifying valves and tubes upto 2000 volts Peak Inverse Voltage and upto 5 Amperes current rating;	
			(b) triodes, tetrodes, pentodes or any combination thereof;	
			(c) cold cathode type and thermionic type which are for use as display devices; and	
			(d) television picture tubes;	
			(v) Mounted piezo electric crystals including transducers;	
			(vi) Relays and switches designed for use in circuits upto 100 volts and upto 10 amperes current rating;	
			(vii) Connectors, namely plugs and sockets other than those having all the pins or contacts designed for use in circuits of 200 volts and above.	

सा०का०नि० 287(अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त(सं० 2) विधेयक, 1977 के खंड 31 के साथ पठित, जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षों या उपशीर्षों के अन्तर्गत सम्मिलित और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट [उन से भिन्न जो उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट हैं] मालों को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो—

- (क) वहां जहां शुल्क मानक दर से उद्ग्रहणीय है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर से अधिक है ;
- (ख) वहां जहां शुल्क अधिमानी दर से उद्ग्रहणीय है, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है ।

#### सारणी

क्रम	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में शीर्ष सं० या उपशीर्ष सं०	शुल्क की मानक दर	यदि माल यूनाइटेड किंगडम का उत्पाद या विनिर्माण है तो शुल्क की अधिमानी दर	माल का वर्णन जिसको कानूनी दरे लागू होगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	69.09	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	—	मृदु फॅराइट से बने अवयव
2.	शीर्ष सं० 84.51 / 55 का उपशीर्ष (1)	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	—	निम्नलिखित मशीनों के की बोर्ड अर्थात्, इलैक्ट्रॉनिकी गणना मशीनें, इलैक्ट्रॉनिकी लेखा मशीनें, इलैक्ट्रॉनिकी कैश रजिस्टर ।
3.	शीर्ष सं० 85.01 का उपशीर्ष (1)	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	—	4.5 वोल्ट से 7.5 वोल्ट डी०सी० की रेंज में कार्यकरण के लिए डिजाइन की गई बिद्युत मोटरें और जिनका करंट रेटिंग 200 मिली एम्पीयर तक हो ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	शीर्ष सं० 85.01 का उपशीर्ष (3)	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	57.5 प्रतिशत मूल्यानुसार	(i) कैराइट कोर ट्रांसफार्मेर जिनकी रेटेड आऊटपुट वोल्टता 10 किलोवोल्ट से अधिक हो ; (ii) इण्डक्टर, अथवा, टेलि- फोन या टेलिग्राफ लाइन परिपथ में लगाए जाने के काँयल ।
5.	85.13	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	—	(i) कैराइट के बने भाग (पार्ट); (ii) ऐसे भाग (पार्ट) जिनमें तापायानिक वाल्व या ट्रांजिस्टर या तत्समान अर्धचालक सामान या इले- क्ट्रानिकी माइक्रो परिपथ या पेपर संधारित्र (कपेसिटर) से भिन्न संधारित्र ।
6.	85.14	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	57.5 प्रतिशत मूल्यानुसार	माइक्रोफोन और उनके स्टैंड ; लाऊडस्पीकर ।
7.	शीर्ष सं० 85.15 का उपशीर्ष (1)	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	—	(i) रेडियो टेलिग्राफी और रेडियो टेलिफोनी संचार और रिसेप्शन उपकरण के भाग (पार्ट) जिनमें तापा- यानिक वाल्व या ट्रांजिस्टर या तत्समान अर्धचालक या इलेक्ट्रानिकी माइक्रो परिपथ या पेपर संधारित्र (कपेसिटर) से भिन्न संधारित्र; (ii) अन्य बेतार पारेषण साधनों के भाग (पार्ट) जिनमें तापायानिक वाल्व या ट्रांजिस्टर या तत्समान अर्धचालक साधन या इलेक्ट्रानि- की माइक्रो परिपथ या पेपर संधारित्र (कपेसिटर) से भिन्न संधारित्र ।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. शीर्ष सं० 85. 18/ 27 का उपशीर्ष (1)	60 प्रतिशत मूल्यानुसार	57.5 प्रतिशत मूल्यानुसार		<p>(i) विद्युत प्रतिरोधक 20 वाट तक के रेटिंग वाले;</p> <p>(ii) डायोड, ट्रांजिस्टर तथा प्रकाश फैलाने वाले डायोड ;</p> <p>(iii) इलेक्ट्रॉनिकी मादको परिपथ जिनमे मोनोलिथिक प्रदर्शन साधन भी आते हैं ;</p> <p>(iv) इलेक्ट्रॉनिकी वाल्व और ट्यूबें, अर्थात् :-</p> <p>(क) विष्टकारी वाल्व और ट्यूबें, जिनकी प्रतीयशिखर वोल्टता 2000 वोल्ट तक हो और करेंट रेटिंग 5 एम्पीयर तक हो ;</p> <p>(ख) ट्रायोड, टेट्रोड, पेन्टोड या उनका कोई संयोजन ;</p> <p>(ग) शीतकैथोड प्रकार और तापायनिक प्रकार के कैथोड जो प्रदर्शन साधन के रूप में प्रयोग में आते हैं ; और</p> <p>(घ) टेलिविजन पिक्चर ट्यूबें ;</p> <p>(v) माउन्टेड दाब विद्युत क्रिस्टल जिसमें ट्रान्सड्यूसर भी आते हैं ;</p> <p>(vi) रिल और स्विच जो 100 वोल्टता तक के परिपथ में प्रयोग के लिए डिजाइन किए गए हों, जिनकी करेंट रेटिंग 10 एम्पीयर तक हो ।</p> <p>(vii) संबधक (कनेक्टर), अर्थात्, सब पिनों से युक्त से भिन्न प्लग और साकेट या 200 वोल्ट और उससे अधिक परिपथ के प्रयोग के लिए डिजाइन किए गए कन्टेक्ट ।</p>

**G.S.R. 288(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods, falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 73.15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of thirty-five per cent *ad valorem*.

[No. 77/F. No. Bur(2)-Cus/77]

सा० का० नि० 288(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 73.15 के उपशीर्ष सं० (1) के अन्तर्गत सम्मिलित माल को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जो मूल्य के पैंतीस प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 77/का० सं० बजट (2)—5 सी० शु०/77]

**G.S.R. 289(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (1) of the Table hereto annexed and falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 73.15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)
Stainless steel plates, sheets or strips of a thickness of—	
16 BG or more . . . . .	40 per cent. <i>ad valorem</i>
Less than 16 BG, but not less than 17 BG . . . . .	55 per cent. <i>ad valorem</i>
Less than 17 BG, but not less than 18 BG . . . . .	70 per cent. <i>ad valorem</i>
Less than 18 BG, but not less than 19 BG . . . . .	85 per cent. <i>ad valorem</i>
Less than 19 BG, but not less than 20 BG . . . . .	100 per cent. <i>ad valorem</i>
Less than 20 BG, but not less than 21 BG . . . . .	110 per cent. <i>ad valorem</i>
Less than 21 BG . . . . .	120 per cent. <i>ad valorem</i>

**Explanation.**—In this notification, the abbreviation "BG" means Birmingham Gauge which is used for measuring thickness

[No.-78/F.No. Bud(2)-Cus/77]

सां. कां. निं. 289(घ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं. 73.15 के उपशीर्ष सं. (2) के अन्तर्गत सम्मिलित और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट माल को उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है, छूट देती है।

## सारणी

माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)
स्टेनलेस स्टील की प्लेटें, चावरें या पट्टियाँ जिनकी मोटाई—	मूल्य का 40 प्रतिशत
16 वि० गे० या अधिक हो	
16 वि० गे० से कम किन्तु 17 वि० गे० से कम नहीं हो	मूल्य का 55 प्रतिशत
17 वि० गे० से कम किन्तु 18 वि० गे० से कम नहीं हो	मूल्य का 70 प्रतिशत
18 वि० गे० से कम किन्तु 19 वि० गे० से कम नहीं हो	मूल्य का 85 प्रतिशत
19 वि० गे० से कम किन्तु 20 वि० गे० से कम नहीं हो	मूल्य का 100 प्रतिशत
20 वि० गे० से कम किन्तु 21 वि० गे० से कम नहीं हो	मूल्य का 110 प्रतिशत
21 वि० गे० से कम नहीं हो 21 वि० गे० से कम हो	मूल्य का 120 प्रतिशत

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में “वि० गे०” संक्षेप-शब्दों से अभिप्रेत है विरमिषम गेज जोकि मोटाई नापने के लिए प्रयोग में आता है।

[सं. 78/फा० सं. बजट (2)—सी० शु०/77]

G.S.R. 290(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts electrolytic copper wire bars, falling under Heading No. 74.01/02 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of the articles specified in the Schedule annexed hereto (hereinafter in the notification referred to as the “Schedule”), from—

- so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of thirty-five per cent *ad valorem*; and ..
- the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act:

Provided that—

- where the imported electrolytic copper wire bars are converted into wires and strips before being used in the manufacture of articles mentioned in the Schedule, the importer or the manufacturer of wires or strips, or
- where the imported electrolytic copper wire bars are used directly in the manufacture of articles specified in the Schedule, the importer, or the manufacturer of the said articles, as the case may be,

binds himself, by the execution of a bond in such form and such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, to pay on demand in respect of such quantity of electrolytic copper wire bars as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the manufacture of articles mentioned in the Schedule, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

#### THE SCHEDULE

- (a) Electric motors of 5 K W. and above;
- (b) Generators of 100 V and above; and
- (c) Transformers of rating of 150 KVA and above.

[No. 79/F. No Bud(2)-Cus/77]

सा० का० नि० 290 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 74.01/02 के अन्तर्गत सम्मिलित इलेक्ट्रोलिटिक तांबा तार की शलाखाओं को, जब उनका इससे उपाबद्ध अनुसूची में (जिसे इस अधिसूचना में "अनुसूची" कहा गया है) विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए,—

- (क) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से, जितना मूल्य के पैतृस प्रतिशत से अधिक है, और
- (ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से,

छूट देती है :

परन्तु यह कि—

- (क) जहां आयातित इलेक्ट्रोलिटिक तांबा तार की शलाखाओं को, अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण में उनका प्रयोग करने से पहले तारों और पट्टियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तारों या पट्टियों का आयातकर्ता या विनिर्माता, अथवा
- (ख) जहां आयातित इलेक्ट्रोलिटिक तांबा तार की शलाखाएं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण में सीधे प्रयोग में लाई जाती हैं, वहां ऐसी वस्तुओं का आयातकर्ता अथवा विनिर्माता,

ऐसे बन्धपत्र का निष्पादन करके, जिका प्ररूप और जिसकी रकम सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वयं को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करे कि वह इलेक्ट्रोलिटिक तांबा तार शलाखाओं की ऐसी मात्रा के सम्बन्ध में, जिसकी बाबत सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं किया जाता कि उनका प्रयोग अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए किया गया है, मांग की जाने पर, ऐसी मात्रा पर, उस दशा में उद्ग्रहणीय शुल्क जो कि इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उद्ग्रहणीय होता, तथा आयात के समय पहले ही संदत्त किए गए शुल्क की रकम के बीच के अन्तर के समतुल्य रकम का संदाय करेगा।

#### अनुसूची

- (क) 5 कि० वा० और उससे अधिक की मोटरें ;
- (ख) 100 वाट और उससे अधिक के जेनरेटर ; और
- (ग) 150 के. वि० ए० तथा अधिक की रेटिंग के ट्रांसफार्मर।

[सं० 79/फा० सं० बजट (2)—सी० शु० / 77]

**G.S.R. 291(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with clause 31 of the Finance (No. 2) Bill, 1977, which clause has, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 266-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the said notification, after the words "aluminium manufactures, namely, plates, sheets, circles, strips, and foil" the words "other than etched Aluminium foil but" shall be inserted

[No 80/F. No. Bud(2)-Cus/77]

**सांकांनि० 291(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 के खंड 31 के साथ पठित, जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 266-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "एल्युमिनियम की विनिर्मितियों जैसे, प्लेटों, चादरो, सर्किलों, पत्तियों और पन्तियों" शब्दों के पूर्व "रसायन उत्कीर्ण एल्युमिनियम पत्तियों से भिन्न" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 80/फा० सं० बजट(2)-सी०शु०/77]

**G.S.R. 292(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with clause 31 of the Finance (No. 2) Bill, 1977, which clause has, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 286-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the said notification, after the words "wireless transmission apparatus and component parts of such apparatus", the words "other than those parts containing thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors", shall be inserted

[No 81/F. No. Bud(2)-Cus/77]

**सांकांनि० 292(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 के खंड 31 के साथ पठित, जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 286-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "वैतार पारेषण साधनों और ऐसे साधनों के संघटक भागों (पार्टों) को", शब्दों के पश्चात्, "उन भागों (पार्टों) से भिन्न जिनमें तापानात्मिक बाल्ब या ट्रांजिस्टर या तत्समान अर्ध चालक साधन या इलेक्ट्रॉनिकी माइक्रो-परिपथ या बैपर संधारित्र से भिन्न संधारित्र रहते हैं," शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 81/फा० सं० बजट(2)-सी०शु०/77]

**G.S.R. 293(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with clause 31 of the Finance (No. 2) Bill, 1977, which clause has, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts paper capacitors falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 85 18/27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs, leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 60 per cent *ad valorem*.

[No. 82/F No Bud(2)-Cus/77]

**सांकांनि० 293 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं 2) विधेयक, 1977 के खंड 31 के साथ पठित, जो खंड करो का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 35.18 27 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत सम्मिलित पेपर सधारित्रो (केपेसिटेटर) को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जो 60 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[सं० 82 फा०सं०बजट(2)-सी०शु०/77]

**G.S.R. 294(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts motor vehicles falling under sub-heading (2) of Heading No. 87 02 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and of an engine capacity not exceeding 1600 cc. when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 100 per cent *ad valorem*.

[No. 83/F No. Bud(2)-Cus/77]

**सांकांनि० 294 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 87 02 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत सम्मिलित मोटर वानों को तथा जिनकी क्षमता 1600 सी सी से अधिक न हो, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 100 प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 83 फा०सं०बजट(2)-सी०शु०/77]

**G.S.R. 295(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts watches and parts thereof (including semi-knocked down or completely knocked down packs), falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 91 01/11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of forty-five per cent *ad valorem*.

[No. 84/F. No Bud(2)-Cus/77]

सां. कां. नि० 295 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 91.01/11 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत सम्मिलित घड़ियों और उनके पाटों को (जिसमें पूरी तरह संयोजित या अर्ध संयोजित पैक भी आते हैं), जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्योगीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जो मूल्य के 45 प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 84 फा० सं० बजट (2)—सी० शु० '77]

G.S.R. 296(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No 369-Customs dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the Schedule below the said notification, after serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“13 No 71-Customs, dated 18th June 1977.

14 No 72-Customs, dated 18th June 1977.

15. No. 78-Customs, dated 18th June 1977.”

[No 85/F. No Bud(2)-Cus/77]

सां. कां. नि० 296(अ) —केन्द्रीय सरकार, विस अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 369—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के नीचे अनुसूची में क्रम सं० 12 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् .—

“13. सं० 71—सीमाशुल्क, तारीख 18 जून, 1977।

14. सं० 72—सीमाशुल्क, तारीख 18 जून, 1977।

15. सं० 73—सीमाशुल्क, तारीख 18 जून, 1977।”

[सं० 85 फा० सं० बजट (2)—सी० शु० '77]

G.S.R. 297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 366-Customs dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the said notification, for the entry “85 02”, the entry “85 02(1)” shall be substituted

[No. 86/F. No Bud(2)-Cus/77]

सा० का० नि० 297(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 366-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “85.02” प्रविष्टि के स्थान पर, “85.02(1)” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं० 86/फा० सं० बजट (2)—सी० शु०/77]

**G.S.R. 298(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No 224-Customs, dated the 2nd August, 1976.

[No 87/F. No. Bud(2)-Cus/77]

सा० का० नि० 298(अ).—वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 224-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को विखण्डित करती है।

[सं० 87/फा० सं० बजट (2)—सी० शु०/77]

**G.S.R. 299(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts acrylic yarn, falling under Heading No. 51.01/03 or Heading No. 56.05/06, as the case may be, of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act

[No. 88/F. No. Bud(2)-Cus/77]

सा० का० नि० 299(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 51 01/03 या शीर्ष सं० 56 05/06 के अन्तर्गत सम्मिलित एक्रिलिक सूत को, उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ के अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उक्त उद्गूण्य सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 88/फा० सं० बजट (2)—सी० शु०/77]

**G.S.R. 300(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under item Nos. 26 and 28AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and specified in column No (2) of the Table hereto annexed, when imported into India, from so much of the additional duty, which is leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the rates specified in column (3) of the Table.



THE TABLE

Sl. No.	Description of the goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
		<i>Rs. per Metric Tonne</i>
1.	Steel ingots . . . . .	165
2.	Steel Melting Scrap . . . . .	165
3.	All forms of semi-finished steel falling under sub-item (1) of Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	165
4.	All products falling under sub-item (ia) of Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	165
5.	Rails and sleeper bars . . . . .	165
6.	Steel castings . . . . .	100
7.	All products falling under sub-item (11) of Item 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), except uncoated plates galvanised forms and galvanised plates and sheets, all sorts, including plain and corrugated—	
	(1) cold rolled sheets . . . . .	325
	(2) Others . . . . .	225
8.	Uncoated plates . . . . .	175
9.	Galvanised plates and sheets, all sorts, including plain and corrugated .	425
10.	Flats—	
	(a) not exceeding 5 millimetres in thickness . . . . .	225
	(b) exceeding 5 millimetres, but not exceeding 10 millimetres in thickness, .	175
	(c) exceeding 10 millimetres in thickness . . . . .	165
11.	Skelp . . . . .	325
12.	Strips—	
	(1) Galvanised strips, . . . . .	425
	(2) Other than Galvanised strips,—	
	(a) strips of iron and steel not below 5 millimetres, but not exceeding 10 millimetres in thickness and of not less than 600 millimetres in width, .	175
	(b) other cold rolled strips, . . . . .	325
	(c) other hot rolled strips, . . . . .	225
13.	Galvanised forms, the following: namely, ridges, ribs, channels, channel pipes, rain-water-pipes and fittings therefor, if rivetted or otherwise built up of plates or sheets.	425
14.	Seamless pipes and tubes. . . . .	175
15.	Pipes and tubes (including blanks therefor), all sorts, whether rolled, forged, spun, cast, drawn, annealed, welded or extruded (other than seamless pipes and tubes)—	
	(1) made of steel ingots, . . . . .	600
	(2) made of pig iron . . . . .	570

सा०का०नि० 300(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 और 26क के अन्तर्गत सम्मिलित मालों को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, जब उनका आयात भारत में किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक है ।

### सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
		र० प्रति मीटरी टन
1.	हस्पात की सिल्लियाँ (इंगोट)	165
2.	पिघला सक्रैप हस्पात (स्टील मेल्टिंग स्क्रेप)	165
3.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26क की उपमद (i) के अन्तर्गत सम्मिलित सभी रूपों में अर्ध परिष्कृत हस्पात	165
4.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26क की उपमद (i) के अन्तर्गत सम्मिलित सभी उत्पाद	165
5.	रेल और स्लिपर शलाकाएं	165
6.	हस्पात की ढलाइयाँ	100
7.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26क की उपमद (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित सभी उत्पाद सिवाए अलेपित प्लेटों, गालविनिकृत फार्मों और गालविनिकृत प्लेटों और चादरों, सभी प्रकार की, से भिन्न जिसके अन्तर्गत सादा और नालीदार चादरे भी आती हैं —	
	(1) शीतबेलित चादरें	325
	(2) अन्य	225
8.	अलेपित प्लेटें,	175
9.	गालविनिकृत प्लेटें, चादरें, सभी प्रकार की, जिसके अन्तर्गत सादा और नालीदार भी आती हैं	425

(1)	(2)	(3)
रु० प्रति मीटरी टन		
10. पलैट—		
(क) जो मोटाई में 5 मिली मीटर से अधिक न हो	.	225
(ख) जो मोटाई में 5 मिलीमीटर से अधिक हों किन्तु 10 मिलीमीटर से अधिक न हों	.	175
(ग) जो मोटाई में 10 मिलीमीटर से अधिक हों	.	165
11. स्कैल्प	.	325
12. पट्टियां (स्ट्रिप्स)—		
(1) गालविनिकृत पट्टियां	.	425
(2) गालविनिकृत पट्टियों से भिन्न पट्टियां—		
(क) लोहे और इस्पात की पट्टिया जो मोटाई में 5 किलोमीटर से कम न हों और 10 मिलीमीटर से अधिक न हों तथा चौड़ाई में 600 मिलीमीटर से कम न हों	.	175
(ख) अन्य शीतवेलित पट्टियां (स्ट्रिप्स)	.	325
(ग) अन्य तप्तवेलित पट्टिया (स्ट्रिप्स)	.	225
13. गालविनिकृत फार्म, अर्थात् निम्नलिखित : रिज, रिब, चैनल, चैनल पाइप, वर्षा जल पाइप, और उसको फिटिंगे, यदि रिबट की हुई हों अथवा अन्य प्रकार से प्लेटों और तारों की बनी हुई हों		425
14. सीवनहीन पाइप और ट्यूबें	.	175
15. सभी प्रकार की पाइपे और ट्यूबें (जिसके अन्तर्गत उनके ब्लैक भी आते हैं चाहे वे वेलित हों, गढ़े हुए हों, बटे हुए हों, ढले हुए हों, तापनुशीलित हों, वेल्ड किए हुए हों या वर्तमान हों (सीवनहीन पाइपों और ट्यूबों से भिन्न)—		
(1) इस्पात की सिलिलियों के बने हुए	.	600
(2) कच्चे लोहे के बने हुए	.	570

[सं० 89, फा० सं० बजट (2)-सत्र० शु०/77]

**G.S.R. No. 301(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and specified in column No. (2) of the Table hereto annexed, when imported into India, from so much of the additional duty, which is leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the rates specified in column (3) of the Table.

THE TABLE

Sl. No.	Description	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Aluminium falling under sub-item Nos (i) and (ii) of Item No 27(a) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944). <sup>1</sup>	30 per cent. <i>ad valorem</i> , plus Rs. 2000/- per tonne
2.	Aluminium manufactures, the following—namely, plates, sheets, circles (other than those mentioned in Sl No 3 of this Table), strips, shapes and sections in any form or size, not otherwise specified and falling under Item No. 27(b) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	30 per cent <i>ad valorem</i> , plus Rs. 2000/- per tonne
3.	Circles having thickness of and above 0.56 millimetres, but not above 1.22 millimetres.	21 per cent. <i>ad valorem</i> , plus Rs. 600/- per tonne.
4.	Pipes and tubes other than extruded pipes and tubes.	30 per cent. <i>ad valorem</i> , plus, Rs. 2,000/- per tonne.
5.	Extruded shapes and sections including extruded pipes and tubes	-do-
6.	Containers made of aluminium falling under sub-item (f) of Item No 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	30 per cent <i>ad valorem</i> , plus Rs. 2000/- per tonne.
7.	Aluminium foil falling under sub-item (c) of Item No 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	24 per cent. <i>ad valorem</i> , plus six hundred rupees per tonne.

*Explanation I.*—"Containers" means containers ordinarily intended for packaging of goods for sale, including casks, drums, cans, boxes, gas cylinders and pressure containers whether in assembled or unassembled condition, and containers known commercially as flattened or folded containers.

*Explanation II.*—For the purpose of this notification, in so far as duty is leviable on the weight of the aluminium foils, the weight shall be the net metal weight of the foils, that is to say, the weight of the foils, after excluding the weight of the coating or lacquering or backing or re-inforcing materials, if any, contained in such foils.

[No. 90/F. No. Bud (2)-Cus/77]

सांकांनि० 301(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मध सं० 27 के अन्तर्गत सम्मिलित और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मालो को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 की धारा 51) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक हो।

## सारणी

क्रम सं०	वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
1.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27(क) की उपमद सं० (i) और (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित एलुमिनियम ।	मूल्य का 30 प्रतिशत तथा 2000/- रुपए प्रति टन का योग ।
2.	एलुमिनियम की विनिर्मितिया, अर्थात्, निम्नलिखित —प्लेटें, चादरे, (चकिया) सर्किल (इस सारणी की क्रम सं० 3 से उल्लिखित से भिन्न) पट्टिया, शेष और संवर्धन किसी भी रूप में या आकार में, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए गए हों और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 (ख) के अन्तर्गत आते हों ।	मूल्य का 30 प्रतिशत तथा 2000/- रुपए प्रति टन का योग ।
3.	चकियायें (सर्किल) जिनकी मोटाई 0 56 मिली-मीटर अथवा अधिक हो किन्तु 1 22 मिलीमीटर से अधिक न हो ।	मूल्य का 21 प्रतिशत तथा 600/- रुपए प्रति टन का योग ।
4.	पाइप और ट्यूब, बहिर्भेदी पाइपों और ट्यूबों से भिन्न हों ।	मूल्य का 30 प्रतिशत तथा 2000/- रुपए प्रति टन का योग ।
5.	बहिर्भेदी शेष और संवर्धन, जिनके अन्तर्गत बहिर्भेदी पाइपों और ट्यूबों भी आती हैं ।	मूल्य का 30 प्रतिशत तथा 2000/- रुपए प्रति टन का योग ।
6.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 की उपमद (च) के अन्तर्गत सम्मिलित एलुमिनियम के बने हुए आधान ।	मूल्य का 30 प्रतिशत तथा 2000/- रुपए प्रति टन का योग ।
7.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 की उपमद (ग) के अन्तर्गत सम्मिलित एलुमिनियम पर्णिकाए ।	मूल्य का 24 प्रतिशत तथा छह सौ रुपए प्रति टन का योग ।

**स्पष्टीकरण** —“आधान” से वे आधान, जो सामान्यतया विक्रयार्थ माल की पैकिंग के लिए आशयित हैं, अभिप्रेत हैं और इनके अन्तर्गत पीपे, ड्रम, केन, डिब्बे, गैस सिलिंडर, और

दाब-धान भी आते हैं, चाहे वे समुचित दशा में हो या असमुचित दशा में हो, और वाणिज्य जगत में सामान्यतया सपाट (फ्लैट) या मुड़वां (फोल्ड) आधानों के नाम से ज्ञात आधान अभिप्रेत हैं।

**स्पष्टीकरण 2.**—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, वहां तक जहां तक शुल्क एलुमिनियम पत्रिकाओं के भार पर उद्ग्रहणीय है, पत्रिकाओं का शुद्ध धातुज भार होगा, अर्थात् ऐसी पत्रिका में विद्यमान लेंपन या लेकिरिंग या बैकिंग या ऊपर चढ़ाई गई सामग्री के भार को छोड़कर पत्रिका का भार।

[सं० 90/फा० सं० बजट (2)-सी० शु०/77]

**G.S.R. 302(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts tin plates and tinned sheets, including tin taggers and cuttings of such plates, sheets or taggers, falling under sub-item (1) of item No 28 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when imported into India, from so much of the additional duty, which is leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of Rs 520 per metric tonne.

[No. 91/F. No. Bud(2)-Cus/77]

**सा०का०नि० 302(अ)**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 28 की उपमद (i) के अन्तर्गत सम्मिलित टिन की प्लेटों, और टिन की चादरों, जिसके अन्तर्गत टिन के टैगर तथा ऐसी प्लेटों चादरों या टैगरों की कतरनें भी आती हैं, को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 520 रुपए प्रति मीटरी टन से अधिक है।

[सं० 91/फा० सं० बजट (2)-सी० शु०/77]

**G.S.R. 303(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, namely:—

1. No 219-Customs, dated the 2nd August, 1976.
2. No 253-Customs, dated the 2nd August, 1976.
3. No. 256-Customs, dated the 2nd August, 1976.
4. No. 293-Customs, dated the 2nd August, 1976.
5. No. 363-Customs, dated the 2nd August, 1976.

[No 92/F. No. Bud(2)-Cus/77]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.

**सा०का०नि० 303(अ)**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैकिंग विभाग की निम्न-लिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 219—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
2. सं० 253—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976

3. सं० 256—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
4. सं० 293—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
5. सं० 363—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976

[सं० 92, फा० सं० बजट (2)—सी० शु०/77]

जोसेफ डोमिनिक, अव्वर सचिव ।

## CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 18th June 1977*

**GSR. 304(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

## THE TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	64/60-Central Excises, dated the 20th April, 1960.	In the said notification, for the words, brackets and figures "sub-item II(1)" the words, brackets and figures "sub-item II(i)" shall be substituted;
2.	112/66-Central Excises, dated the 9th July, 1966.	In the proviso to the said notification, items (viii) and (ix) shall be omitted.
3.	91/70-Central Excises, dated 1st May, 1970.	In the said notification, (i) for the words "pasteurised butter" the words "butter, whether pasteurised or not" shall be substituted ; (ii) for the words "production of such pasteurised butter," the words "production of such butter" shall be substituted,
4.	93/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.	(i) In the said notification, for the words, figures and brackets, "falling under sub-item (3a) of Item No. 34" the words and figures "falling under sub-item II of Item No. 34" shall be substituted; (ii) In the Table annexed to the said notification, in column (3) against S. No. 3, for the words "Twelve per cent." the words "Twelve and a half per cent." shall be substituted
5.	94/73-Central Excises, dated the 24th March, 1973.	In the said notification, for the words, figures and brackets "sub-item (1)" the words "sub-item I" shall be substituted ;
6.	49/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974	In the said notification, for the words, brackets and figures "sub-item II(1)" the words, brackets and figures "sub-item II(i)" shall be substituted,

(1)	(2)	(3)
7. 117/75-Central Excises, dated the 30th April, 1975.		In the said notification, subject to such variations as the Rules of grammar may require, for the word "newspaper" wherever it occurs, the words "newspaper other than daily newspaper" shall be substituted;
8. 154/75-Central Excises, dated the 3rd June, 1975.		In the said notification in the Item (1) of the proviso, for the figures and word "55 paise" the words "one rupee and ten paise" shall be substituted;
9. 237/75-Central Excises, dated the 9th December, 1975.		In the said notification, for the words "twenty-five rupees" the words "one hundred and eighty rupees" shall be substituted,
10. 92/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.		In the said notification for the words "forty per cent. ad valorem", the words "twenty per cent. ad valorem" shall be substituted.

[No 112/77]

### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा. का. नि. 304.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राज व विभाग, राजस्व और बीमा विभाग, अथवा राजस्व और बैंकिंग विभाग की वे अधिसूचनाएं जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित या और आगे संशोधित की जाएंगी।

### सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	64/60—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1960	उक्त अधिसूचना में, "उपमद 2(1)" शब्दों, अंको और कोष्ठको के स्थान पर, "उपमद 2(i)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।
2.	112/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 1966	उक्त अधिसूचना के परन्तुक में से मद (viii) और (ix) का लोप किया जाएगा।
3.	91/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1970	उक्त अधिसूचना में,— (i) "पास्तुरिकृत मक्खन को" शब्दों के स्थान पर "मक्खन को, चाहे वह पास्तुरिकृत हो अथवा नहीं" शब्द रखे जाएंगे;



(1)	(2)	(3)
		(ii) 'ऐसे पास्तुरिकृत मक्खन का उत्पादन' शब्दों के स्थान पर, "ऐसे मक्खन का उत्पादन" शब्द रखे जाएंगे।
4. 93/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972		(i) "मद सं० 34 की उपमद (3क) के अन्तर्गत आने वाले" शब्दों, अंको, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, "मद सं० 34 की उपमद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (ii) उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 3 के सामने स्तम्भ (3) में, "बारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "साढे बारह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।
5. 94/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 मार्च, 1973		उक्त अधिसूचना में, "उपमद (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपमद 1" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
6. 49/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974		उक्त अधिसूचना में, "उपमद 2(1)" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "उपमद 2(i)" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
7. 117/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975		उक्त अधिसूचना जहाँ में, जहाँ जहाँ "समाचारपत्र" शब्द आया है, उसके स्थान पर, व्याकरण के नियमों के अनुसार अपेक्षित परिवर्तनों के अधीन रहते हुए "दैनिक समाचारपत्रों से भिन्न" शब्द रखे जाएंगे।
8. 154/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 जून, 1975		उक्त अधिसूचना में, परन्तु की मद (1) में "55 पैसे" अंको और शब्दों के स्थान पर, "एक रुपया दस पैसे" शब्द रखे जाएंगे।
9. 237/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 दिसम्बर, 1975		उक्त अधिसूचना में "पच्चीस रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक सौ अस्सी रुपए" शब्द रखे जाएंगे।
10. 92/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976		उक्त अधिसूचना में, "चालीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 112/77]

**G.S.R. 305.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Revenue Division, Department of Revenue, or Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

## THE TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	54/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962.	In the said notification, for the words "five hundred rupees per metric tonne", the words "seven hundred rupees per metric tonne", shall be substituted;
2.	31/65-Central Excises, dated the 28th February, 1965.	In the said notification-- (i) in clause (a), for the figures and words "Rs. 425 per metric tonne", the words "six hundred rupees per metric tonne" shall be substituted; (ii) in clause (b), for the figures "4300.00" the words "six thousand rupees per metric tonne" shall be substituted, (iii) in the Explanation, the words, letters and figures "of Rs. 4000.00 per metric tonne" shall be omitted,
3.	74/65-Central Excises, dated the 1st May, 1965.	In the said notification, for the figures, letters and words "Rs. 500.00 per metric tonnes", the words "seven hundred rupees per metric tonne", shall be substituted and in the Explanation, the words, figures and letters "of Rs. 4000.00 per metric tonne" shall be omitted;
4.	135/65-Central Excises, dated the 20th August, 1965	In the said notification, for the figures and words "Rs. 300.00 per metric tonne", the words "five hundred and twenty-five rupees per metric tonne" shall be substituted;
5.	81/66-Central Excises, dated the 21st May, 1966.	In the said notification, for the figures "225.00" the words "four hundred and fifty rupees per metric tonne" shall be substituted;
6.	181/66-Central Excises, dated the 26th November, 1966	In the said notification, for the figures and words "Rs. 300 per metric tonne", the words "four hundred and twenty rupees per metric tonne" shall be substituted;
7.	182/66-Central Excises, dated the 26th November, 1966.	In the said notification, for the words "three hundred eighty-two rupees and fifty paise per metric tonne", the words "five hundred rupees per metric tonne", shall be substituted;
8.	16/68-Central Excises, dated the 1st February, 1968.	In the Table annexed to the said notification, in the third column for the figures and words appearing after the words "Duty in excess of" against serial Nos 1, 1A(b), 1C and 6, the words "Eight per cent <i>ad valorem</i> ," "Twenty-two per cent <i>ad valorem</i> " "Twenty per cent. <i>ad valorem</i> " "and Ten per cent <i>ad valorem</i> " shall, respectively be substituted,

(1)	(2)	(3)
9. 63/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	In the Table annexed to the said notification, for the entry in column (4) against Serial No. 1, the entry "twenty per cent. <i>ad valorem</i> ," shall be substituted,	
10. 70/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	In the said notification, for the words "eighteen per cent. <i>ad valorem</i> ", the words "twenty four per cent. <i>ad valorem</i> " shall be substituted;	
11. 71/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	In the said notification, for the words "twenty-two and a half per cent. <i>ad valorem</i> ", the words "thirty per cent" <i>ad valorem</i> shall be substituted	
12. 72/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	In the said notification, for the words "twenty-two and a half per cent. <i>ad valorem</i> ", the words "thirty per cent. <i>ad valorem</i> ," shall be substituted,	
13. 122/71-Central Excises, dated the 1st June, 1971.	In the Table annexed to the said notification for the entries under column (3) against Serial Nos. 2 and 3, the entries "twelve per cent <i>ad valorem</i> " and "eighteen per cent. <i>ad valorem</i> ," shall, respectively, be substituted,	
14. 31/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.	In the Table annexed to the said notification, for the entries in column (4) against Serial Nos. 1, 2 and 4 the entries "four rupees and eighty five paise," "four rupees and eighty five paise" and "three rupees and eighty-five paise" shall respectively, be substituted,	
15. 77/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.	In the said notification, for the words "twenty-four per cent. <i>ad valorem</i> . plus six hundred rupees per metric tonne", the words "thirty-two per cent. <i>ad valorem</i> plus eight hundred rupees per metric tonne" shall be substituted.	
16. 32/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.	In the said notification, for the words "one hundred and fifty-five per cent. <i>ad valorem</i> " the words "one hundred and seventy per cent. <i>ad valorem</i> ," shall be substituted,	
17. 70/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.	In the said notification, in column (3) against S. No. 1(a), for the figures "425.00" the figures "850.00" shall be substituted;	
18. 71/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.	In the said notification, for the words "five hundred and twenty rupees per metric tonne", the words "eight hundred and eighty rupees per metric tonne" shall be substituted;	
19. 43/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.	In the Table annexed to said notification, for the entry in column 4 against— (1) Serial No. 4, the following entry shall be substituted, namely, "appropriate amount of duty chargeable less one thousand and four hundred rupees per metric tonne"; (ii) Serial No. 5, the following entry shall be substituted, namely, "ten per cent. <i>ad valorem</i> ,"	

(1)	(2)	(3)
		<p>(iii) Serial No. 6, the following entry shall be substituted, namely,</p> <p>“sixteen per cent. <i>ad valorem</i>, plus eight hundred rupees per metric tonne”,</p> <p>(iv) Serial No. 9, the following entry shall be substituted, namely,</p> <p>“twenty-eight per cent. <i>ad valorem</i>, plus eight hundred rupees per metric tonne”</p>
20	104/75-Central Excises, dated the 30th April, 1975	In the said notification, for the words “ten per cent. <i>ad valorem</i> ”, the words “Twelve per cent. <i>ad valorem</i> ” shall be substituted,
21.	164/75-Central Excises, dated the 15th July, 1975.	In the said notification, for the words “thirty per cent. <i>ad valorem</i> plus six hundred rupees per metric tonne”, the words “forty per cent. <i>ad valorem</i> , plus eight hundred rupees per metric tonne” shall be substituted,
22.	50/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.	<p>In the said notification,—</p> <p>(i) for the words, figures, letter and brackets “falling under sub-item (2) of Item No. 1D” the words, letter, figures and brackets “falling under sub-item (1) of Item No. 1D” shall be substituted;</p> <p>(ii) for the words “ten per cent. <i>ad valorem</i>” the words “fifteen per cent. <i>ad valorem</i>”, shall be substituted,</p>
23.	62/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976	In the said notification, for the words “thirty per cent. <i>ad valorem</i> ” the words “forty per cent. <i>ad valorem</i> ” shall be substituted;
24	149/76-Central Excises, dated the 29th April, 1976	In the said notification for the words “thirty per cent. <i>ad valorem</i> ”, the words “forty per cent. <i>ad valorem</i> ” shall be substituted and in the said notification in sub-paragraph (1) of paragraph 2, clause (ii) shall be omitted.
25.	150/76-Central Excises, dated the 29th April, 1976.	In the said notification, for the words “twenty-four per cent. <i>ad valorem</i> ”, the words “thirty-two per cent. <i>ad valorem</i> ” shall be substituted and in the said notification in sub-paragraph (1) of paragraph 2, clause (ii) shall be omitted
26.	185/76-Central Excises, dated the 5th June, 1976	In the Table annexed to the said notification, for the entry under column (3) against Serial No. 2, the entry “sixty paise per kilogram in respect of such excess,” shall be substituted;
27.	198/76-Central Excises, dated the 16th June, 1976.	In the said notification in paragraph 3, clause (ii), and the Explanation below the said clause, shall be omitted.

सा०सा०नि० 305(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, यथास्थिति, राजस्व खंड, राजस्व विभाग, अथवा राजस्व और बीमा विभाग अथवा राजस्व और वैकिंग विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में, यथास्थिति, संशोधन किए जाएंगे अथवा और आगे संशोधन किए जाएंगे ।

## सारणी

क्रम सं० अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन	
(1)	(2)	(3)
1. 54/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख उक्त अधिसूचना में, 24 अप्रैल, 1962		“पांच सौ रुपए प्रति मीटरी टन” शब्दों के स्थान पर, “सात सौ रुपए प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे ;
2. 31/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख उक्त अधिसूचना में,— 28 फरवरी, 1965		(i) खंड (क) में, “425 रु० प्रति मीटरी टन” शब्दों और शब्दों के स्थान पर, “छह सौ रुपए प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे ; (ii) खंड (ख) में, “4300.00” शब्दों के स्थान पर, “छह हजार रुपए प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे ; (iii) स्पष्टीकरण में, “प्रति मीटरी टन के अनुसार 4000.00 रु०”, शब्दों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;
3. 74/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख उक्त अधिसूचना में, 1 मई, 1965		शब्दों और शब्दों के स्थान पर, “सात सौ रुपए प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे और स्पष्टीकरण में “प्रति मीटरी टन के अनुसार 4000.00 रु०” शब्दों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;
4. 135/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख उक्त अधिसूचना में, 20 अगस्त, 1965		शब्दों और शब्दों के स्थान पर, “पांच सौ पच्चीस रुपए प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे ;
5. 81/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख उक्त अधिसूचना में, 21 मई, 1966		“225.00” शब्दों के स्थान पर, “चार सौ पचास रुपए प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे ;

(1)	(2)	(3)
6. 181/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 नवम्बर, 1966	उक्त अधिसूचना में, “300.00 रु० प्रति मीटरी टन” श्रृंखों और शब्दों के स्थान पर, “चार सौ बीस रुपए प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे ;	
7. 182/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 नवम्बर, 1966	उक्त अधिसूचना में, “तीन सौ बयासी रुपए और पचास पैसे प्रति मीटरी टन” शब्दों के स्थान पर, “पांच सौ रुपए प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे ;	
8. 16/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1968	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, तृतीय स्तम्भ में, क्रम सं० 1, 1क(ख), 1ग और 6 के सामने, “से अधिक शुल्क” शब्दों के पूर्व आने वाले श्रृंखों और शब्दों के स्थान पर, क्रमशः “मूल्यानुसार आठ प्रतिशत”, “मूल्यानुसार बाईस प्रतिशत”, “मूल्यानुसार बीस प्रतिशत”, और “मूल्यानुसार दस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ;	
9. 63/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर, “बीस प्रतिशत मूल्यानुसार” प्रविष्टि रखी जाएगी ।	
10. 70/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971	उक्त अधिसूचना में, “अठारह प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्दों के स्थान पर “चौबीस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्द रखे जाएंगे ;	
11. 71/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971	उक्त अधिसूचना में, “साढ़े बाईस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्दों के स्थान पर, “तीस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्द रखे जाएंगे ;	
12. 72/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971	उक्त अधिसूचना में, “साढ़े बाईस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्दों के स्थान पर, “तीस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्द रखे जाएंगे ;	
13. 122/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जून, 1971	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 2 और 3 के सामने, स्तम्भ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः “बारह प्रतिशत मूल्यानुसार” और “अठारह प्रतिशत मूल्यानुसार” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;	
14. 31/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1, 2 और 4 के सामने, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः “चार रुपए और पचासी पैसे”, “चार रुपए और पचासी पैसे” और “तीन रुपए और पचासी पैसे” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;	

- | (1)  | (2)   | (3) |
|--|---|-----|
| 15. 77/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 | उक्त अधिसूचना में, “बौबीस प्रतिशत मूल्यानुसार और छह सौ रुपए प्रति मीटरी टन का योग” शब्दों के स्थान पर, “बत्तीस प्रतिशत मूल्यानुसार और आठ सौ रुपए प्रति मीटरी टन का योग” शब्द रखे जाएंगे ;       |     |
| 16. 32/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973  | उक्त अधिसूचना में, “एक सौ पचपन प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्दों के स्थान पर, “एक सौ सत्तर प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्द रखे जाएंगे ;   |     |
| 17. 70/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973  | उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 1(क) के सामने, स्तम्भ (3) में “425.00” अंको के स्थान पर, “850 00” अंक रखे जाएंगे ;  |     |
| 18. 71/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973  | उक्त अधिसूचना में, “पाच सौ बीस रुपए प्रति मीटरी टन” शब्दों के स्थान पर, “आठ सौ अस्सी रुपए प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे ;   |     |
| 19. 43/75—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975  | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—  |     |
|  | (i) क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—<br>“प्रभार्य शुल्क की समुचित रकम उसमें से एक हजार चार सौ रुपए प्रति मीटरी टन घटा कर” ; |     |
|  | (ii) क्रम सं० 5 के सामने, स्तम्भ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—<br>“दस प्रतिशत मूल्यानुसार” ;  |     |
|  | (iii) क्रम सं० 6 के सामने, स्तम्भ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—<br>“सोलह प्रतिशत मूल्यानुसार और आठ सौ रुपए प्रति मीटरी टन का योग” ;                |     |
|  | (iv) क्रम सं० 9 के सामने, स्तम्भ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—<br>“अट्ठाईस प्रतिशत मूल्यानुसार और आठ सौ रुपए प्रति मीटरी टन का योग” ;              |     |

- | (1)  | (2)   | (3) |
|--|---|-----|
| 20. 104/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975 | उक्त अधिसूचना में, “दस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्दों के स्थान पर, “बारह प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्द रखे जाएंगे ;  |     |
| 21. 164/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1975  | उक्त अधिसूचना में “तीस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्दों के स्थान पर, “चालीस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्द रखे जाएंगे ;   |     |
| 22. 50/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976   | उक्त अधिसूचना में,—<br>(i) “मद सं० 1घ की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले” शब्दों, अंको और कोष्ठको के स्थान पर, “मद सं० 1घ की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;<br>(ii) “दस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्दों के स्थान पर, “पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्द रखे जाएंगे ; |     |
| 23. 62/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976   | उक्त अधिसूचना में, “तीस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्दों के स्थान पर, “चालीस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्द रखे जाएंगे ;  |     |
| 24. 149/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1976 | उक्त अधिसूचना में, “तीस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्दों के स्थान पर, “चालीस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्द रखे जायेंगे और पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खंड (ii) का लोप किया जाएगा ;  |     |
| 25. 150/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1976 | उक्त अधिसूचना में, “चौबीस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्दों के स्थान पर, “बत्तीस प्रतिशत मूल्यानुसार” शब्द रखे जाएंगे और पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खंड (ii) का लोप किया जाएगा ;  |     |
| 26. 185/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 5 जून, 1976     | उक्त अधिसूचना से उपाबन्ध सारणी में, क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ (3) के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर, “ऐसे आधिक्य की बाबत साठ पैसे प्रति किलो-ग्राम” प्रविष्टि रखी जाएगी ;   |     |
| 27. 198/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 जून, 1976    | उक्त अधिसूचना में पैरा 3 के खंड (ii) का, और उक्त खंड के नीचे के स्पष्टीकरण का, लोप किया जाएगा ।   |     |



**G.S.R. 306(E).**—Whereas boiled sweets, toffees, caramels, candies, nuts (including almonds) and fruit kernels coated with sweetening agent are proposed to be omitted from Item No. 1A(1) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, by clause 32 of the Finance (No. 2) Bill, 1977;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, until the enactment of the said Finance (No. 2) Bill, 1977, boiled sweets, toffees, caramels, candies, nuts (including almonds) and fruit kernels coated with sweetening agent, from—

- (a) so much of the duty of excise leviable thereon under Item No. 1A of the said First Schedule as is in excess of two per cent *ad valorem*, if the total value of all excisable goods, whether falling under the said item or not, cleared by, or on behalf of, a manufacturer from one or more factories during the financial year 1976-77 exceeded rupees thirty lakhs;
- (b) the whole of the duty of excise leviable thereon, if cleared by any manufacturer other than the manufacturer referred to in clause (a).

[No. 114/77]

**सां. कां. नि० 306 (प्र).**—वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 द्वारा, उबली हुई मिठाइयों, टाफियों, कारमेल, कैण्डियो, नटों (जिसमें बादाम भी आते हैं) और फलों की ऐसी गिरियों का, जिन पर भीठे पदार्थ का लेप किया गया हो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1-क (1) से लोप किया जाना प्रस्थापित है ;

अतः, अब, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 के अधिनियमित होने पर्यन्त उबली हुई मिठाइयों, टाफियों, कारमेल, कैण्डियो, नटों (जिसमें बादाम भी आते हैं) और फलों की ऐसी गिरियों की जिन पर भीठे पदार्थ का लेप किया गया हो,—

- (क) उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 1क के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से जो दो प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, छूट देती है यदि ऐसे कुल उत्पाद शुल्क माल का, चाहे वह उक्त मद के अन्तर्गत सम्मिलित हो अथवा नहीं, जो किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान एक या अधिक कारखानों से निकाली किया गया हो, कुल मूल्य तीस लाख रुपये से अधिक है ;

- (ख) उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है यदि उक्त माल की निकासी खंड (क) में विनिर्दिष्ट विनिर्माता से भिन्न किसी विनिर्माता द्वारा की गई है

[सं० 114/77]

**G.S.R. 307(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts unpasteurised butter, falling under Item No. 1C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, if the total quantity of butter, whether unpasteurised or pasteurised, produced by, or on behalf of, a manufacturer in one or more factories on any day of the concerned financial year does not exceed 50 kilograms

[No. 115/77]

**सां. कां. नि० 307 (प्र).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1ग के अन्तर्गत सम्मिलित अपास्तुरीकृत मक्खन को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है यदि विनिर्माता

द्वारा या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखानों में, संचित वित्तीय वर्ष के किसी भी दिन उपादित अपास्तुरीकृत या पास्तुरीकृत मक्खन की कुल मात्रा 50 किलोग्राम से अधिक नहीं है ।

[सं० 115/77]

**G.S.R. 308(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, from the whole of the duty of excise leviable thereon, aerated waters, falling under Item 1D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured by or on behalf of a manufacturer in one or more factories in none of which power is used in any process of such manufacture:

Provided that the exemption shall be admissible to a manufacturer in respect of the output of one filling machine only.

*Explanation.*—Where more than one filling machine is installed in a factory in which power is not used in any process of manufacture, the output of one machine will be determined, for the purposes of this notification, by dividing the total output of aerated waters, falling under the said Item 1D, in the factory by the number of such machines.

[No. 116/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

**सा० का० नि० 308 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) को प्रथम अनुसूची की मद सं० 1घ के अन्तर्गत सम्मिलित वातित जल को, जो किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से ऐसे एक या अधिक कारखानों में विनिर्मित किया जाए जिनमें से किसी में भी ऐसे विनिर्माण की किसी प्रक्रिया में पावर का प्रयोग नहीं किया जाता, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है

परन्तु यह छूट विनिर्माता को केवल एक भराई मशीन से तैयार किए गए माल की बाबत अनुज्ञेय होगी ।

**स्पष्टीकरण.**—जहाँ किसी ऐसे कारखाने में जिसमें विनिर्माण की किसी भी प्रक्रिया में पावर का प्रयोग नहीं किया जाता, एक से अधिक भराई मशीन लगी हुई हो वहाँ इस अधिमूचना के प्रयोजनों के लिए एक मशीन से तैयार कुल माल का अवधारण-उक्त मद सं० 1घ के अन्तर्गत सम्मिलित वातित जल की कुल मात्रा को कारखाने में की ऐसी कुल मशीनों की संख्या से विभाजित करके किया जाएगा ।

[सं० 116/77]

आर० के० चन्द्र, अधर सचिव ।

#### CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 309 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cigarettes of the description specified in column (1) of the Table here to annexed and falling under sub-item II (2) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

THE TABLE

Description	Duty
(1)	(2)
Cigarettes of which the value per one thousand—	
(i) does not exceed rupees fifteen	115 per cent. <i>ad valorem</i> .
(ii) exceeds rupees fifteen but does not exceed rupees twenty	115 per cent. <i>ad valorem</i> plus three per cent. <i>ad valorem</i> for every additional rupee or part thereof in excess of a value of rupees fifteen per one thousand.
(iii) exceeds rupees twenty	130 per cent. <i>ad valorem</i> plus five per cent. <i>ad valorem</i> for every additional rupee or part thereof in excess of a value of rupees twenty per one thousand.

[No 117/77]

LAJJA RAM, Dy Secy.

## केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

ई दिल्ली, 18 ज , 1977

सांका० नि० 309(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन की ओर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उपमद 2 (2) के अन्तर्गत आने वाली सिगरेटों को, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग में, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क में अधिक है, छूट देती है।

## सारणी

वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)
सिगरेटें जिनका मूल्य प्रति एक हजार—	
(i) पन्द्रह रुपए से अधिक नहीं है	115 प्रतिशत मूल्यानुसार
(ii) पन्द्रह रुपए से अधिक है किन्तु बीस रुपए से अधिक नहीं है	115 प्रतिशत मूल्यानुसार तथा प्रति एक हजार के लिए पन्द्रह रुपए के मूल्य से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त रुपए या उसके भाग के लिए तीन प्रतिशत मूल्यानुसार का योग
(iii) बीस रुपए से अधिक है	130 प्रतिशत मूल्यानुसार तथा प्रति एक हजार के लिए बीस रुपए के मूल्य से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त रुपए या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत मूल्यानुसार का योग।

[सं० 117/77]

लज्जा राम, उप-सचिव।

## CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 310(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts processed groundnut oil, copra oil and kardi seed oil falling under Item No. 12 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

- (i) such oil is produced by the solvent extraction method, and
- (ii) the exemption shall be limited to an equivalent quantity of oil not exceeding six per cent of the weight of de-oiled cake obtained by a manufacturer from the solvent extraction plant and exported out of India subject to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise.

**Explanation.**—For the purpose of this notification 'processed oil' shall have the same meaning as is assigned to "processed vegetable non-essential oil" in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 33/63-CE., dated the 1st March, 1963.

[No. 118/77]

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

**सं० का० नि० 310(अ)** — केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 12 के अन्तर्गत सम्मिश्रित प्रसंस्कृत मूंगफली के तेल, गरी के तेल और कर्डी के बीज के तेल को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

परन्तु यह तब जब,—

- (1) ऐसे तेल का उत्पादन बिलायक निष्कर्षण पद्धति से किया गया हो, और
- (2) छूट, तेल की ऐसी समतुल्य मात्रा तक सीमित होगी जो किसी विनिर्माता द्वारा बिलायक निष्कर्षण सन्तुल्य से प्राप्त और सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान प्रद रूप में भारत में बाहर निर्यातित निर्तेलीकृत खली के भार के छह प्रतिशत से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण.**—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "प्रसंस्कृत तेल" का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 33 63—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1963 में "प्रोसेस्ड वैजेटेबिल नान-एसेन्शियल आयल" का है।

[सं० 118/77]

**G.S.R. 311(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts processed linseed oil falling under Item No. 12 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of sixty-eight rupees and ninety paise per metric tonne:

Provided that—

- (i) such oil is produced by the solvent extraction method, and
- (ii) the exemption shall be limited to an equivalent quantity of oil not exceeding six per cent of the weight of de-oiled cake obtained by a manufacturer from the solvent extraction plant and exported out of

India subject to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise.

*Explanation*—For the purpose of this notification 'processed oil' shall have the same meaning as is assigned to "processed vegetable non-essential oil" in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No 33/63-CE, dated the 1st March, 1963.

[No. 119/77]

सा० का० नि० 311 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 12 के अन्तर्गत सम्मिलित प्रसकृत अलमी के तेल को, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना अडसठ रुपए और तब्बे पैसे प्रति मीटरी टन से अधिक हो।

परन्तु यह तब जब,—

- (i) ऐसे तेल का उत्पादन बिलायक निष्कर्षण पद्धति से किया गया हो, और
- (ii) छूट, तेल की ऐसी समतुल्य मात्रा तक सीमित होगी जो किसी विनिर्माता द्वारा बिलायक निष्कर्षण सन्यन्त्र से प्राप्त और सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान प्रद रूप में भारत से बाहर निर्यातित निन्तलीकृत खली के भार के छह प्रतिशत से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण.**—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "प्रसकृत तेल" का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 33/63-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1963 में "प्रोसेस्ड वैजेटेबल नान-एसेन्शियल आयल" का है।

[सं० 119/77]

**G.S.R. 312(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts gases falling under Item No. 14H of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), which are allowed to escape in the atmosphere by flare system or otherwise, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No 120/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

सा० का० नि० 312 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14H के अन्तर्गत सम्मिलित गैसों को, जिन्हें स्वयंस्फुरण पद्धति द्वारा अथवा अन्यथा वायुमंडल में निकल जाने दिया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 120/77]

आर० के० चन्द्र, अवर सचिव।

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 313(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Acetylene gas falling under sub-item (vi) of Item No 14H of the First Schedule to the Central

Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), produced in a portable generator by the reaction of water dripping slowly on calcium carbide, from the whole of the duty of excise leviable thereon

[No. 121/77]

### केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा० का० नि० 313(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14-ज की उपमद (vi) के अन्तर्गत सम्मिलित ऐसिटिलीन गैस को, जो चलजनित्र में, कैल्शियम कार्बाइड पर धीरे-धीरे पानी गिराने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादित हो, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 121/77]

G.S.R. 314(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts gases falling under Item No. 14H of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured by laboratories for their own use, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No 122/77]

सा० का० नि० 314(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14-ज के अन्तर्गत सम्मिलित गैसों को, जिनका विनिर्माण प्रयोगशालाओं द्वारा अपने प्रयोग के लिए किया गया हो, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 122/77]

G.S.R. 315(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, upto an aggregate value not exceeding rupees one lakh, polishes and creams and scouring powders and pastes (hereinafter referred to as the "said goods"), falling under Item No. 15D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on or after the first day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the said goods, under clearance, are manufactured, is not more than rupees ten lakhs:

Provided that during the period commencing on the 18th day of June, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978, the aggregate value of the goods that may be cleared by or on behalf of a manufacturer from one or more factories for home consumption without payment of duty, shall not exceed rupees eighty thousand.

*Explanation*—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account

[No. 123/77]

G. K. PILLAI, Under Secy.

सा० का० नि० 315(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15-घ के अन्तर्गत सम्मिलित एक लाख रुपए से अधिक सकल मूल्य तक की, पालिशो और श्रीमों तथा अभिमार्जित पाऊडरों और पेस्टों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त माल" कहा गया है), और जिनकी निकासी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से गृह उपभोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् की जाए, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है यदि ऐसे अधिकारी का, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की रैंक से कम न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में, जिसमें उक्त निकासीगत माल का विनिर्माण किया गया है, स्थापित मयदों और मशीनों पर समय-समय पर किया गया पूजा विनियान दस लाख रुपए से अधिक नहीं है।

परन्तु यह तब जब 18 जून, 1977 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने में, शुल्क का सदाय किए बिना, गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए उक्त माल का कुल मूल्य शम्सी हजार रुपए से अधिक नहीं हो।

स्पष्टीकरण—पूजा विनियान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे विनियान के उस समय के अंतिम मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनियान किया गया था।

सं० 123 77]

जी० के० पिल्ले, अवसर सचिव।

#### CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

G S.R. 316(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tyres, falling under sub-item (1) of Item No 16 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, subject to the conditions laid down in the corresponding entries in column (4) thereof.

THE TABLE

Sl No	Description	Duty	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tyres for two-wheeled and three-wheeled motor vehicles falling under sub-item I (1) of item No. 34 of the said First Schedule.	Nil	<p>If,—</p> <p>(i) an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that such tyres are intended to be used as original equipment tyres by the manufacturers of motor vehicles;</p> <p>(ii) such tyre have been prominently marked "OE", and</p> <p>(iii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed in respect of such tyres</p>
2.	Tyres for saloon cars falling under sub-item I (2) of item No 34 of the said First Schedule	Nil	

[No. 124/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा० का० नि० 316(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 16 की उपमद (1) के अन्तर्गत सम्मिलित टायरो को, जो इस से उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिकृत शर्तों के अधीन रहते हुए, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

## सारणी

क्रम संख्या	वर्णन	शुल्क	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद 1(1) के अन्तर्गत सम्मिलित दो पहियों और तीन पहियों वाले मोटरयानों के टायर	कुछ नहीं	यदि— (i) सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से अन्यून रैंक के अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि ऐसे टायर मोटरयानों के विनिर्माताओं द्वारा मूल उपस्कर टायर के रूप में प्रयोग में लाए जाने के लिए आशयित है; और
2.	उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद 1(2) के अन्तर्गत सम्मिलित सैलून कारों के टायर	कुछ नहीं	(ii) ऐसे टायरों पर सुस्पष्ट रूप से "ओ० ई०" अक्षर चिह्नित किए जाते हैं, और (iii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अध्याय 10 में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन ऐसे टायरों के सम्बन्ध में किया जाता है।

[सं० 124 77]

आर० के० चन्द्र, अवसर सचिव।



## CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 317(E).**—Whereas the rate of duty leviable on latex foam sponge falling under Item No. 16A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), is proposed to be reduced to fifty per cent *ad valorem* by entry (viii) of the Third Schedule, read with clause 32, of the Finance (No. 2) Bill, 1977;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, until the enactment of the said Finance (No. 2) Bill, 1977, latex foam sponge from so much of the duty of excise leviable thereon under Item No. 16A of the First Schedule as is in excess of fifty per cent *ad valorem*.

[No. 125/77]

G. K. PILLAI, Under Secy.

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा० का० नि० 317(ख) —वित्त (स० 2) विधेयक, 1977 के खण्ड 32 के साथ पठित तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि (viii) द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की मद स० 16-क के अन्तर्गत सम्मिलित लेटेक्स फोम स्पोंज पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर को, कम करके पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार रखने की प्रस्थापना की गई है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वित्त (स० 2) विधेयक, 1977 के अधिनियमित होने पर्यन्त, लेटेक्स फोम स्पोंज को, प्रथम अनुसूची की मद स० 16-क के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना पचास प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है ।

[सं० 125/77]

जी० के० पिल्लै, अवर सचिव

## CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 318(E).**—In pursuance of rule 96 ZB of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 151/74-Central Excises, dated the 15th November, 1974, the Central Government hereby directs that the rate per month per hand press employed in the manufacture of coarse grain plywood, shall be four hundred rupees.

*Explanation*—Nothing contained in this notification shall apply to any hand press employed in the manufacture of coarse grain plywood if the hand press is operated with the aid of hydraulic jacks

[No 126/77]

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा० का० नि० 318(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96-यख के अनुसरण में, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग

की अधिसूचना सं० 151/74—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 नवम्बर, 1974 को अधिकांश करने हुए, निदेश करती है कि कोर्सप्रेन प्लार्डबुड के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रति हैड प्रेस की प्रतिमास दर चार सौ रुपए होगी।

**स्पष्टीकरण**—इस अधिसूचना की कोई भी बात कोर्स प्रेस प्लार्डबुड के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी हैड प्रेस को लागू नहीं होगी यदि हैड प्रेस जलीय यंत्रों (हाइड्रोलिक जैक) की सहायता से चलाया जाता है।

[सं० 126/77]

**G.S.R. 319(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts paper board and all other kinds of paper referred to in sub-item (2) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of thirty per cent *ad valorem*.

[No 127/77]

**सां० का० नि० 319(अ)**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित कागज बोर्डों और सभी किस्म के कागजों को, उन पर उद्ग्रहीत होने वाले उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जितना तीस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[सं० 127/77]

**GS.R. 320(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 45/73 Central Excises, dated the 1st March, 1973, the Central Government hereby exempts paper, other than paper boards, cigarette tissue, glassine paper, grease proof paper, coated paper (including waxed paper) and paper of a substance not exceeding 25 grammes per square metre, and containing not less than fifty per cent by weight of pulp made from bagasse, jute stalks, cereal straw or waste paper, manufactured and cleared from a paper mill of the type described in the Table below, from so much of the duty of excise leviable thereon as is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

THE TABLE

S.No.	Description of paper mill	Extent of exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Paper mill whose annual installed capacity in respect of all varieties of paper and paper boards does not exceed 2000 tonnes.	Seventy five per cent. of the duty leviable.
2.	Paper mill whose annual installed capacity in respect of all varieties of paper and paper boards exceeds 2000 tonnes but does not exceed 5000 tonnes.	Sixty per cent. of the duty leviable
3.	Paper mill whose annual installed capacity in respect of all varieties of paper and paper boards exceeds 5000 tonnes but does not exceed 10000 tonnes.	Fifty per cent. of the duty leviable.

Provided that the paper mill (1) does not have a plant attached thereto for making bamboo or wood pulp, and (ii) manufactures paper out of pulp.

[No. 128/77]

सांका०नि० 320(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिमूर्चना सं० 45/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 को अधिक्रान्त करने हुए, कागज बोर्ड, मिगरेटी कागज, ग्लेसीन कागज, ग्रीम रोधी कागज, लेपित कागज (जिसमें मोमी कागज भी आता है) और ऐसे पदार्थ के बने कागज को जिसमें वह पदार्थ प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम से अधिक न हो, और जिसमें खोई, जूट तना, या धान्य भूसुरा या रद्दी कागज बनी लुगदी के भार का 50 प्रतिशत से कम न हो, से भिन्न कागज को, जिसकी निकासी नीचे की सारणी में वर्णित प्रकार के कागज मिल से की जाए, उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

## सारणी

क्रम सं०	कागज मिल का वर्णन <sup>1</sup>	छूट का विस्तार
(1)	(2)	(3)
1.	वह कागज मिल जिसकी सभी किस्मों के कागज और कागज बोर्डों की बाबत वार्षिक संस्थापित क्षमता 2000 टन से अधिक न हो।	उद्ग्रहणीय शुल्क का पचहत्तर प्रतिशत।
2.	वह कागज मिल जिसकी सभी किस्मों के कागज और कागज बोर्डों की वार्षिक संस्थापित क्षमता 2000 टन से अधिक हो किन्तु 5000 टन से अधिक न हो।	उद्ग्रहणीय शुल्क का साठ प्रतिशत।
3.	वह कागज मिल जिसकी सभी किस्मों के कागज और कागज बोर्डों की बाबत वार्षिक संस्थापित क्षमता 5000 टन से अधिक हो किन्तु 10,000 टन से अधिक न हो।	उद्ग्रहणीय शुल्क का पचास प्रतिशत।

परन्तु यह तब जब (i) कागज मिल के पास बासी या लकड़ी की लुगदी तैयार करने के लिए संयंत्र नहीं हो, तथा (ii) कागज मिल लुगदी से कागज तैयार करता है।

[सं० 128/77]

G.S.R. 321(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 42/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973, the Central Government hereby exempts paper, other than paper boards, cigarette tissue, glassine paper, grease proof paper, coated paper (including waxed paper) and paper of a substance not exceeding 25 grammes per square metre and containing not less than fifty per cent by weight of pulp made from bagasse, jute stalk or cereal straw, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of sixty-six and two-thirds per cent of the duty leviable thereon, provided that the aforesaid exemption shall not be admissible to a paper mill which avails itself of the exemption given under the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 128/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.

[No. 129/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

सा०का०नि० 321 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बोमा विभाग) की अधिसूचना सं० 42/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 को अधिकाृत करते हुए, कागज बोर्ड, सिगरेट कागज, ग्लसीन कागज, ग्रीस रोधी कागज, लेखित कागज (जिसमें मोमी कागज भी आता है) और ऐसे पदार्थ के बने कागज जिसमें वह पदार्थ प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम से अधिक न हो, और जिसमें खोई, जूट तना या धान्य भूसूता से बनी लुगदी के भार का 50 प्रतिशत से कम न हो, से मिश्र कागज को उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 66 2/3 प्रतिशत से अधिक हो, परन्तु उपरोक्त छूट उस कागज मिल को अनुशात नहीं होगी जो भारत सरकार के राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 128 77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 के अधीन दो गई छूट का लाभ प्राप्त करती है।

[स० 129/77]

आर० के० चन्द्र, अवर सचिव।

## CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**GSR. 322**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts textured yarn of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub item II(1) (b) of Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in the column (3) of the said Table.

## THE TABLE

S.No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Textured Yarn produced out of Base Yarn	The duty for the time being leviable on the base Yarn if not already paid plus five rupees per kilogram.
2.	Other Textured Yarn	Ninety rupees per kilogram

**Explanation.** For the purposes of this notification "Base Yarn" means yarn from which the Textured Yarn has been produced

[No. 130/77]

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा०का०नि० 322 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध मारण। के मन्त्रालय (2) में विदिष्ट वर्ण के संयन्त्रित का, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और न.क अधिनियम, 1944 (1944

का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 की उपमद 2(2) (i) (ख) के अन्तर्गत सम्मिलित है, उस पर उद्ग्रहणीय उलने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त मारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो।

## सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	आधारी सूत में उत्पादित संव्यूतित सूत	आधारी सूत पर तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही संदत्त न किया गया हो, तथा पाच रुपए प्रति किलोग्राम का योग।
2.	अन्य संव्यूतित सूत	नब्बे रुपए प्रति किलोग्राम

**स्पष्टीकरण.**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "आधारी सूत" से वह सूत अभिप्रेत है जिससे संव्यूतित तैयार किया गया है।

[सं० 130/77]

**G.S.R. 323(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cellulosic spun yarn and cotton yarn falling under sub-Item III(i) of item No. 18 and No. 18A (i), respectively, for the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

## THE TABLE

S.No.	Description	Rate of Duty per kilogram
(1)	(2)	(3)

*Cellulosic spun yarn and Cotton yarn—*

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | of counts of not exceeding 25               | One and a half paise per count  |
| 2. | of counts exceeding 25 but not exceeding 35 | Forty paise, plus four paise per count exceeding 25                     |
| 3. | of counts exceeding 35 but not exceeding 45 | Eighty paise, plus eight paise per count exceeding 35                   |
| 4. | of counts exceeding 45 but not exceeding 55 | One hundred and sixty paise, plus fourteen paise per count exceeding 45 |
| 5. | of counts exceeding 55                      | five and a half paise per count   |

## Provided that—

- (i) single yarn and multiple fold yarn in plain (straight) reel hanks shall be exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon,
- (ii) in the case of yarn, single or multiple fold, in cross reel hanks, the duty shall be reduced further by thirty paise per kilogram and shall be exempted in full if the duty on such yarn does not exceed thirty paise per kilogram;

- (iii) any yarn which has availed of the exemption available to yarn in hank form is subsequently subjected to beaming, warping, wrapping, winding, or reeling or any one or more of these processes with the aid of power, the yarn shall be liable to duty at a rate specified in respect of that yarn in column (3) of the Table, reduced by the duty already paid, if any;
- (iv) no further duty shall be leviable on any yarn on which duty has already been paid at a rate specified in column (3) of the Table even if such yarn is subsequently subjected to beaming, warping, wrapping, winding or reeling or any one or more of these processes with or without the aid of power,
- (v) if any single yarn or multiple fold yarn in plain (straight) reel is subsequently subjected to processes like bleaching, dyeing or mercerising by an independent processor with or without the aid of power, no further duty shall be leviable,
- (vi) the duty on sized yarn shall be charged on the basis of its weight before sizing;
- (vii) nothing contained in this notification shall apply to any yarn which is used for weaving in a composite mill

*Explanation.*—For the purposes of this notification:

- (i) "independent processor" means a manufacturer who is engaged exclusively in the processing of cotton yarn with the aid of power
- (ii) 'composite mill' means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton yarn or weaving of cotton fabrics or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities.
- (iii) 'count' means an English count

[No. 131/77]

**सांका० नि० 323(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की क्रमशः मद सं० 18 की उप मद 3(i) और सं० 18-क (i) के अन्तर्गत सम्मिलित सेल्यूलोसी कता सूत और सूती सूत को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन का है, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पादशुल्क से छूट देनी है जितना उसके स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है ।

#### सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
<b>सेल्यूलोसी कता सूत और सूती सूत</b>		
1.	25 से अधिक काउन्ट का	डेड पैसे प्रति काउन्ट
2.	25 से अधिक किन्तु 35 से अधिक काउन्ट का	चालीस पैसे तथा 25 से अधिक पर चार पैसे प्रति काउन्ट
3.	35 से अधिक किन्तु 45 से अधिक काउन्ट का	पचासी पैसे तथा 35 से अधिक पर आठ पैसे प्रति काउन्ट

1	2	3
4.	45 से अधिक किन्तु 55 में अनधिक काउन्ट का	एक सौ साठ पैसे तथा 45 से अधिक पर चौदह पैसे प्रति काउन्ट
5	55 में अधिक काउन्ट का	साढ़े पाच पैसे प्रति काउन्ट

परन्तु यह कि—

- (i) एकल सूत वाली और बहुल लच्छों में सूत वाली सादा (सीधी) रील गुण्डियों को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट होगी;
- (ii) क्रामरील गुण्डियों में एकल या बहुल लच्छों वाले सूत की दशा में शुल्क को तीस पैसे प्रति किलोग्राम और कम कर दिया जाएगा यदि ऐसे सूत पर शुल्क तीस पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक है तथा पूरे शुल्क से छूट दी जाएगी यदि ऐसे सूत पर शुल्क तीस पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है;
- (iii) कोई सूत, जिस पर गुण्डियों के रूप में होने के कारण उपलब्ध छूट का लाभ प्राप्त कर लिया गया हो, यदि तत्पश्चात् पावर की सहायता से बीविंग, वापिंग, रैपिंग, बाइडिंग, अथवा रीलिंग में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से गुजरता है तो ऐसे सूत पर सारणी के स्तम्भ (3) में उस सूत की बाबत विनिर्दिष्ट दर से शुल्क लगेगा किन्तु उसमें से पहले सदा कोई शुल्क, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा;
- (iv) किसी सूत पर जिस पर सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर से शुल्क पहले से ही सदा किया जा चुका हो और शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगा भले ही ऐसा सूत तत्पश्चात् बीविंग, वापिंग, रैपिंग बाइडिंग या रीलिंग की प्रक्रियाओं में से किसी एक अथवा अधिक प्रक्रियाओं से, पावर की सहायता से अथवा उसके बिना, गुजारा गया है,
- (v) यदि सादा (सीधी) रीलों में एकल सूत या बहुल लच्छों वाला सूत तत्पश्चात्, पावर की सहायता से अथवा उसके बिना किसी स्वतंत्र प्रसंस्कर्ता द्वारा स्लीच करने, रंगाई करने या मसिराई करने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तो आगे और शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगा;
- (vi) चिकणित सूत पर शुल्क चिकणन से पूर्व उसके भार के आधार पर प्रभारित किया जाएगा।
- (vii) इस अधिसूचना की कोई बात संयुक्त मिल में बुनाई के लिए प्रयुक्त किसी सूत को लागू नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण .—**इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) “स्वतंत्र प्रसंस्कर्ता” से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से सूती सूत के प्रसंस्करण में अनन्य रूप से लगा हुआ है;
- (ii) “संयुक्त मिल” से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से सूती सूत की कटाई या सूती कपड़े की बुनाई या सूती कपड़ों के प्रसंस्करण में लगा हुआ है और जिसका कम से कम ऐसा दो विनिर्माण कार्यकलापों में साम्प्रदायिक हित है।
- (iii) “काउन्ट” से ईंगलिश काउन्ट अभिप्रेत है।

**G.S.R. 324(E).**—In exercise of the power conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cellulosic spun yarn and cotton yarn falling under sub-item III(i) of Item No. 18 and Item No. 18A(i), respectively, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when used for weaving of cotton fabrics falling under item No. 19 in a composite mill, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

Provided that when such yarn is produced in a factory, other than such composite mill, the procedure set out in Rule 96E of the Central Excise Rules, 1944 is followed.

**Explanation**—For the purposes of this notification "composite mill" means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton yarn or weaving of cotton fabrics or processing of cotton fabrics with the aid of power and has proprietary interest in at least two of such manufacturing activities.

[No. 132/77]

**सांकांति 324(अ)** —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की क्रमशः मद सं० 18 की उपमद (3) (i) और मद सं० 18A (i) के अन्तर्गत सम्मिलित सैल्युलोजी कते हुए सूती सूत को, तब जब उसका उपयोग किसी सयुक्त मिल में, मद सं० 19 के अन्तर्गत सम्मिलित सूती कपड़ों की बनाई के लिए किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु जब ऐसा सूत सयुक्त मिल से भिन्न किसी कारखाने में उत्पादित किया जाए तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96-ड में उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए ।

**स्पष्टीकरण** .—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "सयुक्त मिल" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से सूती सूत को कटाई या सूती कपड़ों की बुनाई या सूती कपड़ों का प्रासह्य करता है और जिसका काम में कम से कम दो विनिर्माण कार्यकलापों में साम्प्रतिक हित है ।

[सं० 132/77]

**G.S.R. 325(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts woollen and acrylic spun yarn falling under Item No 18B(i) of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, subject to the condition that where the yarn has been spun wholly or partly out of acrylic fibre it shall be liable to a duty of ten rupees per kilogram

Provided that if it is proved to the satisfaction of the proper officer that such yarn was spun or produced out of acrylic fibre on which the duty of excise or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has been paid at the rate of thirty rupees per kilogram, such yarn shall be exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 133/77]

**सांकांति 325(अ)** —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18B (i) के अन्तर्गत सम्मिलित ऊनी और एक्रिलिक सूत को इस शर्त के अधीन रहते हुए उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है कि जहाँ तब पूर्णतया सैल्युलोजी रेशों से काता गया है वहाँ वह दस रुपए प्रति किलोग्राम की दर से शुल्क से उद्ग्रहणीय होगा :



परन्तु यदि समुचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया गया है कि ऐसा सूत ऐसे एक्जिलिक रेयो से काता गया था या तैयार किया गया था जिस पर यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क या सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन, अतिरिक्त शुल्क तीस रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मद्धत किया जा चुका है तो ऐसे सूत पर उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट होगी।

[सं. 133/77]

**G.S.R. 326(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts unprocessed cotton fabrics falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured in factories commonly known as powerlooms (without spinning or processing plants), from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

[No. 134/77]

**सां.का.नि. 326(अ).**—केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 19 की उपमद (1) के अन्तर्गत सम्मिलित अप्रसंस्कृत उन सूती कपड़ों को जिनका विनिर्माण सामान्य तौर पर पावर लूम के रूप में ज्ञात कारखानों में (कतार्ई या प्रसंस्करण संयंत्रों के बिना) किया गया हो, उन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं. 134/77]

**G.S.R. 327(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts cotton fabrics, falling under sub-item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed (hereafter in this notification referred to as the "Table") from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (3) thereof.

THE TABLE

S. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
	Cotton fabrics whose value per square metre—	
	(1) does not exceed two rupees,	two per cent. <i>ad valorem.</i>
	(11) exceeds two rupees but does not exceed three rupees,	three and a half per cent. <i>ad valorem.</i>

(1)	(2)	(3)
(iii) exceeds three rupees but does not exceed four rupees,		five per cent. <i>ad valorem.</i>
(iv) exceeds four rupees but does not exceed five rupees,		six and a half per cent <i>ad valorem.</i>
(v) exceeds five rupees but does not exceed six rupees,		eight per cent. <i>ad valorem.</i>
(vi) exceeds six rupees but does not exceed seven rupees,		nine and a half per cent. <i>ad valorem.</i>
(vii) exceeds seven rupees but does not exceed eight rupees,		eleven per cent. <i>ad valorem.</i>
(viii) exceeds eight rupees but does not exceed nine rupees,		twelve and a half per cent. <i>ad valorem.</i>
(ix) exceeds nine rupees but does not exceed ten rupees,		fourteen per cent. <i>ad valorem.</i>
(x) exceeds ten rupees but does not exceed eleven rupees,		sixteen per cents. <i>ad valorem.</i>
(xi) exceeds eleven rupees but does not exceed twelve rupees,		eighteen per cent. <i>ad valorem.</i>
(xii) exceeds twelve rupees.		twenty per cent. <i>ad valorem.</i>

Provided that—

- (i) in the case of handloom fabrics, the duty shall be forty per cent. of the above rate when such fabrics are processed by independent processors, and shall be fifty-five per cent. of the rates specified in the Table, when such fabrics are processed by composite mills;
- (ii) in the case of powerloom fabrics, the duty shall be fifty per cent. of the rates specified in the Table, when such fabrics are processed by independent processors, and shall be sixty-five per cent. of the rates specified in the Table, when such fabrics are processed by composite mills;
- (iii) fabrics, on which duty has been paid at the appropriate rates, when subjected to finishing process or further finishing process or processes, shall be exempt from so much of the duty of excise leviable thereon as has already been paid on such fabrics;
- (iv) when such cotton fabrics, on which duty has been paid in terms of sub-rule (1) of rule 173-RD of the Central Excise Rules, 1944, are processed, the exemption shall, subject to the satisfaction of the proper officer, be allowed at such rate per rupee of the value of such cotton fabrics as may be determined by dividing "a" by "b", and, for this purpose;
  - (A) "a" shall stand for the amount of duty paid by the assessee, in the manner provided for in rule 173-RD, for the month in which such cotton fabrics were produced;
  - (B) "b" shall stand for one-twelfth of the one hundred and fifty per cent. of the annual value determined under sub-rule (3) of rule 173-RA of the Central Excise Rules, 1944; and
  - (C) "value" shall stand for the value of the cotton fabrics on the date on which such fabrics were removed for processing by the assessee discharging his duty liability under rule 173-RD;
- (v) (a) the quantum of exemption referred to in the preceding proviso shall not exceed the amount of duty paid in a month by the said assessee under rule 173-RD;

- (b) the receipts and clearances of such duty paid cotton fabrics shall be subject to such other terms, conditions and limitations as the Collector may specify in this behalf;

Provided further that the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 80: 20 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively

*Explanation.*—For the purposes of this notification,—

- (a) "composite mill" means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton yarn or weaving or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities,
- (b) "handloom fabrics" means cotton fabrics made from cotton yarn (other than hand spun cotton yarn) and woven on looms worked by manual labour,
- (c) "independent processor" means a manufacturer who is engaged exclusively in the processing of cloth with the aid of power and who has no proprietary interest in any factory engaged in the spinning of yarn or weaving of cotton fabrics

[No. 135/77]

सा० का० नि० 327.(अ) केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1 के अन्तर्गत सम्मिलित सूती फैब्रिकों को, जो इस से उपाबद्ध सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

### सारणी

क्रम संख्या	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
सूती फैब्रिक जिनका मूल्य प्रति वर्ग मीटर —		
(i)	दो रुपए से अधिक नहीं है	दो प्रतिशत मूल्यानुसार
(ii)	दो रुपए से अधिक किन्तु तीन रुपए से अधिक नहीं है।	साढ़े तीन प्रतिशत मूल्यानुसार
(iii)	तीन रुपए से अधिक किन्तु चार रुपए से अधिक नहीं है।	पाच प्रतिशत मूल्यानुसार
(iv)	चार रुपए से अधिक किन्तु पाच रुपए से अधिक नहीं है।	साढ़े छह प्रतिशत मूल्यानुसार

(1)	(2)	(3)
(v) पांच रुपए से अधिक किन्तु छह रुपए से अधिक नहीं है।	छाठ प्रतिशत मूल्यानुसार	
(vi) छह रुपए से अधिक किन्तु सात रुपए से अधिक नहीं है।	साढ़े नौ प्रतिशत मूल्यानुसार	
(vii) सात रुपए से अधिक किन्तु आठ रुपए से अधिक नहीं है।	ग्यारह प्रतिशत मूल्यानुसार	
(viii) आठ रुपए से अधिक किन्तु नौ रुपए से अधिक नहीं है।	साढ़े बारह प्रतिशत मूल्यानुसार	
(ix) नौ रुपए से अधिक किन्तु दस रुपए से अधिक नहीं है।	चौदह प्रतिशत मूल्यानुसार	
(x) दस रुपए से अधिक किन्तु ग्यारह रुपए से अधिक नहीं है।	सोलह प्रतिशत मूल्यानुसार	
(xi) ग्यारह रुपए से अधिक किन्तु बारह रुपए से अधिक नहीं है।	अठारह प्रतिशत मूल्यानुसार	
(xii) बारह रुपए से अधिक है।	बीस प्रतिशत मूल्यानुसार	

परन्तु यह कि —

- (i) हथकरघा के फैब्रिको की दशा में शुल्क तब ऊपर दी गई दरों का चालीस प्रतिशत होगा जब ऐसे फैब्रिक स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रसंस्कृत किए जाते हैं और वहां सारणी में विनिर्दिष्ट दरों का पंचपन प्रतिशत होगा जहां ऐसे फैब्रिक संयुक्त मिलों द्वारा प्रसंस्कृत किए जाते हैं ;
- (ii) बिजली करघा के फैब्रिको की दशा में शुल्क वहां सारणी में विनिर्दिष्ट दरों का पंच स प्रतिशत होगा जहां ऐसे फैब्रिक स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रसंस्कृत किए जाते हैं और वहां सारणी में विनिर्दिष्ट दरों का पैंसठ प्रतिशत होगा जहां ऐसे फैब्रिक संयुक्त मिलों द्वारा प्रसंस्कृत किए जाते हैं ,
- (iii) ऐसे फैब्रिक, जिन पर शुल्क समुचित दरों पर संदत्त तब किया जा चुका है जब वे समापन प्रक्रिया के अथवा और आगे समापन प्रक्रिया अथवा प्रक्रियाओं के अधीन हों, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होगे जितना ऐसे फैब्रिकों पर पहले ही संदत्त किया जा चुका है ,
- (iv) जब ऐसे सूती फैब्रिक, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173दष के उपनियम (1) के अनुसरण में शुल्क का सदाय किया जा चुका है, प्रसंस्कृत किए जाते हैं, छूट ऐसी सूती फैब्रिक के मूल्य के प्रति रुपए पर, समुचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में ऐसी दर से अनुज्ञात की जाएगी जो "क" को "ख" से विभाजित करके अवधारित की जाए, और, इस प्रयोजन के लिए, —
  - (क) "क" में, निर्धारिती द्वारा उस मास में, जिसमें ऐसे सूती फैब्रिक का उत्पादन किया गया था, नियम 173दष में उपबन्धित रीति में संदक्ष शुल्क की रकम आएगी ;

- (ख) 'ख' में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173दक के उप-नियम (3) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के एक सौ पचास प्रतिशत का बारहवा भाग आएगा ; और
- (ग) 'मूल्य' में, निर्धारिती द्वारा नियम, 173 दक के अधीन अपने शुल्क दायित्व का निर्वहन करने हुए, प्रसस्करण के लिए ऐसे फैब्रिक को हटाने की तारीख को सूती फैब्रिक का मूल्य आएगा ;
- (v) (क) पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट छट की मात्रा उक्त निर्धारिती द्वारा नियम 173दक के अधीन किसी मास में सदत्त शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगी ,
- (ख) ऐसे शुल्क संदत्त सूती फैब्रिक की प्राप्ति या और निकासियां ऐसी अन्य शर्तों, निबन्धनों और परिमीमाओं के अधीन होगी जो कमक्टर द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु यह और कि इस प्रकार उद्ग्रहीत शुल्क की रकम को, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच 80:20 के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण.**—इस अधिमूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) "संयुक्त मिल" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से सूती सूत की कटाई में या सूती फैब्रिक की बुनाई या प्रसस्करण में लगा हुआ है और जिसका कम से कम ऐसे दो विनिर्माण कार्यकलापों में साम्प्रतिक हित है ;
- (ख) "हाथकरघा फैब्रिक" से ऐसे सूती फैब्रिक अभिप्रेत हैं जो सूती सूत से (जो हाथ से कटे सूती सूत से भिन्न हों) तैयार किए गए हों और शारीरिक श्रम से चलने वाले कर्घों पर बुने हुए हों ;
- (ग) "स्वतंत्र प्रसस्करणकर्ता" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से वस्त्र के प्रसस्करण में अनन्य रूप से लगा हुआ है और जिसका सूत की कटाई या सूती फैब्रिकों की बुनाई में लगे हुए किसी कारखाने में कोई साम्प्रतिक हित नहीं है ।

[स० 135 77]

**G.S.R. 328(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts tents and bags of cotton fabrics of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed (hereafter in this notification referred to as the "Table") and falling under sub-item 1 of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified under corresponding entries in column (3) thereto.

THE TABLE

S. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
	Fents and rags arising out of cotton fabrics whose value per square metre—	
	(i) does not exceed three rupees,	two per cent. <i>ad valorem</i> .
	(ii) exceeds three rupees but does not exceed five rupees,	five per cent. <i>ad valorem</i> .
	(iii) exceeds five rupees but does not exceed seven rupees,	eight per cent. <i>ad valorem</i> .
	(iv) exceeds seven rupees but does not exceed nine rupees,	eleven per cent. <i>ad valorem</i> .
	(v) exceeds nine rupees but does not exceed twelve rupees,	fourteen per cent. <i>ad valorem</i> .
	(vi) exceeds twelve rupees.	twenty per cent. <i>ad valorem</i> .

Provided that—

- (i) in the case of handloom fabrics the duty shall be forty per cent. of the rates specified in the Table, when such fabrics are processed by independent processors and shall be fifty-five per cent. of the rates specified in the Table, when such fabrics are processed by composite mills;
- (ii) in the case of powerloom fabrics the duty shall be fifty per cent. of the rates specified in the Table, when such fabrics are processed by independent processors and shall be sixty-five per cent. of the rates specified in the Table, when such fabrics are processed by composite mills.
- (iii) fabrics on which duty has been paid at the appropriate rates when subjected to finishing process or further finishing process or processes shall be exempt from so much of the duty of excise leviable thereon as has already been paid on such fabrics.

Provided further that the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 80 : 20 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (38 of 1957), respectively.

Explanation—For the purposes of this notification,—

(a) the expression “fents” means—

- (i) *bona fide* cut-pieces of cotton fabrics (excluding cut-pieces of towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres, where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres, where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples;
- (ii) damaged cotton fabrics (excluding damaged towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres, where the width of the fabric is one metre or more and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres, where the width of the fabric is less than one metre; and
- (iii) cut-pieces of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres, where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres, where the width of the fabric is less than one metre, cut from damaged dhoties or sarees;

(b) the expression "rags" means,—

- (i) *bona fide* cut-pieces of cotton fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres, where the width of the fabric is one centimetre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres, where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and
- (ii) cut-pieces of damaged or sub-standard cotton fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres, where the width of the fabric is one metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than one metre;
- (c) "composite mill" means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton yarn or weaving or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities;
- (d) "handloom fabrics" means cotton fabrics made from cotton yarn (other than hand spun cotton yarn) and woven on looms worked by manual labour,
- (e) "independent processor" means a manufacturer who is engaged exclusively in the processing of cloth with the aid of power and who has no proprietary interest any factory engaged in the spinning of yarn or weaving of cotton fabrics

[No. 136/77]

सं० का० नि० 328 (अ)—केन्द्रीय सरकार, प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1 के अन्तर्गत सम्मिलित सूती फैब्रिकों के टुकड़ों और चिथड़ों को, जो इससे उपाबद्ध सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सारणी' कहा गया है) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

### सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)

सूती फैब्रिको से निकले ऐसे टुकड़े और चिथड़े  
जिनका मूल्य प्रति वर्ग मीटर—

- (i) तीन रुपए से अधिक नहीं है दो प्रतिशत मूल्यानुसार
- (ii) तीन रुपए से अधिक है किन्तु पाच रुपए से अधिक पाच प्रतिशत मूल्यानुसार नहीं है।
- (iii) पाच रुपए से अधिक है किन्तु सात रुपए से अधिक आठ प्रतिशत मूल्यानुसार नहीं है।

(1)

(2)

(3)

- (iv) सात रुपए से अधिक है किन्तु नौ रुपए से अधिक ग्यारह प्रतिशत मूल्यानुसार नहीं है ।
- (v) नौ रुपए से अधिक है किन्तु बारह रुपये से अधिक, चौदह प्रतिशत मूल्यानुसार नहीं है ।
- (vi) बारह रुपए से अधिक है । बीस प्रतिशत मूल्यानुसार

परन्तु यह कि—

- (i) हथकरघा के फैब्रिको की दशा में शुल्क तब ऊपर दी गई वरों का चालीस प्रतिशत होगा जब ऐसे फैब्रिक स्वतन्त्र प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रसंस्कृत किए जाते हैं और वहां सारणी में विनिर्दिष्ट दरों का पचपन प्रतिशत होगा जहां ऐसे फैब्रिक समुक्त मिलों द्वारा प्रसंस्कृत किये जाते हैं ।
- (ii) बिजलीकरघा के फैब्रिको की दशा में शुल्क वहां सारणी में विनिर्दिष्ट दरों का पचास प्रतिशत होगा जहां ऐसे फैब्रिक स्वतन्त्र संस्करणकर्ताओं द्वारा प्रसंस्कृत किए जाते हैं और वहां सारणी में विनिर्दिष्ट दरों का पैसठ प्रतिशत होगा जहां ऐसे फैब्रिक समुक्त मिलों द्वारा प्रसंस्कृत किये जाते हैं ।
- (iii) ऐसे फैब्रिक, जिन पर शुल्क समुचित दरों पर सदत्त तब किया जा चुका है जब वे समापन प्रक्रिया के अथवा और आगे समापन प्रक्रिया अथवा प्रक्रियाओं के अधीन हों, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होगे जितना ऐसे फैब्रिको पर पहले ही सेदत्त किया जा चुका है

परन्तु यह और कि इस प्रकार उद्ग्रहीत शुल्क की रकम को, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच 80 : 20 के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण.**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

(क) “टुकड़े” पद से अभिप्रेत है—

- (i) विनिर्माण (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या बैंक करते का नमूने लेते के प्रसमान्य अनुक्रम के दौरान निकले सूती फैब्रिक के वस्तुतः कटे टुकड़े (जिसके अन्तर्गत तीलियों के कटे टुकड़े नहीं आते) जो, जहां फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक और जहां फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक, लम्बे हों ;



(ii) कटे-फटे सूती फैब्रिक (जिनके अन्तर्गत कटे-फटे तौलिए नहीं आते) जो, जहा फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक है, वहां 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक, और जहा फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक, लम्बे हो, और

(iii) कटी-फटी धोतियो या साडियो के कटे टुकड़े, जो जहा फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक, और जहा फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक, लम्बे हो ;

(ख) "चिथड़े" मद से अभिप्रेत है,—

(1) विनिर्माण (जिसमें प्रमस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले सूती फैब्रिक के वस्तुतः कटे टुकड़े, जो जहा फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से अनधिक और जहा फैब्रिक की चौड़ाई एक सेंटीमीटर से कम हो वहां 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से अनधिक, लम्बे हो; और

(ii) कटे-फटे या निम्न मानक के सूती फैब्रिक के कटे टुकड़े जो, जहा फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 35 सेंटीमीटर से अनधिक और जहा फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हो ।

(ग) "सयुक्त मिल" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से सूती सूत की कटाई में या सूती फैब्रिक की बुनाई या प्रमस्करण में लगा हुआ है और जिसका कम से कम ऐसे दो विनिर्माण कार्यकलापों में साम्प्रतिक हित है ;

(घ) "हथकरवा फैब्रिक" से ऐसे सूती फैब्रिक अभिप्रेत हैं जो सूती सूत से (जो हाथ से कटे सूती सूत से भिन्न हो) तैयार किए गए हों और शारीरिक श्रम से चलने वाले करघों पर बुने हुए हो ;

(ङ) "स्वतन्त्र प्रसस्करणकर्ता" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से वस्त्र के प्रसस्करण में अनन्य रूप से लगा हुआ है और जिसका सूत की कटाई या सूती फैब्रिकों की बुनाई में लगे हुए किसी कारखाने में कोई साम्प्रतिक हित नहीं है ।

**G.S.R. 329(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts cotton fabrics, falling under sub-Item of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when processed without the aid of power or steam, from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

[No. 137/77]

**सांकांनि० 329(प्र).**—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद (i) के अन्तर्गत सम्मिलित सूती कपड़ों को, तब जब उनका प्रसंस्करण पावर या भाप की सहायता के बिना किया गया हो, उन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 137/77]

**G.S.R. 330(E)** —In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue and Banking, as the case may be, namely :—

S.  
No.

Notification number and date

(1)

(2)

1. No. 189/61-Central Excises, dated the 30th December, 1961.
2. No. 106/62-Central Excises, dated the 9th June, 1962.
3. No. 61/67-Central Excises, dated the 15th April, 1967.
4. No. 50/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.
5. No. 51/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.
6. No. 52/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.
7. No. 53/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.
8. No. 54/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.
9. No. 128/69-Central Excises, dated the 29th April, 1969.
10. No. 130/69-Central Excises, dated the 29th April, 1969.
11. No. 127/70-Central Excises, dated the 6th June, 1970.
12. No. 128/70-Central Excises, dated the 6th June, 1970.
13. No. 132/70-Central Excises, dated the 8th June, 1970.
14. No. 63/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
15. No. 50/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.
16. No. 52/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.

(1)

(2)

17. No. 56/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.
18. No. 63/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.
19. No. 27/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.
20. No. 30/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.
21. No. 125/75-Central Excises, dated the 12th May, 1975.
22. No. 58/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
23. No. 78/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
24. No. 79/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
25. No. 83/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
26. No. 84/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
27. No. 82/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
28. No. 121/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
29. No. 236/76-Central Excises, dated the 30th August, 1976.
30. No. 237/76-Central Excises, dated the 30th August, 1976.
31. No. 238/76-Central Excises, dated the 30th August, 1976.
32. No. 85/77-Central Excises, dated the 9th May, 1977.
33. No. 99/77-Central Excises, dated the 31st May, 1977.

[No. 138/77]

सांका०नि० 330.(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, यथास्थिति, राजस्व विभाग, राजस्व और बीमा विभाग, ग्रथवा राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात् :—

क्रम  
सं०

अधिसूचना सं० और तारीख

(1)

(2)

1. सं० 189/61—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 1961
2. सं० 106/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जून, 1962]
3. सं० 61/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 अप्रैल, 1967
4. सं० 50/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969
5. सं० 51/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969
6. सं० 52/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969
7. सं० 53/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969
8. सं० 54/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969
9. सं० 128/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1969

(1)

(2)

10. स० 130/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1969
11. स० 127/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 जून, 1970
12. स० 128/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 जून, 1970
13. स० 132/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जून, 1970
14. स० 63/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972
15. स० 50/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973
16. स० 52/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973
17. स० 56/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973
18. स० 63/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973
19. स० 27/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975
20. स० 30/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975
21. स० 125/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 मई, 1975
22. स० 58/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
23. स० 78/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
24. स० 79/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
25. स० 83/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
26. स० 84/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
27. स० 88/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
28. स० 121/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
29. स० 236/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अगस्त, 1976
30. स० 237/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अगस्त, 1976
31. स० 238/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अगस्त, 1976
32. स० 85/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 मई, 1977
33. स० 99/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 मई, 1977

**G.S.R. 331(B).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry or entries, as the case may be, in column (3) of the said Table

THE TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1	No. 59/65—Central Excises, dated the 1st April, 1965.	For the words, letters and figures "Item No. 18", the words, letters and figures "Item No. 18 or Item No. 18E, as the case may be", shall be substituted.
2.	No. 13/69—Central Excises, dated the 22nd February, 1969. No. 76/69—Central Excises, dated the 1st March, 1969. No. 77/69—Central Excises, dated the 1st March, 1969. No. 80/69—Central Excises, dated the 1st March, 1969. No. 171/70—Central Excises, dated the 21st November, 1970. No. 84/71—Central Excises, dated the 29th May, 1971. No. 179/72—Central Excises, dated the 24th July, 1972. No. 61/73—Central Excises, dated the 1st March, 1973. No. 109/75—Central Excises, dated the 30th April, 1975. No. 110/75—Central Excises, dated the 30th April, 1975. No. 192/76—Central Excises, dated the 19th June, 1976. No. 2/77—Central Excises, dated the 15th January, 1977.	In each of the notifications specified under column (2), for the words "Rayon and artificial silk fabrics", "Rayon or artificial silk fabrics", "rayon or artificial silk fabrics", wherever they occur, the words "man-made fabrics" shall, rules of grammar be substituted.
3.	No. 13/69—Central Excises, dated the 22nd February, 1969.	for the words "rayon or artificial silk content" the words "man-made fibre content" shall be substituted.
4.	No. 70/69—Central Excises, dated the 1st March, 1969.	(i) Clause (xiv) shall be omitted, (ii) proviso (c) shall be omitted and for the semi-colon at the end of clause (b), the full stop shall be substituted.
5.	No. 91/69—Central Excises, dated the 1st March, 1969.	In the Table annexed to the said notification Serial No. 15, and the entries against the said Serial No. shall be omitted.

(1)	(2)	(3)
<p>6, No. 135/69-Central Excises, dated the 8th May, 1969.          No. 57/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.          No. 106/73-Central Excises, dated the 28th April, 1973.          No. 80/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.          No. 122/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.</p>	<p>In each of the notifications specified under column (2), for the words, letters and figures "sub-item I(2) of Item No. 19", wherever they occur, the words, letters and figures "sub-item I of Item No. 19" shall be substituted.</p>	
<p>7. No. 199/71-Central Excises, dated the 11th December, 1971.</p>	<p>In Appendix I,—          (i) in the entries under column (2), for the figures "18" the figures, letters and words "18 or 18B, as the case may be" shall be substituted;          (ii) in the entries under column (3), (a) for the words "rayon and synthetic fibres and yarn" the words "man-made fibres and yarn" shall be substituted, (b) for the words "rayon or artificial silk fabrics" the words "man-made fabrics", shall be substituted.</p>	
<p>8. No. 53/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.</p>	<p>For the words "rayon and synthetic fibre", the words "man-made fibres" shall be substituted.</p>	
<p>9. No. 55/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.</p>	<p>For the words, figures and letter, "Item No. 18C" the words, figures and letters, "Item No. 18C(1)" shall be substituted.</p>	
<p>10. No. 164/72-Central Excises, dated the 10th July, 1972.</p>	<p>For the words "artificial silk fabrics," the words "man-made fabrics" shall be substituted.</p>	
<p>11. No. 172/72-Central Excises, dated the 24th July, 1972.</p>	<p>For the words, letters and figures "Item No. 18" the words, letters and figures "Item No. 18, 18A, 18B, 18C, 18E or 18F, as the case may be", shall be substituted.</p>	
<p>12. No. 28/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.</p>	<p>(i) in the opening portion of paragraph 1, for the words, figures and letters "rayon and synthetic fibres and yarn falling under Item No. 18(1)", the words, letters and figures "man-made fibres and yarn, other than textured, falling under Item No. 18", shall be substituted;          (ii) In the Table, (a) in the entries against S. No. 1, sub-clause (b) of clause (11), in column (3), for the figures "40 00" the figures "36 00" shall be substituted;          (b) the second proviso in column (2) against S.N. 1 shall be omitted;          (iv) in paragraph 2, for the words "rayon and synthetic yarn", the words "man-made filament yarns" shall be substituted.</p>	
<p>13. No. 186/75-Central Excises, dated the 21st August, 1975</p>	<p>(i) for the words and figures "Item No. 18", the words and figures "Item No. 18 or 18E, as the case may be", shall be substituted;          (ii) for the words "rayon and synthetic yarn" the words "man-made yarn" shall be substituted.</p>	

(1)	(2)	(3)
14. No. 26/76-Central Excises, dated the 21st February, 1976.	(1) In the opening portion,— (a) for the words "rayon and synthetic fibres and yarn" the words "man-made fibres and yarn" shall be substituted (b) for the words, letters and figures "Item No. 18", the words, letter and figures, "Item No. 18 or 18E as the case may be, "shall be substituted; (ii) In the Table,— (a) for the words "rayon and synthetic fibres and yarn" the words "man-made fibres and yarn" shall be substituted (b) for the words "rayon and synthetic yarn" the words "man-made yarns" shall be substituted.	
15. No. 64/77-Central Excises, dated the 15th April, 1977.	For the words, letters and figures "sub-item (i) of Item No. 18E", the words, letters and figures "Item No. 18" shall be substituted.	

No. [139/77]

सांकांनि० 331.(अ) केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त, उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के अधिनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निवेश करती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, यथास्थिति, राजस्व विभाग, राजस्व और बीमा विभाग या राजस्व और बैंकिंग विभाग की वे अधिसूचनाएँ जो (ससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की, यथा स्थिति, तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रीति में, यथास्थिति सशोधित अथवा और आगे सशोधित की जाएगी।

## सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	सशोधन
(1)	(2)	(3)
1	सं० 59/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1965	"मद सं० 18" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "मद सं० 18 या मद सं० 18ड" तथा ध्वनि शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।
2	सं० 13/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 22 फरवरी, 1969 सं० 76/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969। सं० 77/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969। सं० 80/69 के द्वी। उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969।	स्तम्भ (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं में से प्रत्येक में, "रेयन और कृत्रिम रेशम के फैब्रिक "रेयन या कृत्रिम रेशम के फैब्रिक" शब्द जहाँ जहाँ भी आए हैं, उन के स्थान पर, "कृत्रिम फैब्रिक" शब्द, व्याकरण के नियमों के अधीन रहते हुए रखे जाएंगे।

(1)

(2)

(3)

- सं० 171/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,  
तारीख 21 नवम्बर, 1970 ।
- सं० 84/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क  
29 मई, 1971 ।
- सं० 179/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24  
जुलाई, 1972 ।
- सं० 61/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख  
1 मार्च, 1973 ।
- सं० 109/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,  
तारीख 30 अप्रैल, 1975 ।
- सं० 110/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,  
तारीख 30 अप्रैल, 1975 ।
- सं० 192/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,  
तारीख 19, जून, 1976 ।
- सं० 2/77—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख  
15 जनवरी, 1977
3. सं० 13/69—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,  
तारीख 22 फरवरी, 1969 ।
4. सं० 70/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,  
तारीख 1 मार्च, 1969
5. सं० 91/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,  
तारीख 1 मार्च, 1969
6. सं० 135/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,  
तारीख 6 नवम्बर, 1969 ।
- सं० 57/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख  
1 मार्च, 1973 ।
- सं० 106/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क  
तारीख 28 अप्रैल, 1973 ।
- “रेयन या कृत्रिम रेशम की अन्तर्वस्तु”  
शब्दों के स्थान पर, “कृत्रिम काष्ठर  
अन्तर्वस्तु” शब्द रखे जाएंगे ।
- (i) खंड (xiv) का लो. किया  
जाएगा ,
- (ii) परन्तु (ग) का लोप किया जाएगा  
और खंड (ख) के अन्त में अर्द्ध-  
विराम के स्थान पर पूर्ण विराम रखा  
जाएगा ।
- उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में  
मद सं० 15 और उसके सामने की  
प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
- स्तम्भ (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधि-  
सूचनाओं में से प्रत्येक में, “मद सं०  
19 की उपमद 1(2)” शब्दों, अक्षरों  
और अंकों, जहां कहीं भी आए हों, के  
स्थान पर, “मद सं० 19 की उपमद 1”  
शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे



(1)	(2)	(3)
सं० 80/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976 ।		
सं० 122/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976 ।		
7 सं० 199/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 दिसम्बर, 1971 ।		परिशिष्ट 1 में,— (i) स्तम्भ (2) के अधीन प्रविष्टियों में, “18” अंक के स्थान पर, “यथा-स्थिति, 18 या 18 ड” अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे, (ii) स्तम्भ (3) के अधीन प्रविष्टियों में, (क) “रेयन और संश्लिष्ट फाइबर और सूत” शब्दों के स्थान पर, “कृत्रिम फाइबर और सूत” शब्द रखे जाएंगे; (ख) “रेयन या कृत्रिम रेशम के फैब्रिक” शब्दों के स्थान पर, “कृत्रिम फैब्रिक” शब्द रखे जाएंगे ।
8 सं० 53/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 ।		“रेयन और संश्लिष्ट फाइबर” शब्दों के स्थान पर “कृत्रिम फाइबर” शब्द रखे जाएंगे ।
9 सं० 55/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 ।		“मद सं० 18ग” शब्दों, अंक और अक्षर के स्थान पर “मद सं० 18 ग(i)” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।
10 सं० 164/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 जुलाई, 1972 ।		“कृत्रिम रेशम के फैब्रिक” शब्दों के स्थान पर “कृत्रिम फैब्रिक” शब्द रखे जाएंगे ।
11 सं० 172/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 ।		“मद सं० 18ड” शब्दों के अंकों और अक्षर, स्थान पर “यथास्थिति, मद सं० 18, 18क, 18ख, 18ग, 18ड, या 18घ” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।
12 सं० 28/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 ।		(i) पैरा 1 के प्रारम्भ के भाग में, “मद सं० 18(i) के अन्तर्गत आने वाले रेयन और संश्लिष्ट फाइबर और सूत” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “मद सं० 18 के अन्तर्गत सम्मिलित संव्यतित से भिन्न, कृत्रिम फाइबर और सूत” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(1)

(2)

(3)

- (ii) सारणी मे, (क) क्रम सं० 1 के खंड (ii) के उपखंड (ख) के सामने की प्रविष्टियों में, स्तम्भ (3) मे, "40 00" अंकों के स्थान पर, "36.00" अंक रखे जाएंगे (ख) क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (2) में के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा ;
- (iii) पैरा 2 मे, "रेयन और सश्लिष्ट सूत" शब्दों के स्थान पर, "कृत्रिम रेसा सूत" शब्द रखे जाएंगे ।
- 13 सं० 186/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,  
तारीख 21 अगस्त, 1975 ।
- (i) "मद सं० 18" शब्दों और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, मद सं० 18 या मद सं० 18ड" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (ii) "रेयन और सश्लिष्ट सूत" शब्दों के स्थान पर, "कृत्रिम सूत" शब्द रखे जाएंगे ।
- 14 सं० 26, 76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क,  
तारीख 21 फरवरी, 1976 ।
- (i) प्रारम्भ के भाग मे,—
- (क) "रेयन और सश्लिष्ट फाइबर और सूत" शब्दों के स्थान पर, "कृत्रिम फाइबर और सूत" शब्द रखे जाएंगे,
- (ख) "मद सं० 18" शब्दों और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, मद सं० 18 और 18ड" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।
- (ii) सारणी मे,—
- (क) "रेयन और सश्लिष्ट फाइबर और सूत" शब्दों के स्थान पर, "कृत्रिम फाइबर और सूत" शब्द रखे जाएंगे,
- (ख) "रेयन और सश्लिष्ट सूत" शब्दों के स्थान पर, "कृत्रिम सूत" शब्द रखे जाएंगे ।

(1)

(2)

(3)

- 15 64 77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 “मद सं० 18ड की उपमद (i)” शब्दों, अप्रैल, 1977। अको और अक्षर के स्थान पर, “मद सं० 18” शब्द और अक रखे जाएंगे।

[सं० 139/77]

**G S.R. 332 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby directs that the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Banking, specified in column (1) of the Table hereto annexed, shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

## THE TABLE

Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)
No. 37/77-Central Excises dated the 18th March 1977	For the words “rayon and artificial silk fabrics”, the words “man-made fabrics” shall be substituted

[No 140/77]

**सां०का०नि० 332 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है, कि भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय, राजस्व और बैंकिंग विभाग की वह अधिसूचना जो इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में, मशोधित की जाएगी।

## सारणी

अधिसूचना सं० और तारीख	मशोधन
(1)	(2)
सं० 37, 77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 मार्च, 1977।	“रेयन और कृत्रिम रेशम के फैब्रिक” शब्दों के स्थान पर, “कृत्रिम फैब्रिक” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 140/77]

**G.S.R. 333(E).**—In exercise of the powers conferred by rule 96EE of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby directs that the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, specified in column (1) of the Table hereto annexed, shall be further amended, in the manner specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)
No. 174/72-Central Excises, dated the 24th July, 1972.	For the words, letters and figures beginning with "yarn containing two or more of" and ending with "Item No. 18E", the words, letters and figures "cellulosic spun yarn falling under Item No. 18", shall be substituted.

[No. 141/77]

**सा०का०नि० 333 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 ईड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व और बीमा विभाग की उस अधिसूचना में, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तन्व्यानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में, और प्राग सशोधन किया जाएगा ।

सारणी

अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)

सं० 174/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972।	"ऐसे सूत को लागू होगी" शब्दों में आरम्भ और "मद सं० 18E" के अन्तर्गत आता है" शब्दों, अको और अक्षर से समाप्त वाक्य के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 के अन्तर्गत सम्मिलित सैल्यू-लोमी काते हुए सूत को लागू होगी ।" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।
--	---

[141/77]

**G.S.R. 334(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking, No. 235/76-Central Excises, dated the 30th August, 1976.

[No. 142/77]

**सा०का०नि० 334(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 235/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अगस्त, 1976 को विरुद्धित करती है ।

[सं० 142/77]

**G S R. 335(E).**—In pursuance of rule 96J of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, or Department of Revenue and Insurance, as the case may be, namely—

- 1 No. 41/65-Central Excises, dated the 28th February, 1965
2. No 154/74-Central Excises, dated the 30th November, 1974

[No. 143/77]

**सा० का० नि० 335(अ)**—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96अ के अनुसरण में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग या राजस्व और बीमा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात्—

1. स० 41/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1965 ।
2. सं० 154/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1974 ।

[स० 143/77]

**G.S.R. 336(E)**—In pursuance of rule 96W of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, namely—

- 1 No. 48/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969
2. No 49/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969
3. No 62/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972

[No. 144/77]

**सा० का० नि० 336(अ)**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 ब के अनुसरण में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व और बीमा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात्—

1. सं० 48/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 ।
2. सं० 49/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 ।
3. स० 62/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 ।

[स० 144/77]

**G.S.R. 337(E).**—In pursuance of rule 96-ZP of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, No 158/73-Central Excises, dated the 1st August, 1973.

[No. 145/77]

**सा० का० नि० 337(अ)**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 य त के अनुसरण में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व और बीमा विभाग की अधिसूचना सं० 158/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अगस्त, 1973 को विखण्डित करती है ।

[स० 145/77]

**G.S.R. 338(E).**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely —

**1 Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Central Excises (Fourteenth Amendment) Rules, 1977

(11) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

**2. In the Central Excise Rules, 1944,—**

(a) rules 96-B and 96-C shall be omitted,

(b) sub-rule (6) of rule 96-D shall be omitted;

(c) sub-rule (5) of rule 96-DD shall be omitted;

(d) in Chapter V,—

(i) the heading “E-III Cotton Fabrics and Silk Fabrics Produced on Powerlooms—Special Procedure” and rules 96-I to 96-MMMMM shall be omitted;

(ii) the heading “E-VI-Cotton Yarn, Woollen Yarn and Yarn falling under Item No 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) Special Procedure” and rules 96V to 96X shall be omitted,

(iii) the heading “E-XI Cotton Fabrics processed without the aid of power or steam—Special Procedure”, and rules 96-ZO to 96-ZUU shall be omitted,

(e) in rule 173A, in sub-rule (2), the letter and figures “E-III,” shall be omitted

**3. The omission of any rule or sub-rule made by rule 2 shall not affect anything done or any action taken, before such omission, under the rule or sub-rule, as the case may be, so omitted**

[No. 146/77]

LAJJA RAM, Dy Secy.

**सा० का० नि० 338(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

**1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौदहवा सशोधन) नियम, 1977 है ।

(ii) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में,—**

(क) नियम 96-ख और 96-ग का लोप किया जाएगा ,

(ख) नियम 96-घ के उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ,

(ग) नियम 96घघ के उपनियम (5) का लोप किया जाएगा ,

(घ) अध्याय 5 में,—

(i) शीर्ष “ऊ-3 पावरलूम पर तैयार किए गए सूती कपड़े और सिल्क के कपड़े—विशेष प्रक्रिया” तथा नियम 96-झ से 96-डडडड तक का लोप किया जाएगा ,

- (ii) शीर्ष "ड-6 सूती सूत, ऊनी सूत और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 के अधीन सम्मिलित सूत—विशेष प्रक्रिया" तथा नियम 96-फ से 96-भ तक का लोप किया जाएगा ;
- (iii) शीर्ष "ड-11 पावर या भाप की सहायता से प्रसंस्कृत सूती कपड़े—विशेष प्रक्रिया" तथा नियम 96-यण से 96-यप तक का लोप किया जाएगा ।
- (ड) नियम 173क में, उपनियम (2) में, "ड-3" अक्षर और अंक का लोप किया जाएगा !

3. नियम 2 द्वारा किसी नियम या उप-नियम का लोप, इस प्रकार विलोपित, यथास्थिति, नियम या उपनियम के अधीन, ऐसे लोप से पूर्व की गई किसी बात या किसी कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा ।

[सं 146/77]

लज्जा राम, उप सचिव ।

## CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 339(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby exempts steel ingots, including steel melting scrap, falling under Item No. 26 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of three hundred and thirty rupees per metric tonne

[No. 147/77]

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जन, 1977

**सां० कां० नि० 339(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत सम्मिलित इस्पात उत्पादों को, जिसके अन्तर्गत पिघला स्क्रैप भी आता है, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग में छूट देती है जो एक भी तौंस रुपए प्रति मीटरी टन से अधिक हो ।

[सं 147/77]

**G.S.R. 340(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts steel ingots, falling under Item No. 26 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and required for use for the manufacture of rails or sleeper bars, falling under Item No. 26AA of the said Schedule, which are used for railway track from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of one hundred and seventy five rupees per metric tonne

Provided that the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

Provided further that where such ingots are manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely:—

- (i) old iron or steel melting scrap,

- (ii) a combination of the material referred to at (i) with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid; and
- (iii) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (i) and (ii), the duty leviable under this notification shall be reduced by one hundred and fifty rupees per metric tonne.

[No. 148/77]

सा० का० नि० 340(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत सम्मिलित इस्पात की मिलियों को जो उक्त अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत सम्मिलित ऐसी रेलो या स्लीपर शलाकाओं के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने के लिए अपेक्षित हो, जिनका उपयोग रेल ट्रैको के लिए किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उनसे भाग से छूट देती है जो एक सौ पचास रुपये प्रति मीटरी टन से अधिक हों :

परन्तु यह तब तक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है :

परन्तु यह और कि वहाँ, जहाँ ऐसे उत्पादों का विनिर्माण वैद्युत भट्ठी की सहायता से निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से किया जाता है, इस अधिसूचना के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क एक सौ पचास रुपये प्रति मीटरी टन की दर से कम कर दिया जाएगा, अर्थात् —

- (i) पुराना लोहा या इस्पात पिघलान रद्दी ;
- (ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट सामग्री तथा नए अप्रयुक्त इस्पात पिघलान रद्दी का समिश्रण, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है ; और
- (iii) किसी कच्चे रूप में लोहा, जो उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आता है और जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है, उपर्युक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट सामग्री के समिश्रण सहित ।

[सं० 148 77]

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts steel ingots, falling under Item No. 26 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944), and required for use for the manufacture of steel castings, falling under Item No. 26AA of the said Schedule from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of two hundred rupees per metric tonne,

Provided that the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed:

Provided further that where such ingots are manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely—

- (i) old iron or steel melting scrap;
- (ii) a combination of the material referred to at (i) with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid; and



- (iii) iron in any crude form falling under Item No 25 of the said First Schedule on which the appropriate duty of excise has been paid, in commutation with the materials referred to at (i) and (ii), the duty leviable under this notification shall be reduced by one hundred and fifty rupees per metric tonne

[No. 149/77]

सां. कां. नि० 341(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत सम्मिलित इस्पात के सिल्लियों को जो उक्त अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत सम्मिलित है इस्पात के सांघों के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए अपेक्षित हो, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो दो सौ रुपये प्रति मीटरी टन से अधिक हो

परन्तु यह तब जब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है

परन्तु यह और कि वहा, जहा ऐसे उत्पादों का विनिर्माण-वैद्युत भट्टी की सहायता से निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से किया जाता है, इस अधिसूचना के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क एक सौ पच्चात्तर रुपये प्रति मीटरी टन की दर से कम कर दिया जाएगा, अर्थात् :—

- (i) पुराना लोहा या इस्पात पिघलन रद्दी ;
- (ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट सामग्री तथा नए अप्रयुक्त इस्पात पिघलन रद्दी का सम्मिश्रण जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है ; और
- (iii) किसी कच्चे रूप में लोहा जो उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आता है जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है, उपर्युक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट सामग्री के सम्मिश्रण सहित ।

[सं० 149/77]

G.S.R. 342(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule- (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fresh unused steel melting scrap of the types commonly known as,—

- (i) skull scraps,
- (ii) broken ingot moulds,
- (iii) butts and shorts,
- (iv) mould-splashes which arise in steel melting shops, and
- (v) turnings and borings,

falling under Item No 26 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

Provided that—

- (a) such fresh unused steel melting scrap is cleared direct from an integrated steel plant and it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that such scrap is intended to be used as meltings scrap in the manufacture of steel ingots or semi-finished steel, as the case may be, by a manufacturer manufacturing such ingots or semifinished steel with the aid of electric furnace, and
- (b) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[No. 150/77]

सा० का० नि० 342(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित के रूप में समान्यतया ज्ञात प्रकार के नए अप्रयुक्त पिघले स्क्रैप इस्पात (स्टील मेल्टिंग स्क्रैप) को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत सम्मिलित है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, अर्थात् —

- (i) स्कल स्क्रैप,
- (ii) ब्रोकन इनगाट मोल्ड,
- (iii) बट्ट तथा शार्ट,
- (iv) मोल्ड स्पेलिशिंग जोकि इस्पात पिघलाने वाली क्रमशालाओं में प्राप्त होते हों, और
- (v) टर्निंग तथा बोरिंग

परन्तु यह कि,—

(क) ऐसे नए अप्रयुक्त पिघले स्क्रैप इस्पात (स्टील मेल्टिंग स्क्रैप) की निकासी किसी एकीकृत इस्पात संयंत्र से सीधे ही की जाती है और सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की रैंक से अन्यत्र रैंक के अधिकारी के समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया जाता है कि ऐसा स्क्रैप ऐसी सिल्लियों या अर्ध-परिरूपित इस्पात बैच्युत बट्टी की सहायता से विनिर्माण करने वाले किसी विनिर्माता द्वारा इस्पात सिल्लियों (इनगाट) या अर्ध-परिरूपित इस्पात के विनिर्माण में पिघला स्क्रैप (मेल्टिंग स्क्रैप) के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है, और

(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

[सं० 150/77]

**G S.R. 343(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electrolytic copper wire bars falling under Item No. 26A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) when used for the manufacture of the articles specified in the Schedule annexed hereto from the whole of the excise duty leviable thereon.

Provided that the manufacturer of the articles specified in the Schedule annexed hereto shall follow the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, and

Provided further that where the electrolytic copper wire bars are converted into wires and strips before being used in the manufacture of articles mentioned in the Schedule, the manufacturer of electrolytic copper wire bars or of wires or strips, as the case may be, binds himself by the execution of a bond in such form and such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Central Excise, to pay on demand in respect of such quantity of electrolytic copper wire bars as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise to have been used for the manufacture of articles mentioned in the Schedule, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of manufacture.

#### THE SCHEDULE

- (a) Electric motors of 5 K.W and above,
- (b) Generators of 100 V and above; and
- (c) Transformers of rating of 150 KVA and above.

[No 151/77]

सा० का० नि० 343. (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत सम्मिलित इलेक्ट्रोलिटिक ताबा तार की शलाकाओं को, जब उनका प्रयोग इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

परन्तु इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में विर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि जहां इलेक्ट्रोलिटिक ताबा तार की शलाकाओं को, अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण में उनका प्रयोग करने के पहले, तारों और पट्टियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, वहां यथास्थिति, इलेक्ट्रोलिटिक ताबा तार की शलाकाओं अथवा तारों कि पट्टियों का विनिर्माता ऐसे बन्धपत्र का निष्पादन करके, जिसका प्ररूप और जिसका रकम, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर द्वारा विहित किया जाये, स्वयं को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करेगा की वह इलेक्ट्रोलिटिक ताबा तार शलाकाओं की ऐसी मात्रा के सम्बन्ध में, जिसकी बाबत सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं किया जाता कि उनका प्रयोग अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण के लिए किया गया है, मांग की जाने पर, ऐसी मात्रा पर, उस दशा में उद्ग्रहणीय शुल्क जो कि इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उद्ग्रहणीय होता, तथा विनिर्माण के समय से पहले ही सदातः किए गए शुल्क की रकम के बीच के अन्तर के सम-तुल्य रकम का सदाय करेगा ।

### अनुसूची

- (क) 5 कि० वा० और उससे अधिक की मोटरे,
- (ख) 100 वाट और उससे अधिक की जेनरेटर, और
- (ग) 150 व० वि० ए० तथा अधिक की रेटिंग के ट्रांसफार्मर ।

[सं० 151/77]

**G.S.R. 344(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts iron or steel products falling under Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, subject to the conditions laid down in the corresponding entries in column (4) thereof.

THE TABLE

S. No.	Description	Rate of duty	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
		Ruppes per met- ric tonne	
1.	All forms of semi-finished steel falling under sub-item (1) of Item 26AA.	330.00	

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	All products falling under sub-item (1a) of Item 26AA (other than rails and sleeper bars specified in serial No.3).	330.00	..
3.	Rails and sleeper bars.	175.00	If it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that the rails or sleeper bars, as the case may be, are actually used for railway track, and the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, has been followed.
4.	Steel castings.	200.00	..

Provided that where the products mentioned in the Table are made from steel ingots, falling under Item No. 26 of the aforesaid Schedule, which have been cleared from the factory, prior to the 18th day of June, 1977, on payment of duty at the appropriate rate, the duty specified in the corresponding entries in column (3) of the Table shall be reduced by two hundred rupees per metric tonne:

Provided further that where the products mentioned in the Table are made from semi-finished steel on which duty at the appropriate rate has already been paid, or from steel ingots falling under Item No. 26 of the aforesaid Schedule which are cleared from the factory on or after the 18th day of June, 1977 on payment of duty, the duty specified in the corresponding entries in column (3) of the Table shall be reduced by three hundred and thirty rupees per metric tonne

Provided also that where the duty paid on steel ingots or semi-finished steel, as the case may be, used in the manufacture of any quantity of the products mentioned in the Table is in excess of the duty leviable on such products the amount eligible for adjustment towards the exemption shall be restricted to the amount of duty leviable on the quantity of the said product.

Provided also that in the case of the products mentioned in the Table and manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely:—

- (i) old iron or steel melting scrap;
- (ii) a combination of the material referred at (i) with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid; and
- (iii) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (i) and (ii),

the duty specified against the corresponding entries in column (3) of the Table shall be reduced by one hundred and fifty rupees per metric tonne.

[No 152/77]

सा० का० नि० 344(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26कक के अन्तर्गत सम्मिलित लोहा और इस्पात के उत्पादों को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिकथित शर्तों के अधीन रहने हुए, छूट देती है।

## सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
रु० प्रति मीटरी टन			
1.	सभी प्रकार के तैयारबत इस्पात जो मद 26कक की उपमद (1) के अन्तर्गत आते हैं।	330.00	—
2.	मद 26कक की उप मद (1क) के अन्तर्गत सम्मिलित सभी उत्पाद (क्रम सं० 3 में विनिर्दिष्ट रेल और स्लिपर शलाकाओं में भिन्न)।	330.00	—
3.	रेल और स्लिपर शलाका	175.00	यदि सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर से अन्यून रैंक के अधिकारी के समाधान प्रद रूप में यह साबित हो जाए कि रेल या स्लिपर शलाका रेल मार्ग में वास्तविक रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
4.	इस्पात ढलाई	200.00	—

परन्तु जहां सारणी में उल्लिखित उत्पाद उपरोक्त अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत सम्मिलित ऐसे इस्पात उत्पादों से बनाए जाते हैं जिनकी कारखाने से निकासी 18 जून, 1977 के पूर्व शुल्क का समुचित दर पर मदाय करके की गई है वहां सारणी के स्तम्भ (3) को तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क दो सौ रुपए प्रति मीटरी टन की दर में कम कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि जहां सारणी में उल्लिखित उत्पाद ऐसे अर्द्ध-तैयार इस्पात से बनाए गए हैं जिन पर शुल्क समुचित दर से पहले हो मधत्त किया जा चुका है, अथवा उपरोक्त अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत सम्मिलित ऐसे उत्पादों से बनाए गए हैं जिनकी किसी कारखाने में निकासी 18 जून, 1977 के पश्चात् की जाती है वहां सारणी के स्तम्भ (3)

की तत्स्थानी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट शुल्क तीन सौ तीस रुपए प्रति मीटरी टन की दर में कम कर दिया जाएगा ।

परन्तु यह और भी कि जहाँ ऐसे इस्पात उत्पादों या अर्द्ध-तैयार इस्पात पर सदातः शुल्क जिसका उपयोग सारणी में उल्लिखित उत्पादों की किसी मात्रा के लिए किया गया है, ऐसे उत्पादों पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है, बहा छूट मध्ये समायोजन की रकम उत्पादों की पर उद्ग्रहणीय शुल्क की रकम तक सीमित होगी

परन्तु यह भी कि सारणी में उल्लिखित ऐसे उत्पादों की दशा में, जो निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से बँधुत भट्टी की सहायता से निर्मित किए गए हों, सारणी के स्तम्भ (3) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के सामने निर्दिष्ट शुल्क एक सौ पचास रुपए प्रति मीटरी टन की दर में कम कर दिया जाएगा, अर्थात् —

- (i) पुराना लोहा या इस्पात पिघलन रद्दी;
- (ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट सामग्री तथा नये अप्रयुक्त इस्पात पिघलन रद्दी का सम्मिश्रण जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है; और
- (iii) किसी कच्चे रूप में लोहा, जो उक्त प्रथम अनुसूची की मद स० 25 के अन्तर्गत आता है और जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है, उपर्युक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट सामग्री के सम्मिश्रण सहित ।

[स० 152 77]

**G.S.R. 345(B)** —In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts iron or steel products, falling under Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
		Rupees per met- ric tonne
1.	All products falling under sub-item (ii) of item No. 26AA, except uncoated plates, galvanised forms and galvanised plates and sheets, all sorts including plain and corrugated—	
(a)	Cold rolled sheets . . . . .	650.00
(b)	Others . . . . .	450.00
2.	Uncoated plates . . . . .	350.00
3.	Galvanised plates and sheets, all sorts, including plain and corrugated . . . . .	850.00
4.	Flats—	
(a)	not exceeding 5 millimetres in thickness . . . . .	450.00
(b)	exceeding 5 millimetres, but not exceeding 10 millimetres, in thickness . . . . .	350.00
(c)	exceeding 10 millimetres in thickness . . . . .	330.00

(1)	(2)	(3)
5.	Skelp . . . . .	552.50
6	Strips—	
	(i) Galvanised strips . . . . .	850 00
	(ii) Other than galvanised strips—	
	(a) strips of iron and steel not below 5 millimetres, but not exceeding 10 millimetres, in thickness and of not less than 600 millimetres in width . . . . .	350.00
	(b) Other cold rolled strips . . . . .	650 00
	(c) Other hot rolled strips . . . . .	450 00
7.	Seamless pips and tubes . . . . .	350.00

Provided that where the products mentioned in the Table are made from steel ingots, falling under Item No. 25 of the aforesaid Schedule, which have been cleared from the factory, prior to the 18th day of June, 1977, on payment of duty at the appropriate rate, the duty specified in the corresponding entries in column (3) of the Table shall be reduced by two hundred rupees per metric tonne :

Provided further that where the products mentioned in the aforesaid Table are made from semi-finished steel on which duty at the appropriate rate has already been paid, or from steel ingots falling under Item No. 26 of the aforesaid Schedule which are cleared from the factory on or after the 18th day of June, 1977, on payment of duty, the duty specified in the corresponding entries in column (3) of the Table shall be reduced by three hundred and thirty rupees per metric tonne:

Provided also that where the duty paid on steel ingots or semi-finished steel as the case may be used in the manufacture of any quantity of the products mentioned in the Table is in excess of the duty leviable on such products, the amount eligible for adjustment towards the exemption shall be restricted to the amount of duty leviable on the quantity of the said products.

Provided also that in the case of the products mentioned in the Table manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely—

- (i) old iron or steel melting scrap;
- (ii) a combination of the material referred to at (i) with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid; and
- (iii) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (i) and (ii),

the duty specified against the corresponding entries in column (3) of the Table shall be reduced by one hundred and fifty rupees per metric tonne.

[No. 153/77]

सा० का० नि० 345 (प्र).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम

- (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26कक के अन्तर्गत सम्मिलित लोहे या इस्पात के उत्पादों को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
		रुपए प्रति मीटरी टन
1.	मद सं० 26कक की उपमद (ii) के अन्तर्गत आने वाले सभी उत्पाद, सिवाय सभी प्रकार की अलेपित प्लेटों, गालविनिकृत फार्मों और गालविनिकृत प्लेटों और चादरों के और जिन उत्पादों के अन्तर्गत है—सादी और नालीदार—	
	(क) शीतयेसित चादरें . . . . .	650.00
	(ख) अन्य . . . . .	450.00
2.	अलेपित प्लेटें . . . . .	350.00
3.	गालविनिकृत प्लेटें और चादरें, सभी प्रकार की, सादी और नालीदार को सम्मिलित करते हुए . . . . .	850.00
4.	प्लेट—	
	(क) मोटाई में 5 मिलीमीटर से अनधिक . . . . .	450.00
	(ख) मोटाई में 5 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 10 मिलीमीटर से अनधिक . . . . .	350.00
	(ग) मोटाई में 10 मिलीमीटर से अधिक . . . . .	330.00
5.	स्कैल्प . . . . .	552.50
6.	पट्टियां (स्ट्रिप्स)	
	(i) गालविनिकृत स्ट्रिप्स (पट्टियां) . . . . .	850.00
	(ii) गालविनिकृत पट्टियों से भिन्न पट्टियां—	
	(क) मोटाई में 5 मिलीमीटर से अन्यून किन्तु 10 मिलीमीटर से अनधिक और चौड़ाई में कम से कम 600 मिलीमीटर वाली लोहे और इस्पात की पट्टियां . . . . .	350.00
	(ख) अन्य शीत बैलित पट्टियां . . . . .	650.00
	(ग) अन्य तप्त बैलित पट्टियां . . . . .	450.00
7.	सीबनहीन पाइप और ट्यूब . . . . .	350.00



परन्तु जहाँ सारणी में उल्लिखित उत्पाद उपरोक्त अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत सम्मिलित ऐसे इस्पात उत्पादों से बनाए जाते हैं जिनकी कारखाने से निकासी 18 जून, 1977 के पूर्व शुल्क का समुचित दर पर सदाय करके की गई है वहाँ सारणी के स्तम्भ (3) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क दो सौ रुपये प्रति मीटरी टन की दर से कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहाँ सारणी में उल्लिखित उत्पाद ऐसे अर्ध-नैयार्ग इस्पात में बनाए गए हैं जिन पर शुल्क समुचित दर से पहले ही सदत्त किया जा चुका है, अथवा उपरोक्त अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत सम्मिलित ऐसे उत्पादों से बनाए गए हैं जिनकी किसी कारखाने से निकासी 18 जून, 1977 के पश्चात् की जाती है वहाँ सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क तीन सौ तीस रुपये प्रति मीटरी टन की दर से कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि जहाँ ऐसे इस्पात उत्पादों या अर्ध-तयार्ग इस्पात पर सदत्त शुल्क, जिसका उपयोग सारणी में उल्लिखित उत्पादों की किसी मात्रा के लिए किया गया है, ऐसे उत्पादों पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है, वहाँ छूट मध्ये समायोजन की रकम उत्पादों की मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क की रकम तक सीमित होगी :

परन्तु यह भी कि सारणी में उल्लिखित ऐसे उत्पादों की दशा में, जो निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से श्रुत भट्टी को सहायता से विनिर्मित किए गए हों, सारणी के स्तम्भ (3) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के सामने विनिर्दिष्ट शुल्क एक सौ पचास रुपये प्रति मीटरी टन की दर से कम कर दिया जाएगा, अर्थात् —

- (i) पुराना लोहा या इस्पात पिघलन रही,
- (ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट सामग्री तथा नए अप्रयुक्त इस्पात पिघलन रही का सम्मिश्रण जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है; और
- (iii) किसी कच्चे रूप में लोहा, जो उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आता है और जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क दे दिया गया है, उपर्युक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट सामग्री के सम्मिश्रण सहित ।

[सं० 153 77]

**G.S.R. 346(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fresh unused rerollable scrap, falling under Item No 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of three hundred and thirty rupees per metric tonne.

[No. 154/77]

**सां० का० नि० 346 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नभक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26क के अन्तर्गत सम्मिलित अप्रयुक्त पुनः रोल किए जाने योग्य स्त्रैप को, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना तीन सौ तीस रुपये प्रति मीटरी टन में अधिक हो ।

[सं० 154 77]

**G.S.R. 347(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, electric storage batteries, falling under sub-item (2) of Item No 31 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon

Provided that—

- (a) it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that the aforesaid storage batteries are intended to be used as original equipment parts by the manufacturers of the following types of motor vehicles, namely.—
  - (i) two-wheeled vehicles,
  - (ii) three-wheeled vehicles;
  - (iii) saloon cars,
 falling under sub-item I(1) or sub-item I(2), as the case may be, of Item No. 34 of the aforesaid Schedule; and
- (b) in relation to any concession in respect of such storage batteries, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed

[No 155/77]

**सा० का० नि० 347(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 31 की उपमद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित वैद्युत स्टोरेज बैट्रियों को उन पर उदोग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब —

- (क) सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से अन्यून रैंक के अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाय कि उपरोक्त स्टोरेज बैट्रिया निम्नलिखित प्रकार के मोटरयानों के विनिर्माताओं द्वारा मूल उपस्कर के रूप में प्रयोग में लाई जाने के लिए आशयित हैं —

- (i) दो पहिये वाले यान ;
- (ii) तीन पहिये वाले यान ;
- (iii) सैलून कार,

जो कि उपर्युक्त अनुसूची की मद सं 34 की, यथास्थिति, उपमद 1(1) या उपमद 1(2) के अन्तर्गत सम्मिलित हैं ; और

- (ख) ऐसी स्टोरेज बैट्रियों के लिए किसी रियायत के सम्बन्ध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ।

[स० 155/77]

**G.S.R. 348(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 89/72- Central Excises dated the 17th March, 1972, the Central Government hereby exempts electric fans, all sorts, of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-item specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 33 of the First Schedule to the Central Excise, and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

THE TABLE

Sl No.	Sub-Item	Description	Duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(1)	Table, cabin, carriage, pedestal and air circulator fans, of a diameter not exceeding 40.6 centimeters and regulators therefor.	Ten per cent. <i>ad valorem</i>
2.	(2)	Those designed for use in an industrial system as parts indispensable for its operation and have been given for that purpose some special shape or quality which would not be essential for their use for any other purposes and regulators therefor.	Twelve per cent. <i>ad valorem</i>
3.	(3)	Electric fans, not otherwise specified and regulators therefor.	Fifteen per cent. <i>ad valorem</i>

[No. 156/77]

सा० का० नि० 348 (अ) —केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) को अधिसूचना स० 89 72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद स० 33 की उन उपमदों के, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत सम्मिलित सभी किस्म के विद्युत पंखों को, जो उस सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के हैं, उन पर उद्योगीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जिसना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

## सारणी

क्रम स०	उप-मद स०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(1)	टेबल, कैबिन, केरेज, पैडस्टल और वायु-प्रचालक पंखे, जिनका व्यास 40.6 सेटीमीटर से अधिक न हो और उनके रेग्युलेटर	दस प्रतिशत मूल्यानुसार
2.	(2)	वे पंखे जो किसी औद्योगिक व्यवस्था में उन पुर्जों के रूप में प्रयोग में लाए जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो उसके कार्यकरण के लिए अपरिहार्य हैं और जिन्हें उस प्रयोजन के लिए कोई ऐसा विशेष रूप दिया गया है या जो ऐसी क्वालिटी के हैं जो किसी अन्य प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग करने के निमित्त आवश्यक नहीं है तथा ऐसे पंखों के रेग्युलेटर।	बारह प्रतिशत मूल्यानुसार

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	(3)	पन्ने, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं, तथा उनके रेग्युलेटर	पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार

[सं 156/77]

**G.S.R. 349(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts broadcast television receiver sets, falling under sub-item (1) of Item No. 33 A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rates specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S.No	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Sets, of screen size not exceeding thirty-six centimetres and of a value not exceeding one thousand four hundred rupees per set	Five percent. <i>ad valorem.</i>
2.	Sets, of screen size exceeding thirty six centimetres and of a value not exceeding one thousand six hundred rupees per set.	Five percent. <i>ad valorem.</i>

[No. 157/77]

सा० का० नि० 349(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33अ की उपमद (1) के अन्तर्गत सम्मिलित ब्राडकास्ट टेलिविजन रिसीवर सेटों को, जिनका वर्ण इससे उपायद्वार सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरो से उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	सेट जिनकी स्क्रीन का आकार छत्तीस सेंटीमीटर से अधिक न हो और जिनका मूल्य प्रति सेट एक हजार चार सौ रुपए से अधिक न हो	पाँच प्रतिशत मूल्यानुसार
2.	सेट जिनकी स्क्रीन का आकार छत्तीस सेंटीमीटर से अधिक हो और जिनका मूल्य प्रति सेट एक हजार छह सौ रुपए से अधिक न हो	पाँच प्रतिशत मूल्यानुसार

[सं 157/77]

**G S R 350(B)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts radios (including transistor sets), falling under subitem (2) of Item No. 33A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rates specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table

THE TABLE

S. No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Sets of one or two bands	Fifteen per cent. <i>ad valorem</i> .
2.	Sets of three bands and of a value not exceeding two hundred and fifty rupees.	Twenty-five per cent. <i>ad valorem</i> .
3.	Sets of three bands and of a value exceeding two hundred and fifty rupees per set, and sets of four bands.	Thirty per cent. <i>ad valorem</i> .
4.	Sets of five bands or more.	Thirty-five per cent <i>ad valorem</i> .

Provided that the duties specified in column (3) of the Table shall be reduced by fifteen per cent *ad valorem*, (i) if the sets are manufactured in an industrial unit, either on its own behalf or on behalf of a State Electronic Development Corporation, in respect of which an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of capital investment made from time to time on plant and machinery only is not more than rupees ten lakhs, and (ii) the total value of such sets so cleared, if any for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories during the preceding financial year did not exceed rupees one crore.

Provided further that the lower rates of duty as specified in the first proviso, shall apply only to the first clearances for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories upto a value not exceeding rupees fifty lakhs during a financial year subsequent to 1977-78, and upto a value not exceeding rupees forty lakhs during the period commencing on the 18th day of June, 1977, and ending on the 31st day of March, 1978.

**Explanation**—For the purpose of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

[No. 158/77]

सा० का० नि० 350(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33क की उपमद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित रेडियो सेटों को, (जिसके अन्तर्गत ट्रांसिस्टर सेट भी हैं) और जिनका वर्णन इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है।

## सारणी

क्रम संख्या	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	एक या दो बैण्ड के सेट	पंद्रह प्रतिशत मूल्यानुसार
2.	तीन बैण्ड के सेट जिनका मूल्य दो मी पचास रुपए से अधिक न हो	पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार
3.	तीन बैण्ड के सेट जिनका मूल्य दो मी पचास रुपए से अधिक हो और चार बैण्ड के सेट	तीस प्रतिशत मूल्यानुसार
4.	पाँच बैण्ड या अधिक बैण्ड के सेट	पैंतीस प्रतिशत मूल्यानुसार

परन्तु सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट शुल्क पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार की दर पर कम कर दिया जाएगा यदि (i) सेटों का विनिर्माण किसी औद्योगिक एकक में, चाहे उसकी अपनी ओर से अथवा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम की ओर से, किया जाता है और उस एकक की बाबत सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से अन्यून रैंक के अधिकारी का यह समाधान हो जाता है केवल संयंत्र और मशीनों पर समय-समय पर पूँजी विनिधान का कुल मूल्य दस लाख रुपए से अधिक नहीं है तथा (ii) विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक या अधिक कारखानों में से गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए ऐसे सेटों का कुल मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं था।

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट शुल्क की न्यूनतर दरे ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में से गृह उपभोग के लिए, 1977-78 वित्तीय वर्ष के पश्चात्पूर्व किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पचास लाख रुपए से अनधिक मूल्य तक की प्रथम निकासी पर ही लागू होगी तथा 18 जून, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान चालीस लाख रुपए से अनधिक के मूल्य तक ही लागू होंगी।

**स्पष्टीकरण.**—किसी पूँजी विनिधान का मूल्य अवधारण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विनिधान का वह अंकित मूल्य गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था।

[सं० 158/77]

**G.S.R. 351(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts combinations of broadcast television receiver sets and radios (including transistor sets), falling under Item No. 33A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of twenty-five per cent *ad valorem*.

[No 159/77]

**सां० का० नि० 351(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33क के अन्तर्गत सम्मिलित ब्राडकास्ट टेलि विजन रिसीवर सेटों और रेडियों (जिसके अन्तर्गत ट्रांसिस्टर सेट भी हैं) के संयोजनों को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[सं० 159/77]

**G S R 352 (E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods, falling under Item Nos 33A and 37 AA of the First Schedule to the Central Excise and salt Act, 1944 (1 of 1944), and of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rates specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Description	Rate of duty
(1)	(2)
Tape recorders (including cassette recorders and tape decks), tape players (including cassette players), and combination sets of any of the aforesaid articles and transistor sets—	
(a) of value not exceeding Rs. 500 each,	Twenty-five per cent. <i>ad valorem</i>
(b) of value exceeding Rs 500 each,	Thirty per cent. <i>ad valorem</i> .

Provided that the duty specified in column (2) of the Table shall be reduced by fifteen per cent *ad valorem*, (i) if the above articles are manufactured in an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of capital investment made from time to time on plant and machinery only is not more than rupees ten lakhs, and (ii) the total value of all the articles described in the Table cleared, if any, for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories during the preceding financial year did not exceed rupees fifty lakhs.

Provided further that the lower rates of duty as specified in the first proviso, shall apply only to the first clearances for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories upto a value not exceeding rupees twenty-five lakhs during a financial year subsequent to 1977-78 and upto a value not exceeding rupees twenty lakhs during the period commencing on the 18th day of June, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978.

**Explanation**—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account

[No 160/77]

सा० का० नि० 352(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33क और 37क के अन्तर्गत सम्मिलित तथा उस वर्णन के सामानों को जो इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उनसे भाग से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरा से अधिक हो।

## सारणी

वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)
टैप रिकार्डर (जिसमें कैसेट रिकार्डर और टैप डैक भी आते हैं), टैप प्लेयर (जिसमें कैसेट प्लेयर भी आते हैं) और उपरोक्त वस्तुओं और ट्रांसिस्टर सेटों के कोई संयोजित सेट —	
(क) जिनका मूल्य पांच सौ रुपए प्रति सेट से अधिक पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार नहीं है	

(ख) जिनका मूल्य पांच सौ रुपए प्रति सेट से अधिक तीस प्रतिशत मूल्यानुसार है

परन्तु सारणी के स्पम्भ (2) में विनिर्दिष्ट शुल्क प्रन्द्दह प्रतिशत मूल्यानुसार कम कर दिया जाएगा यदि—(i) उपरोक्त वस्तुओं का विनिर्माण किसी ऐसे औद्योगिक एकक में किया जाता है जिसकी बाबत सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से अन्यून रैंक के अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि केवल संयंत्र और मशीनों पर समय-समय पूजी विनिधान का कुल मूल्य दस लाख रुपए से अधिक नहीं है, और (ii) विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक या अधिक कारखानों में से गृह उपभोग के लिए निकासी की गई, सारणी में वर्णित, सभी वस्तुओं का कुल मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक नहीं था।

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट शुल्क की न्यूनतर दरे ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में से गृह उपभोग के लिए, 1977-78 वित्तीय वर्ष के पश्चात्पूर्व किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पच्चीस लाख रुपए से अनधिक मूल्य तक की प्रथम निकासी पर ही लागू होंगी तथा 18 जून, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान बीस रुपए के मूल्य तक की निकासी पर लागू होगी।

**स्पष्टीकरण.**—किसी पूजी विनिधान के मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विनिधान का वह अंकित मूल्य गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था।

[सं० 160/77]

**G.S.R. 353(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts any combination of two or more of the following, namely, broadcast television receiver sets, radios (including transistor sets), gramophones (including record players, record playing decks), tape recorders (including cassette recorders and tape decks) and tape or cassette players, falling under sub-item (4) of Item No 33A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise, or the additional duty leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as is equivalent to the duty already paid on broadcast television receiver sets, radios (including transistor sets), gramophones (including record players, record playing decks), tape recorders (including cassette recorders and tape decks) or tape or cassette players, as the case may be, used in the manufacture of assembling of the said combination.

[No 161/77]

**सा० का० नि० 353(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33क के अन्तर्गत सम्मिलित निम्नलिखित अर्थात् ब्राडकास्ट टेलिविजन रिसेवर सेट, रेडियो (जिसके अन्तर्गत ट्रांसिस्टर सेट भी है), ग्रामोफोन (जिसके अन्तर्गत रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड, प्लेयिंग डाक भी है) टेप रिकार्डर (जिसके अन्तर्गत कैसेट रिकार्डर और टेप डाक भी है) तथा टेप या कैसेट प्लेयर में से किन्हीं दो या अधिक के किसी संयोजन को, उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क अथवा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के उतने भाग से, जितना उक्त संयोजन के विनिर्माण या असेम्बली में प्रयुक्त ब्राडकास्ट टेलिविजन रिसेवर सेट, रेडियो (जिसके अन्तर्गत ट्रांसिस्टर सेट भी है), ग्रामोफोन (जिसके अन्तर्गत रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड प्लेयिंग



डाक भी है), टेप रिकार्डर, (जिसके अन्तर्गत कैसेट रिकार्डर और टेप डाक भी है), या टेप या कैसेट ८ पर पर पहले ही मदत किया जा चुका हो, छूट देती है।

[सं 161 77]

**G.S.R. 354 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods, falling under Item No. 33D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rates specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table—

THE TABLE

S. No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Electronic calculating machines (other than slide rule calculating machines) of a value not exceeding one hundred and seventy five rupees each	Five per cent <i>ad valorem</i> .
2.	Electronic slide rule calculating machines of a value not exceeding four hundred and fifty rupees each.	Five per cent <i>ad valorem</i> .

*Explanation*—For purposes of this notification, 'electronic slide rule calculating machines' shall mean such electronic calculating machines which are capable of performing all the following functions, namely—

addition, subtraction, multiplication, division, square root, square, reciprocal, change sign, logarithm, exponents, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, store-recall memory, option of degree of radian modes and constant operations, and at least 8-digit display

[No 162/77]

सांका०नि० 354 (अ) —केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33घ के अन्तर्गत सम्मिलित मालों को, और जो इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरो पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है।

## सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	इलेक्ट्रॉनिकी गणना मशीनें (स्लाइड रूल गणना मशीनों से भिन्न) जिनमें से प्रत्येक का मूल्य एक सौ पचहत्तर रुपए से अधिक न हो	पांच प्रतिशत मूल्यानुसार
2.	इलेक्ट्रॉनिकी स्लाइड गणना मशीनें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य चार सौ पचास रुपए से अधिक न हो।	पांच प्रतिशत मूल्यानुसार

**स्पष्टीकरण**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “इलेक्ट्रॉनिकी स्लाइड रूल गणना मशीनों” से ऐसी इलेक्ट्रॉनिकी गणना मशीनें अभिप्रेत हैं जो निम्नलिखित सभी कृत्य करने में समर्थ हैं, अर्थात् :—

घटाना, गुणा करना, भाग देना, वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना, व्युत्क्रम करना, चिह्न परिवर्तन करना, लघु गणना करना, घातांक निकालना, ट्रिगनोमैट्री कृत्य करना, इनवर्स ट्रिगनोमैट्री कृत्य करना, स्टोर रिकाल मेमोरी, रोडियम मीड डिग्री और नियत संचलन (कास्टेन्ट आपरेशन) की डिग्री का विकल्प, और कम से कम 8 अंकों तक का प्रदर्शन ।

[स० 162/77]

**G.S.R. 355(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods falling under Item No 33F of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of twenty per cent. *ad valorem*, if (i) the articles are manufactured in an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of capital investment made from time to time on plant and machinery only is not more than rupees ten lakhs, and (ii) the total value of such articles so cleared, if any, for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories during the preceding financial year did not exceed rupees one crore

Provided further that the lower rates of duty specified in the first proviso shall apply only to the first clearances, if any for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories upto a value not exceeding rupees fifty lakhs during a financial year subsequent to 1977-78, and upto a value not exceeding rupees forty lakhs during the period commencing on the 18th day of June, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978.

**Explanation**—For the purposes of determining the value of any capital investment only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account

[No 163/77]

**सा०का०नि० 355(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद स० 33च के अन्तर्गत सम्मिलित मालों को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो बीस प्रतिशत मूल्यानुसार में अधिक है, यदि (i) वस्तुओं का विनिर्माण ऐसे औद्योगिक एकक में किया जाता है जिसकी बाबत महायुक्त केंद्रीय व उत्पाद-शुल्क कलक्टर से अन्यून रैंक के अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि केवल सयत्न और मशीनों पर समय-समय पर पूँजी विनिधान का कुल मूल्य दस लाख रुपए में अधिक नहीं है, (ii) विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक या अधिक कारखानों में से गृह उपभोग के लिए निकासी की गई ऐसी वस्तुओं का कुल मूल्य एक करोड़ रुपए में अधिक नहीं था :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट शुल्क की न्यूनतर दरे ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में से गृह उपभोग के लिए 1977-78 वित्तीय वर्ष के पश्चात्-वर्ती किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पचास लाख रुपए में अनधिक मूल्य तक की प्रथम निकासी पर ही लागू होंगी तथा 18 जून, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान आलीम लाख रुपए में अनधिक वें मूल्य पर ही लागू होंगी ।

**स्पष्टीकरण**—किसी पूँजी विनिधान का मूल्य अवधारण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विनिधान का वह अंकित मूल्य गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था ।

[स० 163/77]

**G.S.R. 356(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts motor vehicles other than saloon cars, falling under sub-item I(2)(i) of Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the Fifteen per cent. *ad valorem*.

[No 164/77]

**सांकांनि० 356(अ)** —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद 1(2)(i) के अन्तर्गत सम्मिलित, सैलून कारों से भिन्न, मोटरयानों को, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो ।

[सं० 164/77]

**G.S.R. 357(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts motor vehicles, other than saloon cars, falling under sub-item I(3) of Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of twelve and half per cent. *ad valorem*.

[No 165/77]

**सांकांनि० 357(अ)** —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद 1(3) के अन्तर्गत सम्मिलित, सैलून कारों से भिन्न मोटरयानों को, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना साठे बारह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो ।

[सं० 165/77]

**G.S.R. 358(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cinematograph films, exposed, falling under sub-item II(ii) of Item No. 37 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the excise duty which is leviable on that part of the value of the said cinematograph films, exposed as is attributable to the profits, if any

[No. 166/77]

**सां० कां० नि० 358 (अ)** —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37 की उपमद 2(ii) के अन्तर्गत सम्मिलित सिनेमेटोग्राफ फिल्मों को, जो कि उद्भाषित (एक्सपोज) की जा चुकी हों, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के, जो कि उद्भाषित (एक्सपोज) की जा चुकी हों, मूल्य के प्रत्येक भाग पर, जिसका सम्बन्ध लाभ से है, यदि कोई हो, उद्ग्रहणीय है ।

[सं० 166/77]

**G.S.R. 359(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tape recorders (including cassette recorders) falling under Item No. 37AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise, or the additional duty leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, already paid on tape decks used in the manufacture or assembling of such tape recorders (including cassette recorders).

[No 167/77]

**सा० का० नि० 359(प्र).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37कक के अन्तर्गत सम्मिलित टेप रिकार्डर्स को (जिसमें कैसेट रिकार्डर भी आते हैं), उन पर उद्ग्रहणीय, यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से जो, यथास्थिति, उतने उत्पाद-शुल्क, अथवा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के, उतने भाग के समतुल्य है जो ऐसे टेप रिकार्डर्स (जिसमें कैसेट रिकार्डर भी आते हैं) की असेम्बली के विनिर्माण में प्रयुक्त टेप डेकों पर पहले ही सदत् किया जा चुका है, छूट देती है।

[स० 167/77]

**G.S.R. 360(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Wool Tops, falling under Item No. 43 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rupees five per kilogram.

[No 168/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy

**सा० का० नि० 360(प्र).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 43 के अन्तर्गत सम्मिलित ऊन की पूनियाँ को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना पांच रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक हो।

[स० 168/77]

आर० के० चन्द्र, अधर सचिव।

## CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 361(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts precision balances of a sensitivity of 5 mg or better, falling under Item No. 45 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon

[No. 169/77]

G. K. PILLAI, Under Secy.

**केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क**

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा० का० नि० 361(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद स० 45 के अन्तर्गत सम्मिलित, पाच मिलीग्राम अथवा अधिक की परिशुद्धता वाली यथार्थ मापी तुलाओं को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 169/77]

जी० के० पिल्ले, अव्वर सचिव ।

**CENTRAL EXCISES***New Delhi, the 18th June 1977*

**G.S.R. 362(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts lacquered sheets and varnished sheets, including cuttings of lacquered sheets and varnished sheets, falling under sub-item (2) of Item No 28 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No 170/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy

**केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क**

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा० का० नि० 362 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद स० 28 की उप-मद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित लेकर की हुई चादरो और वार्निश की हुई चादरो को जिसमें लेकर की हुई और वार्निश की हुई चादरो की कतरनें भी सम्मिलित हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 170/77]

आर० के० चन्द्र, अव्वर सचिव ।

**CENTRAL EXCISES***New Delhi, the 18th June 1977*

**G.S.R. 363(E).**—Whereas Item No. 47 relating to slotted angles and channels made of steel is proposed to be omitted from the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), by clause 32 of the Finance (No 2) Bill, 1977;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts,

until the enactment of the said Finance (No. 2) Bill, 1977, slotted angles and channels made of steel, from—

- (a) so much of the duty of excise leviable thereon under Item No 47 of the said First Schedule as is in excess of two per cent *ad valorem*, if the total value of all excisable goods, cleared by, or on behalf of, a manufacturer from one or more factories during the financial year 1976-77 exceeded rupees thirty lakhs,
- (b) the whole of the duty of excise leviable thereon, if cleared by any manufacturer other than the manufacturer referred to in clause (a).

[No 171/77]

### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा० का० नि० 363 (अ).—इस्पात के बने हुए, स्लाटेड एंगलो और चैनलों में सम्बन्धित मव सं० 47 का, वित्त, (सं० 2), विधेयक, 1977 (1977 के खंड 32 द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची से लोप किए जाने की प्रस्थापना की गई है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 के अधिनियमित हो जाने पर्यन्त, इस्पात से बने हुए स्लाटेड एंगलो और चैनलों को—

(क) उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 47 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो दो प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, यदि किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से वितीय वर्ष 1976-77 के दौरान एक या अधिक कारखानों से निकासी किए गए उत्पाद-शुल्क सभी मालों का कुल मूल्य तीस लाख रुपए से अधिक था ,

(ख) उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है यदि उनकी निकासी खंड (क) में विनिर्दिष्ट विनिर्माता से भिन्न विनिर्माता द्वारा की जाती है

[सं० 171, 77]

**G.S.R. 364(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, upto an aggregate value not exceeding rupees one lakh, tools falling under Item No. 51A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on or after the first day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which such tools, under clearance, are manufactured, is not more than rupees ten lakhs:

Provided that during the period commencing on the 18th day of June, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978, the aggregate value of the goods that may be cleared by or on behalf of a manufacturer from one or more factories for home consumption without payment of duty, shall not exceed rupees eighty thousand

*Explanation*—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

[No. 172/77]

सा० का० नि० 364 (अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 51क के अन्तर्गत सम्मिलित, एक लाख रुपए से अनधिक सकल मूल्य तक के, औजारों को, और जिनकी निकासी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से, या अधिक कारखानों से गृह उपभोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् की जाए, उन पर उद्घरण्य समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है, यदि ऐसे अधिकारी का, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की रक से कम का न हो, वह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में, जिसमें ऐसे औजारों का विनिर्माण किया गया है, स्थापित धंस यस्तो और मशीनों पर समय-समय पर किया गया पूँजी विनिधान दस लाख रुपए से अधिक नहीं है :

परन्तु यह तब तक 18 जून, 1977 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से, शुल्क का सदाय किए बिना, गृह उपभोग के लिए निकासी किया गए उक्त औजारों का कुल मूल्य अस्सी हजार रुपए से अधिक नहीं हो।

संशुद्धीकरण—पूँजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयत्नों के लिए ऐसे विनिधान के उक्त समय के अंकित मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया हो

[सं० 172/77]

G.S.R. 365(E) —Whereas Item No 59 relating to electric insulating tapes is proposed to be omitted from the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), by clause 32 of the Finance (No. 2) Bill, 1977

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, until the enactment of the said Finance (No. 2) Bill, 1977, electric insulating tapes, from—

- (a) so much of the duty of excise leviable thereon under Item No. 59 of the said First Schedule as is in excess of two per cent *ad valorem*, if the total value of all excisable goods, cleared by, or on behalf of, a manufacturer from one or more factories during the financial year 1976-77 exceeded rupees thirty lakhs,
- (b) the whole of the duty of excise leviable thereon, if cleared by any manufacturer other than the manufacturer referred to in clause (a).

[No. 173/77]

सा० का० नि० 335 (अ) —वैद्युत इन्सुलेशन टेपों में सम्बन्धित मद सं० 59 का, वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 के खंड 32 द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची से बंधे किए जाने की प्रस्तावना की गई है ;

अतः यव, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 के अधिनियमित हो जाने पर्यन्त, वैद्युत इन्सुलेशन टेपों को—

- (क) उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 59 के अधीन उन पर उद्घरण्य उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देनी है जो दो प्रतिशत मूल्यनुसार से अधिक है, यदि किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान एक

या अधिक कारखानों में निकासी किए गए उत्पाद-शुल्क सभी मालों का कुल मूल्य तीस लाख रुपये से अधिक था,

(ख) उन पर उद्योगीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है यदि उनकी निकासी खंड (क) में विनिर्दिष्ट विनिर्माता से भिन्न विनिर्माता द्वारा की जाती है।

[सं० 173, 77]

**G.S.R. 366(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, upto an aggregate value not exceeding rupees one lakh, electric lighting fittings falling under Item No. 61 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on or after the first day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon, if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which such electric lighting fittings, under clearance, are manufactured, is not more than rupees ten lakhs:

Provided that during the period commencing on the 18th day of June, 1977 and ending on the 31st day of March 1978 the aggregate value of the goods that may be cleared by or on behalf of a manufacturer from one or more factories for home consumption without payment of duty, shall not exceed rupees eighty thousand.

*Explanation.*—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account

[No. 174/77]

**सं० का० नि० 366 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 61 के अन्तर्गत सम्मिलित, एक लाख रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक की, वैद्युत प्रकाश फिटिंगों को, और जिसकी निकासी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखानों से गृह उपभोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल, के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् की जाए, उन पर उद्योगीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है यदि ऐसे अधिकारी का, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की रैंक से कम का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में, जिसमें विकासीगत वैद्युत प्रकाश फिटिंग का विनिर्माण किया गया है, स्थापित मयनों और मशीनों पर समय-समय पर किया गया पूँजी विनिधान दस लाख रुपये से अधिक नहीं है :

परन्तु यह तब जब 18 जून, 1977 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च 1978 को समाप्त होने वाली अवधि दौरान, विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से शुल्क का सदाय किए बिना, गृह उपभोग के लिए निकासी की गई उक्त वैद्युत प्रकाश फिटिंगों का कुल मूल्य अस्सी हजार रुपये से अधिक नहीं हो।

**स्पष्टीकरण.**—पूँजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे विनिधान के उस समय के अंकित मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था।

[सं० 174 77]



**G.S.R. 367(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts daily newspapers falling under Item No 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of one per cent *ad valorem*

*Explanation*—For the purposes of this notification, "daily newspaper" means a newspaper which is ordinarily published daily for at least six days in a week

[No. 175/77]

**सां. कां. निं. 367(अ)**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 68 के अन्तर्गत सम्मिलित दैनिक समाचार पत्रों को उन पर उद्ग्रहणीय उक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जो मूल्यानुसार एक प्रतिशत से अधिक हों

**संक्षेप-व्याख्या**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 'दैनिक समाचारपत्र' से वह समाचारपत्र अभिप्रेत है जो साधारणतया सप्ताह में कम से कम छह दिन तक नित्य प्रकाशित किया जाता है।

[सं. 175/77]

**G.S.R. 368(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods falling under Item No 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption on or after the first day of April in any financial year, by or on behalf of a manufacturer from one or more factories from the whole of the duty of excise leviable thereon, if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the goods, under clearance are manufactured, is not more than rupees ten lakhs

Provided that this exemption shall not be applicable to a manufacturer if the total value of all excisable goods cleared by him or on his behalf in the preceding financial year had exceeded rupees thirty lakhs

Provided further that the exemption contained in this notification shall apply only to the first clearances for home consumption by, or on behalf of, the manufacturer referred to in this notification, from one or more factories, upto a value not exceeding rupees thirty lakhs during a financial year subsequent to 1977-78, and upto a value not exceeding rupees twenty-four lakhs during the period commencing on the 18th day of June, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978

*Explanation*—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account

[No 176/77]

**सां. कां. निं. 368(अ)**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 68 के अन्तर्गत सम्मिलित मालों की जिनकी विनिर्माण किसी विनिर्माण वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात किसी विनिर्दिष्टा द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में से की जाए, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे अधिकारी, का, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की रैंक से कम का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में जिसमें निम्नलिखित मालों का विनिर्माण किया गया है, स्थापित संयंत्रों और मशीनों पर समय-समय पर किए गए पूंजी विनिर्माण के मूल्य की कुल रकम दस लाख रुपए से अधिक नहीं है।

परन्तु यह छूट विनिर्माता को लागू नहीं होगी यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निकासी किए गए कुल उत्पाद-शुल्क माल का कुल मूल्य तीस लाख रुपए से अधिक था ।

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई गत, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से, 1977-78 वर्ष के पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान, एक या अधिक कारखानों से, तीस लाख रुपए से अनधिक मूल्य की और 18 जून, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त अवधि के दौरान तीस लाख रुपए से अनधिक मूल्य की, गृह उपभोग के लिए की गई प्रथम निकासी पर लागू नहीं होगी ।

**स्पष्टीकरण.**—पूजी विनिर्धान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे विनिर्धान के उस समय के अंकित मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिर्धान किया गया था ।

[सं० 176/77]

**G.S.R. 369(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts power tillers falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No 177/77]

**सां० का० नि० 369(अ)**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत सम्मिलित शक्ति चालित टिनरों को, उन पर उद्ग्रहणीय नमस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

[सं० 177/77]

**G.S.R. 370(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts all excisable goods (hereinafter referred to as the "said goods") on which the duty of excise is leviable and in the manufacture of which any goods falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the inputs) have been used, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise already paid on the inputs

Provided that where the duty of excise leviable on the said goods is less than the amount of duty of excise paid on the inputs, the extent of exemption shall be restricted to the duty of excise leviable on the said goods.

[No 178/77]

**सां० का० नि० 370(अ)**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क मालों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त माल" कहा गया है) जिन पर उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है और जिनके विनिर्माण में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत सम्मिलित किसी माल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् अन्तर्गामी माल कहा गया है) प्रयोग किया गया है, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना अन्तर्गामी माल पर पड़ेने सदैव उत्पाद-शुल्क के समतुल्य हो

परन्तु वस्तु जहाँ उक्त माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क अन्तर्गामी माल पर संदत्त उद्ग्रहणीय की रकम से कम है, उसे उक्त माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क तक सीमित होगी।

[सं० 178 77]

**G.S.R. 371(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, all goods falling under Item No 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944), in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No 179/77]

सा० का० नि० 371(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत सम्मिलित उन सभी मालों को जिनमें या जिनके विनिर्माण के सम्बन्ध में कोई भी प्रक्रिया सामान्यतया विद्युत की सहायता से नहीं की जाती, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 179 77]

**G.S.R. 372(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, daily newspapers, falling under Item No 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and cleared for home consumption in any calendar year, from the whole of the duty of excise leviable thereon provided that average circulation of each such daily newspaper in such year does not exceed fifty thousand copies per publishing day

*Explanation I*—In this notification, "average circulation", in relation to a daily newspaper means the average number of copies sold and includes copies distributed free per publishing day, calculated on the basis of the total number of days of publication during the calendar year.

*Explanation II*—During the period commencing on the 18th June, 1977, and ending with the 31st December, 1977, the average circulation shall be determined with reference to the total number of days of publication during the period aforesaid or with reference to the calendar year 1977, whichever is beneficial to the assessee

*Explanation III*—For the purposes of this notification, "daily newspaper" means a newspaper which is ordinarily published daily for at least six days in a week.

2 The benefit referred to in Explanation II to paragraph 1 of this notification shall not be applicable to such copies of a daily newspaper in respect of which the amount of excise duty has already been collected from the person to whom such daily newspaper has been sold

[No 180/77]

G K PILLAI, Under Secy.

सा० का० नि० 372(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत सम्मिलित दैनिक समाचारपत्रों को, जिनकी निकासी किसी कलैण्डर वर्ष में गृह उपभोग के लिए की जाए, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है; परन्तु

यह तब जब ऐसे समाचारपत्र का एसे वर्ष में औसत परिचालन प्रत्येक प्रकाशन दिन में पचास हजार प्रतियों से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण 1.**—इस अधिसूचना में, समाचारपत्र के सम्बन्ध में “औसत परिचालन” से, बेची गई प्रतियों की औसत संख्या, जिसकी गणना उस कलैण्डर वर्ष के दौरान प्रकाशन के दिनों की कुल संख्या के आधार पर की गई हो, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रति प्रकाशन दिन पर मुफ्त वितरित की गई प्रतिया भी है।

**स्पष्टीकरण 2.**—18 जून, 1977 को प्रारम्भ और 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान औसत परिचालन पूर्वोक्त अवधि के दौरान प्रकाशन के दिनों की कुल संख्या के प्रति निर्देश स या कलैण्डर वर्ष 1977 के प्रति निर्देश से, जो भी निर्धारित के लिए लाभप्रद हो, अवधारित किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण 3.**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “दैनिक समाचारपत्र” से वह समाचारपत्र अभिप्रेत है जो सामान्यतया सप्ताह में कम से कम छह दिन तक नित्य प्रकाशित किया जाता है।

2. इस अधिसूचना के पैरा 1 के स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट लाभ दैनिक समाचारपत्र की ऐसी प्रतियों को लागू नहीं होगा जिनकी बाबत उत्पाद-शुल्क की रकम उस व्यक्ति से पहले ही संगृहीत कर ली गई हो जिसे वह समाचारपत्र बेचा गया है।

[सं० 180/77]

जी० के० पिल्ले, अवसर सचिव।

#### CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 18th June 1977*

**G.S.R. 373(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No 55/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, namely—

To the Schedule to the said notification, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that food products and food preparations specified in this Schedule shall not include boiled sweets, toffees, caramels, candies, nuts (including almonds) and fruit kernels coated with sweetening agent”

[No. 181/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

#### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

**सा०का०नि० 373(अ)** —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और

बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 55 75 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख, 1 मार्च, 1975 में निम्न-लिखित और सशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित परन्तु जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट खाद्य उत्पाद और खाद्य पदार्थों में उबली मिठुआईयाँ, टाफिया, कारमेल, कण्डी, नट (जिसमें बादाम भी आते हैं) और फलों की गिरियाँ जिनपर मोठा करने वाले पदार्थों का लेप हो, नहीं आती।”

[सं० 181, 77]

आर० के० चन्द्र, अवर सचिव ।

#### CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 18th June 1977*

**G.S.R. 374(E).**—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely:—

In the Table annexed to the said notification in column (2) against serial No 1, the following entries shall be added at the end, namely—

“Acetylene gas (whether in dissolved condition or not).

Musical systems, commercially known as stereo or hi-fi systems, namely,—

- (1) stereo or hi-fi amplifiers,
- (2) speakers and speaker systems housed in acoustically designed enclosures which are ordinarily used as attachments with stereo or hi-fi systems, or with radios (including transistor sets), tuners, radiograms, gramophones (including record players) and tape recorders or players (including cassette recorders or players) having in-built stereo devices

Polishes and creams for footwear, furniture, floors, leather, metals, motor vehicles and glass; scouring powders and pastes

Machinery and appliances for determination of weight including parts of weigh-bridges

Watches, clocks and time-pieces, primarily designed to show the time of day.

Tools, the following, namely:—

- (i) Hand tools, the following pliers (including cutting pliers), spanners, wrenches, files and rasps, screw drivers (including ratchet types),
- (ii) Tools for working in the hand, pneumatic or with self-contained non-electric or electric motors;
- (iii) Tools designed to be fitted into hand tools, machine tools or tools falling under sub-item (ii), including dies for wire drawing, extrusion dies for metals and rock drilling bits;
- (iv) Industrial knives and blades for hand or machine saws

Electric lighting fittings, namely switches, plugs and sockets, all kinds; Chokes and starters for fluorescent tubes”

[No. 182/77]

G K. PILLAI, Under Secy.

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सांका०नि० 374(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/62, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962 में निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (2) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्त में जोड़ी जाएंगी अर्थात् —

“एन्टिलीन गैस, (चाहे वह विलीन दशा में हो अथवा नहीं)

सगीत सम्बन्धी प्रणालियाँ, जो वाणिज्यिक तौर पर स्टीरियो या हाइ-फाई प्रणाली के रूप में ज्ञात हैं, अर्थात् —

- (1) स्टीरियो अथवा हाइफाई एम्प्लीफायर,
- (2) ध्वनिक रूप से तैयार किए गए अद्विष्टको (एनक्लोरो) में बन्द स्पीकर और स्पीकर प्रणालियाँ जो सामान्य तौर से स्टीरियो या हाइ-फाई प्रणाली के, अथवा रेडियो (जिसमें ट्रांसिस्टर सेट भी आता है) ट्यूनर, रेडियोग्राम, ग्रामोफोन (जिसमें रिकार्ड प्लेयर भी आता है) और टेप रिकार्डर या प्लेयर (जिसमें कैसेट रिकार्डर या प्लेयर भी आते हैं) जिनमें स्टीरियो प्रणाली लगी हो, के सलगनी के रूप में प्रयोग में आते हैं।

जूतो, फर्निचर, फर्श, चमड़े, धातुओं, मोटर यानों और शीशों के लिए पालिश और त्रिम।

बज्ज का अवधारण करने के लिए मशीन और मयल जिनमें दे-बिज के पुर्जे भी आते हैं।

घड़ियाँ, दीवाल घड़ियाँ, और टाइम पीस घड़ियाँ जो मूलतया समय बताने के लिए बनाई गई हों।  
औजार, अर्थात् निम्नलिखित —

- (i) हाथ औजार, अर्थात् निम्नलिखित ग्लायर, (जिसमें कटिंग ग्लायर भी आते हैं), स्पेनर, रिचें, फाइल और रैस्प; एक ड्राइवर (जिसमें रेचेंट टाइट भी आते हैं);
- (ii) हाथ-काम के औजार, वातीय अथवा स्वतः पूर्ण गैर वैद्युत या वैद्युत मीटरों से युक्त,
- (iii) हाथ औजारों, मशीनी औजारों या उपमद (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित औजारों में फिटिंग करने के लिए तैयार किए गए औजार, जिनमें तार खींचने के लिए डाइया, धातुओं के लिए बहिरर्वेधी डाइया और चूटानों को डिल करने के लिए बरमी भी आती है,
- (iv) हाथ आरों और मशीनी आरों के लिए औद्योगिक चाकू और ब्लेड।

वैद्युत प्रकाश फिटिंगें, अर्थात् विच, ग्लोब और साकेट, समी किरमो के, फ्लोरोसेंट ट्यूबों के लिए चोंक और स्टार्टर।”

[सं० 182/77]

जी० के० पिल्ले, अवसर सचिव।

## CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 375(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking, No 198/76-Central Excises, dated the 16th June, 1976, namely —

(1) In the said notification, in paragraph 4 for clause (c) and the proviso thereto the following clause shall be substituted, namely —

“(c) to any manufacturer who, in respect of any variety of paper specified in S Nos 44 and 45 of the Table hereto annexed, avails of the concession admissible under the notifications of the Government of India, Department of Revenue and Banking, Nos 128/77-Central Excises and 129/77-Central Excises, both dated the 18th June, 1977”

(2) In the Table annexed to the said notification—

(a) against S No 28, in column (2), for the figures and brackets, “30(1), (2) and (3)”, the words, figures and letters “sub-items A and B of Item No 30” shall be substituted,

(b) against S No 33, in column (2), for the figures and brackets “34(1)”, the words, figures and brackets “sub-item I(1) of Item No 34” shall be substituted,

(c) against S No 34 in column (2), for the figures, brackets and letters “34(3a)”, the words and figures “sub-item II of Item No 34” shall be substituted,

(d) against S No 35

(A) in column (2), for the figures and brackets “34(4)”, the words figures and brackets “sub-item I(3) of Item No 34” shall be substituted,

(B) in column (3) for the words “Motor vehicles, not otherwise specified”, the words “Motor vehicles of engine capacity exceeding 2500 cubic centimetres” shall be substituted,

(e) against S No 39 in column (3) for the words “cutting tools” the words “Files and rasps, hacksaw blades, twist drills, reamers and milling cutters” shall be substituted,

(f) against each of the S Nos 46, 47, 48, 49 and 50, in column (2) for the figures and brackets “18(1)”, the words, figures and brackets “sub-Item I of Item No 18” shall be substituted,

(g) against each of the S Nos 51 and 52, in column (2), for the figures and brackets “18(1)”, the words figures and brackets “sub-item II of Item No 18” shall be substituted,

(h) against S No 51 in column (3), for the words “Rayon and synthetic yarn”, the words “Man made filament yarn” shall be substituted

(3) To the Table annexed to the said notification, the following proviso shall be added, namely —

“Provided that where the engine capacity was not shown in the accounts maintained under the Central Excise Rules, 1944 the same may be determined, for the purposes of this notification, by the Collector of Central Excise, on the basis of other evidence as to the engine capacity of the concerned motor vehicles”

[No 183/77]

LAJJA RAM, Dy Secy.

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सांका०नि० 375(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम, 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है कि भारत सरकार के राजस्व

और प्रेकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 128 76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 जून, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् —

(1) उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में, खंड (ग) और उसके परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड, रखा जाएगा, अर्थात् —

“(ग) ऐसे विनिर्माता को जो इस से उपावद्ध सारणी की क्रम सं० 44 और 45 में विनिर्दिष्ट कागज की किसी क्रम की वाहन ऐसी छूट का लाभ उठाना है जो भारत सरकार के राजस्व और प्रेकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 128 77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 और अधिसूचना सं० 129/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 के अधीन अनुज्ञेय है।”

(2) उक्त अधिसूचना में उपावद्ध सारणी में, —

(क) क्रम सं० 28 के सामने, स्तम्भ (2) में, “30 (1), (2) और (3)” शब्दों, शब्द और कोष्ठकों के स्थान पर, “मद सं० 30 की उपमद क और ख” शब्द, अक्षर और अक्षर रखे जाएंगे,

(ख) क्रम सं० 33 के सामने, स्तम्भ (2) में, “34 (1)” शब्द और कोष्ठकों के स्थान पर, “मद सं० 34 की उपमद 1 (1)” शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) क्रम सं० 34 के सामने, स्तम्भ (2) में, “34 (3)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर मद सं० 34 की उपमद 2” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) क्रम सं० 35 के सामने —

(क) स्तम्भ (2) “34 (4) में, “अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर” मद सं० 34 की उपमद 1 (3)” शब्द और अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) स्तम्भ (3) में “मोटरगायन, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे मोटरगायन जिनके इंजिन की क्षमता 2500 क्यूबिक सेंटीमीटर से अधिक है” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे,

(ग) क्रम सं० 29 के सामने, स्तम्भ (3) में, “काटने वाले शोजार” शब्दों के स्थान पर, “फाइल, और रेस्प, हैबमो ब्लेड, टिक्ट ड्रिल, रोपर, और मिलिंग कटर” शब्द रखे जाएंगे;

(घ) क्रम सं० 46, 47, 48, 49, और 50 के सामने, स्तम्भ (2) में, “18 (1)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “मद सं० 18 की उपमद 1” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) क्रम सं० 51 और 52 के सामने, स्तम्भ (2) में, “18 (i)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “मद सं० 18 की उपमद 2” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) क्रम सं० 51 के सामने, स्तम्भ (3) में, “रेपन और सिलिण्ट मून” शब्दों के स्थान पर, “कृत्रिम रेशा सूत, “शब्द रखे जाएंगे।

(3) उक्त अधिसूचना से उपावद्ध सारणी में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

“परन्तु जहां इंजिन की क्षमता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन रखे गए लेखाओं में न दिखाई गई हो वहां, इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, उसका अवधारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर द्वारा, सम्बन्धित मोटरगायन की इंजिन क्षमता के बारे में अन्य साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा।”

[सं० 183 77]

लज्जा राम, उप-सचिव।



## CENTRAL EXCISES

New Delhi the 18th June 1977

**G.S.R. 376(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 3 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Department of Revenue and Company Law, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue and Banking, as the case may be, namely—

- 1 No 127/60-Central Excises, dated the 1st October, 1960,
- 2 No 117/64-Central Excises, dated the 30th May, 1964
- 3 No 85/68-Central Excises, dated the 30th April, 1968,
- 4 No 14B/70-Central Excises, dated the 20th February, 1970,
- 5 No 24/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970
- 6 No 12/72-Central Excises, dated the 22nd January, 1972
- 7 No 120/72-Central Excises, dated the 13th May, 1972
- 8 No 67/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973
- 9 No 6/74-Central Excises, dated the 18th January, 1974
- 10 No 7/74-Central Excises, dated the 18th January, 1974
- 11 No 40/74-Central Excises, dated the 1st March 1974,
- 12 No 16/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974
- 13 No 47/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974
- 14 No 51/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974
- 15 No 82/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974
- 16 No 40/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975
- 17 No 45/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975
- 18 No 51/75-Central Excises dated the 1st March, 1975.
- 19 No 112/75-Central Excises, dated the 30th April, 1975
- 20 No 115/75-Central Excises, dated the 30th April, 1975.
- 21 No 208/75-Central Excises dated the 4th October, 1975
- 22 No 96/76-Central Excises dated the 16th March, 1976
- 23 No 97/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976,
- 24 No 99/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976
- 25 No 105/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976
- 26 No 46/77-Central Excises, dated the 9th April, 1977

[No 184/77]

G K. PILLAI, Under Secy.

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

**सांकांनि० 376(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, यथास्थिति, राजस्व विभाग, राजस्व और कम्पनी विधि विभाग, राजस्व और बीमा विभाग या राजस्व और बैंकिंग विभाग को निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 137/60—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अक्टूबर, 1960
2. सं० 117/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 मई, 1964
3. सं० 85/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1968

4. सं० 143/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 फरवरी, 1970
5. सं० 29 70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970
6. सं० 12 72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 जनवरी, 1972
7. सं० 130/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 मई, 1972
8. सं० 67/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973
9. सं० 6 74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जनवरी 1974
10. सं० 7 74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जनवरी 1974
11. सं० 43/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974
12. सं० 46/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974
13. सं० 47 74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974
14. सं० 51 74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974
15. सं० 82 74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974
16. सं० 46 75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975
17. सं० 45 75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975
18. सं० 51/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975
19. सं० 112 75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975
20. सं० 113 75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975
21. सं० 208 75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 अक्तूबर, 1975
22. सं० 96 76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
23. सं० 97 76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
24. सं० 99/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
25. सं० 105/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
26. सं० 46 77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 अप्रैल, 1977

[सं 184/77]

जी० के० पिल्ले, अवसर सचिव ।

## CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 377(E).**—In exercise of the power conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (5) of section 36 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Banking), namely:—

- 1 No 171/76-Central Excises, dated the 27th May, 1976
- 2 No 172/76-Central Excises, dated the 27th May, 1976

- 3 No. 173/76-Central Excises dated the 27th May, 1976
4. No 174/76-Central Excises dated the 27th May, 1976.
5. No 175/76-Central Excises, dated the 27th May, 1976,
6. No 176/76-Central Excises, dated the 27th May 1976,
7. No 177/76-Central Excises, dated the 27th May, 1976
- 8 No 173/76-Central Excises, dated the 27th May, 1976.

[No 185/77]

### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा०का०नि० 377(अ).—वित्त अधिनियम, 1976(1976 का 66) की धारा 36 की उपधारा (5) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैंकिंग विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 171/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मई, 1976
2. सं० 172/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मई, 1976
3. सं० 173/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मई, 1976
4. सं० 174/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मई, 1976
5. सं० 175/76—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27 मई, 1976
6. सं० 176/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मई, 1976
7. सं० 177/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मई, 1976
8. सं० 178/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मई, 1976

[स० 185/77]

G.S.R. 378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (5) of section 36 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Banking) No 170/76-Central Excises, dated the 27th May, 1976, the Central Government hereby exempts all the goods mentioned in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the auxiliary duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 36 of the Finance Act, 1976 aforesaid, for the period commencing on the 18th day of June, 1977 and ending with the 30th day of June, 1977

[No. 186/77]

सा०का०नि० 378(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1976(1976 का 66) की धारा 36 की उपधारा (5) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैंकिंग विभाग) की अधिसूचना सं० 170/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मई, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित सभी मालों को, उपरोक्त वित्त अधिनियम, 1976 की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन उन पर, उद्ग्रहणीय समस्त सहायक उत्पाद-शुल्क से, 1977 के जून के 18वें दिन आरम्भ और 1977 के जून के 30वें दिन समाप्त होने वाली अवधि के लिए छूट देती है ।

[स० 186/77]

**G.S.R. 379(E).**—Whereas section 4 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), provides for levy of auxiliary duty on all the goods mentioned in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), for the period commencing from the 1st day of July, 1977 and ending with the 31st day of March, 1978, And whereas clause 40 of the Finance (No. 2) Bill, 1977 provides for the repeal of the said section 4 of the Finance Act, 1977,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 4 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government hereby exempts, from the 1st day of July, 1977 and until the enactment by Parliament of the Finance (No. 2) Bill, 1977, all the goods mentioned in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the auxiliary duty leviable thereon under sub-section (1) of section 4 of the Finance Act, 1977

[No 187/77]

(R. K. CHANDRA, Under Secy.

**सा० का० नि० 379(अ).**—वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 4, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित सभी मामलों पर, 1 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली, अवधि के लिए, सहायक शुल्क के उद्ग्रहण का उपबन्ध करती है, और वित्त (सं. 2) विधेयक, 1977 का खंड 40 वित्त अधिनियम, 1977 की उक्त धारा 4 के निरसन का उपबन्ध करती है,

अतः, अब, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 1 जुलाई, 1977 से और समर द्वारा वित्त (सं. 2) विधेयक, 1977 के अधिनियमित होने पर्यन्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित सभी मामलों को वित्त अधिनियम, 1977 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय नमस्त सहायक शुल्क से छूट देती है।

[सं. 187/77]

आर० के० चन्द्र, अवसर सचिव।

#### CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 18th June 1977*

**G.S.R. 380(E)** —In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 173-A of the Central Excise Rules, 1944, and in continuation of the notifications of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue and Banking, as the case may be, No 171/69-Central Excises, dated the 21st June, 1969 121/70-Central Excises, dated the 28th May, 1970, 179/71-Central Excises, dated the 23rd September, 1971, 195/71-Central Excises, dated the 12th November, 1971, 117/72-Central Excises, dated the 25th March, 1972, 161/73-Central Excises, dated the 16th August, 1973, 33/76-Central Excises dated the 28th February, 1976, the Central Government hereby further specifies the following excisable goods as excisable goods to which the provisions of Chapter VII-A of the said rules shall apply, namely:—

The goods comprised in sub-item (vi) of Item No 14H and Item Nos 15D, 18F, 33F, 44, 51A and 61, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)

2 This notification shall come into force on the 18th day of June, 1977

[No 188/77]

G. K. PILLAI, Under Secy.

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा० का० नि० 380(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व और बीमा विभाग या राजस्व और बीमा विभाग की अधिमूचना सं० 171/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जन, 1969, 121/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 मई, 1970, 179/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 सितम्बर, 1971, 195/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 नवम्बर, 1971, 117/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1972, 161/73—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 16 अगस्त, 1973, 33/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1976 के अनुक्रम में, निम्नलिखित उत्पाद-शुल्क मालों को ऐसे उत्पाद-शुल्क माल के रूप में और बिनिदिष्ट करती है जिन्हें उक्त नियमों के अध्याय 7क के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात् —

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1941 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15घ, 18घ, 33घ, 44, 45, 51क और 61 के अन्तर्गत माल ।

2. यह अधिमूचना 18 जून, 1977 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० 188/77]

जी० के० पिल्ले, अव्वर सचिव ।

## CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 18th June 1977

**G.S.R. 381(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue or Department of Revenue and Insurance, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereinafter annexed shall be amended or further, amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

## THE TABLE

S.No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1	68/60- Central Excises, dated the 20th April, 1960	In the said notification, — (i) for the figures, and words "300 horsepower" the figures and words "225 kilowatts" shall be substituted ; (ii) In the Table, for the figures and words "100 horsepower", wherever they occur, the figures and words "75 kilowatts" shall be substituted.
2	140/66- Central Excises, dated the 24th September, 1966	In the opening portion of the said notification, for the words figures and brackets "falling under Item No. 30(4) ," the words figures, brackets and letter "falling under sub-item (C) of Item No. 30", shall be substituted.

(1)

(2)

(3)

3. 73/68- Central Excises, dated the 13th April, 1968

In the said notification,—

(i) for the words, figures and brackets "falling under sub-item (4) of Item No. 30", the words, figures, brackets and letter "falling under sub-item (C) of Item No. 30", shall be substituted,

(ii) for the words, figures and brackets "falling under sub-item (1) to (3) of Item No. 30", the words, figures, brackets and letters "falling under sub-item (A) and (B) of Item No. 30", shall be substituted.

4. 82/72- Central Excises, dated the 17th March, 1972

In the said notification, for the words, figures and brackets "rated capacity exceeding 10 horsepower and falling under sub-item 2(ii) of Item No. 30", the words, figures, brackets and letter "rated capacity exceeding 7.5 kilowatts and falling under sub-item (A) (2) (ii) and (B) (ii) of Item No. 30", shall be substituted.

5. 83/72- Central Excises, dated the 17th March, 1972.

In sub-paragraph (1) of the proviso to the said notification for the words, figures and brackets "falling under sub-Item 2 (ii) of the said Item No. 30", the words, figures, brackets and letter "falling under sub-Item (A) (2) (ii) and (B) (ii) of Item No. 30" shall be substituted.

6. 85/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.

The Explanation to the said Notification shall be omitted.

[No 189/77]

### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 जून, 1977

सा० का० नि० 381(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है कि भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग या राजस्व और वीमा विभाग की वे अधिसूचनाओं, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित अथवा और आगे संशोधित की जाएंगी।

## सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1. 68/70—	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 1960	उक्त अधिसूचना में,— (i) “300 अश्वशक्ति” शब्दों और शब्दों के स्थान पर, “225 किलोवाट” शब्द रखे जाएंगे, (ii) सारणी में, “100 अश्वशक्ति” शब्द और शब्द, जहाँ कहीं भी वे आए हों, उनके स्थान पर, “75 किलोवाट” शब्द और शब्द रखे जाएंगे.
2. 140/65—	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 मितम्बर, 1966]	उक्त अधिसूचना के प्रारम्भिक भाग में, “मद सं० 30(4) के अन्तर्गत सम्मिलित”, शब्दों, कोष्ठों और शब्दों के स्थान पर, “मद सं० 30 की उपमद (ग) के अन्तर्गत सम्मिलित” शब्द, शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
3. 73/68—	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 अप्रैल, 1968	उक्त अधिसूचना में,— (i) “मद सं० 30 की उपमद (4)” के अन्तर्गत सम्मिलित शब्दों, शब्दों और कोष्ठों के स्थान पर, “मद सं० 30” की उपमद (ग) के अन्तर्गत सम्मिलित शब्द, शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ; (ii) “मद सं० 30 की उपमद (1) से (3) तक के अन्तर्गत सम्मिलित” शब्दों, शब्दों और कोष्ठों के स्थान पर, “मद सं० 30 की उपमद (क) (ख) के अन्तर्गत सम्मिलित” शब्द, शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
4. 82/72—	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972	उक्त अधिसूचना में, “प्रथम अनुसूची की मद सं० 30 की उपमद 2(ii) के अन्तर्गत आने वाली ऐसी बैद्युत मोटरों को जो कि 400 वाट से अधिका के दाब पर परिपथ के लिए प्रयोग में लाए जाने के लिए डिजाइन की गई है और जिनकी नियत क्षमता 10 अश्वशक्ति से अधिक है”

(1)

(2)

(3)

शब्दों, अर्को और कोष्टको के स्थान पर, "प्रथम श्रतुसूची की मद सं० 30 की उपमद (क) (2)(ii) और (ख) (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित ऐसी वैद्युत मोटरों को जिन्हें 400 वाट के अधिक के दाब के परिपथ में प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है और जिनकी नियत (रेटेड) क्षमता 7 25 किलोवाट से अधिक है," शब्द, अक, अक्षर और कोष्टक रखे जाएंगे ।

5. 83 72--केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नारीख 17 उक्त अधिसूचना के परन्तुक के उपपैरा  
माच, 1972  
(i) में, "मद सं० 30 की उपमद (2)  
(ii) के अन्तर्गत आने वाली" शब्दों,  
अर्को और कोष्टको के स्थान पर, "मद  
सं० 30 की उपमद (क) (2)(ii)  
और उपमद (ख) (ii) के अन्तर्गत  
सम्मिलित" शब्द, अक, अक्षर और कोष्टक  
रखे जाएंगे ।
6. 85 72--केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नारीख 17 उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण का लोप  
माच, 1972 ।  
किया जाएगा ।

[सं० 189 77]

**G S.R. 382(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, No. 84/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, the Central Government hereby exempts power driven pumps falling under Item 30A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of five per cent *ad valorem*:

Provided that—

- (a) (i) where power driven pumps on which the duty of excise is leviable are fitted with duty paid internal combustion engines falling under sub-item (ii) of Item No 29 or electric motors falling under sub-item (A)(2)(ii), or sub-item (B)(ii) of Item No 30, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, such power driven pumps shall also be exempt from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, already paid on such internal combustion engines or electric motors,
- (ii) where power driven pumps on which the duty of excise is leviable are fitted with duty paid electric motors, other than those electric motors falling under sub-item (A)(2)(ii), or sub-item (B)(ii), of Item No. 30 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, or



fitted with duty paid rotors or stators falling under that Item of the aforesaid Schedule, such power driven pumps shall also be exempt from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise or the additional duty determined under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is equivalent to the duty of excise calculated at the rate of five per cent *ad valorem* on such electric motors or rotors or stators, as the case may be,

- (b) Provided further that where the duty of excise leviable on power-driven pumps is less than the amount of duty of excise or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in clause (i) or, as the case may be, determined under clause (ii) of the first proviso with respect to internal combustion engines, electric motors, rotors or stators, then, no part of the duty so specified or determined shall, if paid, be refunded to the manufacturer

[No. 190/77]

सं० का० नि० 382 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय; राजस्व और बीमा विभाग की अधिसूचना सं० 84/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 की अधिज्ञात करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 30 के अन्तर्गत सम्मिलित पावर से चलने वाले पम्पो को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना पाच प्रतिशत मूलानुसार से अधिक हो ।

परन्तु यह कि,—

- (क) (i) जहाँ पावर से चलने वाले पम्प, जिन पर उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 29 की उपमद (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित अन्तर्दहन इंजनो सहित अथवा मद सं० 30 की उपमद (क) (2) (ii) या उपमद (ख) (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित वैद्युत मीटरों सहित फिट हो वहा पावर से चलने वाले ऐसे पम्पो को भी उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट दी जाएगी जितना कि उस उत्पाद-शुल्क के अथवा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अनतिरिक्त शुल्क के, जो कि ऐसे अन्तर्दहन इंजनो या वैद्युत मोटरो पर पहले ही संदत्त किया जा चुका हो, समतुल्य है ;

- (ii) जहां पावर से चलने वाले पम्प, जिन पर उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 30 की उपमद (क) (2) (ii) या उपमद (ख) (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित वैद्युत मोटरो से भिन्न, शुल्क संदत्त वैद्युत मोटरो सहित अथवा उपर्युक्त अनुसूची की उक्त मद के अन्तर्गत सम्मिलित शुल्क संदत्त रोटरों या स्टेटरों सहित फिट हो, वहा पावर से चलने वाले ऐसे पम्पो, को, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट दी जाएगी जितना ऐसे वैद्युत मीटरों अथवा रोटरों या स्टेटरों पर मूलानुसार पाच प्रतिशत की दर से सगणित उत्पाद-शुल्क के समतुल्य उत्पाद-शुल्क अथवा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अवधारित अनतिरिक्त शुल्क के समतुल्य है ;

- (ख) परन्तु यह और कि जहा पावर से चलने वाले पम्पो पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क अन्तर्दहन इंजनों, वैद्युत मोटरो, रोटरों का स्टेटरों की बाबत प्रथम परल्लुक्त

के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अथवा खंड (ii) में अवधारित, यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क में कम है वहां इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अवधारित शुल्क का कोई भी भाग, जिसका संदाय कर दिया गया हो, विनिर्माता को वापस नहीं किया जाएगा।

[सं० 190/77]

**G.S.R. 383(E).**—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely:—

In the Table annexed to the said notification—

in column (2), against Sl. No 1,—

- (i) for the entry "Wireless Receiving Sets, all sorts, including any combination of two or more of the following, namely, Broadcast Television Receiver sets, Radios (including Transistor sets), Gramophones (including Record Players, Record Playing Decks and Record Changing Decks) and Tape Recorders (including Cassette Recorders and Tape Decks), in each case whether with or without loud-speaker," the entry "Wireless receiving sets, all sorts, including any combination of two or more of the following, namely, Broadcast Television Receiver sets, Radios (including Transistor sets), Gramophones (including Record Players, Record Playing Decks and Record Changing Decks), Tape Recorders (including Cassette Recorders and Tape Decks) and Tape Players (including Cassette Players)" shall be substituted;
- (ii) for the entry "Motor vehicles" the entry "Motor vehicles and Tractors" shall be substituted;
- (iii) for the entry "Tape recorders (including cassette recorders)" the entry "Tape recorders (including cassette recorders and Tape decks) and Tape players (including cassette players)" shall be substituted.

[No. 191/77]

R K CHANDRA, Under Secy.

**सा० का० नि० 383(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख, 17 नवम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

स्तम्भ (2) में, क्रम सं० 1 के सामने —

- (i) "बेतार रिसेविंग सेट, सभी प्रकार के जिनमें निम्नलिखित में से दो या अधिक का संयोजन भी आता है जिनमें टेलिवीजन रिसेवर सेट, रेडियो (जिसके अन्तर्गत ट्राजिस्टर सेट भी हैं), ग्रामोफोन (जिसके अन्तर्गत रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड प्लेयिंग डेक और रिकार्ड चेंजिंग डेक भी हैं) और टेप रिकार्डर (जिसके अन्तर्गत कैपेट रिकार्डर और टेपडैक भी हैं) आते हैं प्रत्येक दशा में चाहे वे लाऊड स्पीकर सहित हो अथवा रहित" प्रविष्टि के स्थान पर, "बेतार रिसेविंग सेट, सभी प्रकार के, जिनमें से या दो अधिक का संयोजन भी आता है, अर्थात् ब्राडकास्ट टेलिवीजन रिसेवर सेट, रेडियो (जिसके अन्तर्गत ट्राजिस्टर

सेट भी हैं) ग्रामोफोन जिसके अन्तर्गत रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड प्लेयिंग डैक और रिकार्ड चेंजिंग डैक भी है), टेप रिकार्डर (जिसके अन्तर्गत कैसेट टेप रिकार्डर और टेप डैक भी हैं) और टेप प्लेयर (जिसके अन्तर्गत कैसेट प्लेयर भी हैं)” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) “मोटरयान” प्रविष्टि के स्थान पर “मोटरयान और ट्रेक्टर” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(iii) “टेप रिकार्डर (जिसके अन्तर्गत कैसेट रिकार्डर भी हैं)” प्रविष्टि के स्थान पर, “टेप रिकार्डर (जिसके अन्तर्गत कैसेट रिकार्डर और टेप डैक भी हैं) और टेप प्लेयर (जिसके अन्तर्गत कैसेट प्लेयर भी हैं)” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[सं. 191/77]

भार० के० चन्द्र, अवर सचिव ।

